



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25—अक्तूबर 1, 2010 (आश्विन 3, 1932)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25—OCTOBER 1, 2010 (ASVINA 3, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई, दिनांक 27 अगस्त 2010

बैंपवि. सं. आरईटी बीसी. 37/12.06.004/2010-11--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से "स्टेट बैंक ऑफ इंदौर" को हटाने का निर्देश देता है क्योंकि 26 अगस्त 2010 से उपर्युक्त बैंक ने बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है।

आनंद सिन्हा  
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

मुम्बई, दिनांक 28 अगस्त 2010

एसबीडी क्र./3/2010-11--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 29(1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से श्री प्रदीप कुमार पांजा को कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

ओम प्रकाश भट्ट  
अध्यक्ष

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली \_\_\_\_\_ 2008

संख्या ए-12(11)/1/1996-चि.4 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप धारा (1) और धारा 17 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम एतद्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-**

- (i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारतीय चिकित्सा पद्धति में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद) भर्ती विनियम, 2008 कहे जायेंगे।
- (ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. अनुप्रयोज्यता :**

ये विनियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे।

**3. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :**

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

**4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :**

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

**5. निरर्हता :**

ऐसा कोई व्यक्ति :-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं ।

**6. ढील देने की शक्ति :**

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा कालोचित है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं ।

**7. अपवाद :**

इन विनियमों की कोई बात आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है ।

**डॉ. सी.एस. केदार**  
**महानिदेशक**

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. सलाहकार वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर पद (भा.चि.प.)	*1 * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय है	ग्रुप "क" गैर लिपिकीय	पौ.बी.-4 में 10,000/- रुपये का ग्रेड वेतन और केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सदृश पदों पर यथा स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति हैं तो उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13	14
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर स्थानांतरण द्वारा या ठेके के माध्यम से।	<p>पदोन्नति द्वारा</p> <p>पी.बी. 4 में ग्रेड वेतन 8700/- रुपये के वेतनमान में 3* वर्ष की नियमित सेवा अथवा समूह 'क' में कुल 17 वर्ष की नियमित सेवा वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी।</p> <p><b>*टिप्पणी :</b></p> <p>चिकित्सा प्रमाण-पत्र और अध्ययन प्रयोजन के अलावा अन्य कारणों से ली गई असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा :</b></p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन अधिकारी :</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पदधारी;</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) पी.बी. 4 में 8700/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ या समतुल्य में 3 वर्ष की नियमित सेवा</p> <p>अथवा</p> <p>(iii) पी.बी. 3 में 7800/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ या समतुल्य में 8 वर्ष की नियमित सेवा; तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता व अनुभव रखने वाले :-</p> <p><b>अनिवार्य</b></p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/सांविधिक राज्य बोर्ड/परिषद्/भारतीय चिकित्सा संकाय से आयुर्वेद में डिग्री अथवा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त समतुल्य।</p> <p>(ii) भारतीय आयुर्विज्ञान के केन्द्रीय रजिस्टर पर अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान के राज्य रजिस्टर पर नामांकन तथा</p> <p>(iii) व्यवसाय में 15 वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>टिप्पणी 1 :</b></p> <p>इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्व केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में धारित दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणी 2 :</b></p> <p>पदोन्नति हेतु अधिकारियों की पात्रता सूची संबंधित ग्रेड में अधिकारियों द्वारा उचित अर्हक सेवा की समाप्ति की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p><b>ठेके के माध्यम से :</b></p> <p>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अपेक्षा पूरी करने वाले चिकित्सा अधिकारी की एक वर्ष के लिए अल्पावधि नियुक्ति।</p>	<p>पदोन्नति पर विचारार्थ (ग्रुप 'क' विभागीय पदोन्नति समिति)</p> <p>1. सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार -अध्यक्ष</p> <p>2. महानिदेशक, क.रा.बी. निगम -सदस्य</p>	लागू नहीं

## तेजपुर विश्वविद्यालय

तेजपुर विश्वविद्यालय एक्ट 1993 के द्वितीय अनुच्छेद का अधिनियम  
तेजपुर-784028, दिनांक 26 अगस्त 2010

(विजिटर द्वारा यथा संशोधित एवं अनुमोदित एम. एडच. आर. डी का पत्र F संख्या 14-1/2010 - डेस्क (यू)  
दिनांक 07.07.2010)

तेजपुर विश्वविद्यालय एक्ट 1993 के द्वितीय अनुच्छेद का अधिनियम 2 की संख्या 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) और 2(6) को संख्या 2(i), 2(ii), 2(iii), 2(iv), 2(v) और 2(vi) के रूप में क्रमानुसार परिवर्तित किया गया है।

तेजपुर विश्वविद्यालय एक्ट 1993 के द्वितीय अनुच्छेद का अधिनियम 2 की संख्या 5(i), 5(ii), 5(iii), 5(iv) और 5(v) को संख्या v(a), v(b), v(c), v(d) और v(e) के रूप में क्रमानुसार परिवर्तित किया गया है।

तेजपुर विश्वविद्यालय एक्ट 1993 के द्वितीय अनुच्छेद का अधिनियम 2(4)

नियुक्ति की तिथि से विश्वविद्यालय के कुलपति पाँच साल तक कार्यनिवाह करेंगे अथवा सत्तर साल की आयु तक सेवा प्रदान करेंगे। इन दोनों शर्तों में से जो पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर कुलपति पुनः नियुक्ति उपरुल्लेखित आयु सीमा के आधारपर होंगी।

उपयुक्त पाँच साल की पूर्णावधि की समाप्ति के पश्चात जबतक उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी और कार्यनिवाह नहीं करेंगे, तब तक वे ही कार्यनिवाह करते रहेंगे।

इसके अतिरिक्त विजिटर किसी भी कुलपति को उनकी कार्यावधि की समाप्ति के पश्चात सिर्फ एक साल के लिए, जो उनके द्वारा निर्दिष्ट होगा, सेवा जारी रखने की अनुमति प्रदान कर सकेंगे।

ए. के. बुरागोहैन  
रजिस्ट्रार

## भारतीय बीमांकक संस्थान

### 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद् की चौथी रिपोर्ट

31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और 30.08.2009 को अंतिम वार्षिक साधारण बैठक से उक्त अवधि तक के लिए गतिविधियों की अपनी चौथी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में परिषद् को प्रसन्नता है।

#### 1. वातावरण

उत्पाद डिजाइन, प्रभारित ढांचे तथा वितरण से संबंधित मुद्दों के बारे में उल्लेखनीय विनियामक परिवर्तनों के फलस्वरूप जीवन तथा जीवनेतर उद्योग चुनौती-भरे समय से गुजर रहे हैं। आशा की जाती है कि जीवन बीमाकर्ता अब यूनिट-सम्बद्ध उत्पादों से गैर यूनिट-सम्बद्ध उत्पादों की ओर अपना रुख करेंगे। खर्चों को नियंत्रित करने तथा बीमा प्रक्रिया को और कार्यक्षम एवं व्यापक बनाने पर उल्लेखनीय दबाव पड़ रहा है। बीमाकर्ता कई वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रहे हैं। परिषद् का विश्वास है कि प्रभारों की अधिकतम सीमा तय की शुरुआत करना तथा अर्थदंड को समाप्त करना ग्राहकों के हित में एक स्वागतयोग्य कदम है और इससे ग्राहक का मूल्य बढ़ेगा। तथापि, किसी जीवन बीमा उत्पाद को बेचने की कठिनाई और विद्यमान वितरण मॉडलों में लगे उल्लेखनीय खर्चों के कारण, प्राइवेट जीवन बीमा उद्योग की वृद्धि सामान्य रहने की उम्मीद है। यह देखना अच्छा लगेगा कि मौजूदा वास्तविक स्थिति में जीवन कंपनियां अपनी रणनीति में कैसे परिवर्तन करती हैं। विगत कुछ वर्षों में, शुरुआती वर्षों में उल्लेखनीय हानियां उठाने के बाद अनेक जीवन बीमाकर्ताओं ने लाभ कमाया है। यह बात महत्व की है कि बीमाकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति को बनाए रखा ताकि जोखिम उठानेवालों को सकारात्मक संकेत मिले।

जनवरी 2007 में जीवनेतर उद्योग को टैरिफ-मुक्त कर दिया गया। टैरिफ-मुक्ति के फलस्वरूप, जीवनेतर बीमाकर्ताओं के बीच 'मूल्य-युद्ध' छिड़ गया जिससे भारी हामीदारी हानि हुई। जीवनेतर बाजार में नए लोगों के प्रवेश करने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और दरों में और कमी आई है। पहले के टैरिफ की तुलना में कंपनी फायर पोर्टफोलियो में छूट 90% तक पहुंच गई है। परम्परागत तौर पर, बीमांकक कंपनियों के जीवनेतर उद्योग में टैरिफ से संबंधित मूल्यों में कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं रही थी। टैरिफ-मुक्ति के बाद, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) ने जीवनेतर कंपनियों में लगे बीमांककों की भूमिका को विस्तृत किया है। ऐसा करने के पीछे उनकी सोच यह थी कि तकनीक मूल्यन एवं पुनः सेवा प्रदान करने में उनकी वर्धमान बीमांकिक भूमिका होगी। इसके अतिरिक्त, सभी जीवनेतर कंपनियों से यह अपेक्षा की गई कि वे 30 सितंबर 2010 तक आइआरडीए को वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय स्थिति रिपोर्ट (एफसीआर) प्रस्तुत करेंगे। संक्षेप में, इस रिपोर्ट का उद्देश्य कंपनी की दिवालिया स्थिति के कार्यक्षम भावी विकास का विश्लेषण करना और कंपनी के निदेशक मंडल तथा आइआरडीए को पहले से ही चेतावनी-सूचना देना है ताकि दिवाला से होनेवाली क्षति को कम किया जा सके। इस प्रकार, एफसीआर सांविधिक अपेक्षाओं के

लिए एक 'भावी फोकस' का काम करती है और आर्थिक वातावरण में होनेवाले परिवर्तनों, अनुभव किए गए दावों एवं मूल्यन-नीति तथा अन्य संगत कारणों की संवेदनशीलता की जांच करती है।

मोटे तौर पर, वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां जोखिम के तीन प्रकारों का सामना करती हैं - प्रचालनात्मक जोखिम, वित्तीय जोखिम तथा बाजार जोखिम। प्रचालनात्मक जोखिम में बिक्री, तकनीकी जोखिम आदि शामिल हैं। वित्तीय जोखिम में जोखिम से संबंधित परिसंपत्ति तथा बेमेल देनदारी शामिल होगी, जबकि दूसरी ओर बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम, शेयर जोखिम आदि शामिल हैं। बीमा कंपनियों के लिए खासकर कुछ अन्य प्रकार के जोखिम हैं- मूल्यन जोखिम, बीमा जोखिम आदि। अन्य क्षेत्र में विनियामक का दखल देना भी एक नोट करने लायक जोखिम है। व्यापक जोखिम प्रबंध ढांचे की स्थापना में कंपनी संचालन मार्गदर्शी सिद्धांत के कार्यान्वयन के बारे में हाल ही की अधिसूचना का जारी किया जाना आइआरडीए का एक स्वागतयोग्य कदम है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य भी बना दिया है कि उन्हें निदेशकों की एक जोखिम समिति भी रखनी होगी। जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में बीमांकिक छात्रों के लिए इससे रोजगार के उल्लेखनीय अवसर उपलब्ध होंगे। आइएए ढांचे की तरह ही, परम्परागत बीमांकिक छात्रों को जोखिम विशेषज्ञ बनाने के लिए यह संस्थान प्रमाणित उद्यमी जोखिम विश्लेषक (सीईआरए) पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रयास कर रहा है। इस क्षेत्र में इस व्यवसाय के विपणन में हाथ लगाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया जाना अपेक्षित है।

पेंशन तथा कर्मचारी हितलाभ के क्षेत्र में किसी प्रकार का उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान लेखांकन मानक 15 में पुनः कुछ परिवर्तन करने पर संभवतः विचार कर रहा है। पीएफआरडीए तथा सरकार नई पेंशन स्कीम को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि यह स्कीम अंशदान परिभाषित एक स्कीम है, किंतु उम्मीद है कि बीमांकिकों के लिए इससे कुछ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

## 2. सदस्यता

संस्थान की निवल सदस्यता बढ़कर 21.6% हो गई है जिसका विश्लेषण नीचे दिया गया है:

### 2.1 विश्लेषण

सदस्यता की श्रेणी	31.3.2002 को	31.3.2003 को	31.3.2004 को	31.3.2005 को	31.3.2006 को	31.3.2007 को	31.3.2008 को	31.3.2009 को	31.3.2010 को
अध्यता (फेलो) सदस्यता	204	200	204	203	213	217	215	203	218
सम्बद्ध सदस्यता	19	23	24	18	23	27	18	20	16
सह-सदस्यता	122	118	120	136	131	135	134	132	130
सह-सदस्यताओं के अलावा छात्र	1494	1905	2815	3438	5552	8200	6518	8340	10215
योग	1839	2246	3163	3843	5819	8579	6885	8695	10578
मानार्थ अध्यता	6	6	6	6	6	6	6	6	6
सकल योग	1845	2252	3169	3849	5825	8585	6891	8701	10584

यह देखा जा सकता है कि सदस्यता में वृद्धि केवल छात्रों में हुई है।



### 3. समितियां/सलाहकार समूह तथा परिषद्

#### 3.1 31.3.2010 को कार्यरत परिषद् के सदस्य

##### क्रम सं. सदस्य के नाम

1. जी एन अगरवाल, अध्यक्ष
2. के एस गोपालकृष्णन, उपाध्यक्ष
3. जी एल एन शर्मा, अवैतनिक सचिव
4. तरुण बजाज (केन्द्रीय सरकार के नामिती)
5. आर कन्नन (बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण से नामिती)
6. हीरक बसु
7. एस मधुसूदनन
8. के के वाधवा
9. टी भार्गव
10. ए डी गुप्ता
11. अनिलकुमार सिंह
12. ए आर प्रभु
13. एन कल्पना
14. विभा बगेरिया

#### 3.2 बैठकें

28.8.2009 को अंतिम एजीएम से इस एजीएम तक, निम्नलिखित तारीखों को परिषद् की मुंबई में 5 बैठकें हुई:

##### क्रम सं. तारीख

1. 14.11.2009
2. 19.02.2010
3. 10.03.2010
4. 08.05.2010
5. 14.08.2010

#### 3.3 पदाधिकारी

निम्नलिखित पदाधिकारी 3.1.2009 से आगे भी संस्थान की सेवा में रहे:

- |    |                   |                         |
|----|-------------------|-------------------------|
| 1. | जी एन अगरवाल      | अध्यक्ष                 |
| 2. | के एस गोपालकृष्णन | उपाध्यक्ष (8.5.2010 तक) |

- |    |                |                         |
|----|----------------|-------------------------|
| 3. | ए डी गुप्ता    | उपाध्यक्ष (8.5.2010 से) |
| 4. | जी एल एन शर्मा | अवैतनिक सचिव            |

### 3.4 समितियां

#### 3.4.1 शिक्षा तथा परीक्षा समिति

3 जनवरी, 2009 के कार्यालय आदेशानुसार शिक्षा तथा परीक्षा समिति का गठन किया गया और अध्यक्ष ने 31 मार्च 2010 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ इसका पुनर्गठन किया।

समिति के सदस्य :

- |    |                |         |
|----|----------------|---------|
| 1. | जी एल एन शर्मा | अध्यक्ष |
| 2. | ए के सिंह      | सदस्य   |
| 3. | एन कल्पना      | सदस्य   |
| 4. | आर वैद्यनाथन   | सदस्य   |

यह समिति परिषद् को रिपोर्ट करती है।

आलोच्य वर्ष के दौरान इस समिति की 29 मई 2010 तथा 17 जून 2010 को बैठक हुई और इसने सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष ने सदस्यों और परीक्षा संबंधी सलाहकार समूह तथा शिक्षा संबंधी सलाहकार समूह के अध्यक्षों के साथ नए विषयों को शुरू करने, छूट देने, अन्य बीमांकिक निकायों के साथ पारस्परिक मान्यता-करार तथा परीक्षा एवं शिक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों पर अनेक प्रकार के परामर्श किए।

#### 3.4.2 सीपीडी / सीओपी समिति

3 जनवरी, 2009 को परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यास प्रमाणपत्र समिति (सीओपी समिति) का गठन इस प्रकार किया गया है:

समिति के सदस्य :

- |    |                   |         |
|----|-------------------|---------|
| 1. | जी एन अगरवाल      | अध्यक्ष |
| 2. | के एस गोपालकृष्णन | सदस्य   |
| 3. | डा. आर कन्नन      | सदस्य   |

यह समिति परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। यह समिति नए अभ्यास प्रमाणपत्र जारी करने या उनके नवीकरण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे अभ्यास प्रमाणपत्र के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं।

इस समय अभ्यास प्रमाणपत्र (सीओपी) नियुक्त बीमांककों को जीवन, साधारण तथा पुनर्बीमा क्षेत्रों में उनकी विनियामक की भूमिका के अनुपालन के लिए जारी किए जाते हैं। वर्ष 2009-10 के लिए जारी किए गए/नवीकृत किए गए सीओपी इस प्रकार हैं:

### जारी किए गए सीओपी

जीवन बीमा	-	5
साधारण बीमा	-	7
जीवन पुनर्बीमा	-	1
साधारण पुनर्बीमा	-	0

### नवीकृत किए गए सीओपी

जीवन बीमा	-	24
साधारण बीमा	-	23
जीवन पुनर्बीमा	-	1
साधारण पुनर्बीमा	-	1

### 3.4.3 वित्त और निवेश समिति

इस समिति का पुनर्गठन 22 जनवरी, 2009 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया था :

1.	के एस गोपालकृष्णन	अध्यक्ष
2.	हीरक बसु	सदस्य
3.	विभा बगेरिया	सदस्य
4	ए आर प्रभु	सदस्य

यह समिति परिषद् को रिपोर्ट करती है।

इस समिति की 20 जून 2009, 5 सितंबर 2009 तथा 13 फरवरी 2010 को बैठकें हुईं।

### 3.4.4 लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ 22 जनवरी 2009 को किया गया:

1.	ए डी गुप्ता	अध्यक्ष
2.	विभा बगेरिया	सदस्य
3.	प्रदीप कुमार महापात्रो	सदस्य

यह समिति परिषद् को रिपोर्ट करती है।

इस समिति की बैठक 27 जून 2009 को हुई और 14 अगस्त 2010 को इसकी पुनः बैठक होगी।

### 3.4.5 अनुशासनिक समिति

बीमांकक अधिनियम 2006 की धारा 26 के अनुसार भारतीय बीमांकक संस्थान अनुशासनिक समिति का गठन इस प्रकार किया गया है:

1.	ए डी गुप्ता	अध्यक्ष
2.	उत्तम प्रकाश अगरवाल	सदस्य
3.	श्री ललित कुमार	सदस्य
4.	के के वाधवा	सदस्य
5.	ए आर प्रभू	सदस्य

श्री आर. एल. नरसिंहन तथा श्री गुरुराज नायक, प्रशासनिक अधिकारी, क्रमशः अभियोजन निदेशक तथा पदनामित व्यक्ति के रूप में उक्त समिति में काम करेंगे।

## 3.5 सलाहकार समूह

### 3.5.1 शिक्षा-संबंधी सलाहकार समूह

शिक्षा-संबंधी सलाहकार समूह का गठन अध्यक्ष के दिनांक 03 जनवरी 2009 के कार्यालय आदेश द्वारा किया गया और 21 नवंबर 2009 को समिति के अध्यक्ष ने इसका पुनर्गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	बी एन रंगराजन	अध्यक्ष
2.	संजीव कुमार	सदस्य
3.	संचित मैनी	सदस्य
4.	पी के दिनाकर	सदस्य
5.	राजेश डालमिया	सदस्य
6.	एस मधुसूदनन	सदस्य
7.	देवाशीश सेनगुप्ता	सदस्य
8.	संकर्षण बसु	सदस्य
9.	वरुण गुप्ता	सदस्य
10.	एन कल्पना	सदस्य
11.	पौर्णिमा गुप्ते	सदस्य

यह समूह शिक्षा और परीक्षा समिति (ईईसी) को रिपोर्ट करता है। वर्ष के दौरान शिक्षा संबंधी सलाहकार समूह की क्रमशः 21 सितंबर 2009, 29 जनवरी 2010 तथा 10 जून 2010 को शिक्षा, पाठ्यक्रम, नए विषयों को प्रारंभ करने, अन्य बीमांकिक निकायों आदि के साथ एमआरए से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक हुई।

### 3.5.2 परीक्षा संबंधी सलाहकार समूह

03 जनवरी 2009 के कार्यालय आदेशानुसार परीक्षा संबंधी सलाहकार समूह का गठन किया गया था और अध्यक्ष ने 16 जनवरी 2010 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ इसका पुनर्गठन किया:

#### सलाहकार समूह के सदस्य :

1.	आर श्रीनिवास राव	अध्यक्ष
2.	ए के सिंह	सदस्य
3.	प्रीतेश चौबे	सदस्य
4.	विवेक जालान	सदस्य
5.	एस पी चक्रवर्ती	सदस्य
6.	अर्पण थानावाला	सदस्य
7.	धीरज मिश्र	सदस्य
8.	गौतम कक्कड़	सदस्य
9.	राजीव कुमार	सदस्य
10.	डी साइ श्रीनिवास	सचिव
11.	भरत वेंकटरमणि	सचिव

यह समूह शिक्षा और परीक्षा समिति (ईईसी) को रिपोर्ट करता है। वर्ष के दौरान परीक्षक पैनल, पेपर सेटिंग तथा मार्किंग के मानक, छात्रों की शिकायतों को दूर करने के तरीके आदि जैसे परीक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए सलाहकार समूह की 18 जुलाई 2009, 27 अगस्त 2009, 21 नवंबर 2009, 22 दिसंबर 2009, 19 फरवरी 2010, 19 मई 2010 (ईईसी के साथ संयुक्त बैठक) तथा 17 जुलाई 2010 (ईईसी के साथ संयुक्त बैठक) को बैठकें हुई।

### 3.5.3 जीवन बीमा संबंधी सलाहकार समूह

आज की तारीख तक जीवन बीमा संबंधी सलाहकार समूह के सदस्य इस प्रकार हैं:

1.	हीरक बसु	अध्यक्ष
2.	डा. आर कन्नन	सदस्य
3.	वी राजगोपालन	सदस्य
4.	टी भार्गव	सदस्य
5.	जी एल एन शर्मा	सदस्य
6.	एन एम गोवर्धन	सदस्य
7.	संकेत कवटकर	सदस्य
8.	आर पद्मजा	सदस्य
9.	अभिषेक सराफ	सदस्य
10.	पाल अंटोनी बेरेसफोर्ड	सदस्य
11.	ऐशले रिबेलो	सदस्य
12.	जान पूले	सदस्य
13.	पी के थपलियाल	सचिव

यह समूह परिषद् को रिपोर्ट करता है। इस अवधि में सलाहकार समूह की बैठकें 27 अगस्त 2009, 29 अक्टूबर 2009, 26 फरवरी 2010 तथा 10 मार्च 2010 को हुई।

### सलाहकार समूह की गतिविधियां :

जीवन बीमा क्षेत्र में चालू मुद्दों (सीआइएलए) पर होटल सी प्रिंसेस, मुंबई में 27 तथा 28 अगस्त 2009 को चर्चा की गई। इसमें नीचे दिए गए विषय प्रस्तुत किए गए :

- भारत में एकीकृत-सह-लाभ कारबार के बारे में लेखन के मुद्दे - श्री प्रदीप थपलियाल
- सार्वभौमिक जीवन उत्पाद - श्री के. एस. गोपालकृष्णन
- आर्थिक पूंजी - श्री वरुण गुप्ता तथा श्री बी. एन. रंगराजन द्वारा प्रस्तावना

- जीवन बीमा के लिए आइएफआरएस - श्री रोहन सचदेव
- वित्तीय पुनर्बीमा - श्री आर. श्रीनिवास राव
- परिसंपत्ति - देयता प्रबंधन - डा. आर. कन्नन
- उद्यम जोखिम प्रबंधन - श्री एम. सुब्रह्मण्यम
- जीवन बीमा उत्पादों का उद्‌विकास - मुद्दे एवं चिंता के विषय - श्री एस. पी. चक्रवर्ती तथा पी. के. मैती
- स्वास्थ्य बीमा उत्पाद - श्रीमती जे. अनीता तथा श्री डीएनकेएलएनके चक्रवर्ती
- भारत में जीवन बीमा कंपनियों का कराधान - श्री पुनीत शाह
- जीवन बीमा कंपनी में निधि प्रबंधन - श्री अभिजीत गुलनिकर

श्री यू. पी. अगरवाल, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान, ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस सेमीनार में 100 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया।

29 अक्टूबर 2009 को जीवन बीमा उद्योग में आर्थिक पूंजी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 90 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

- आर्थिक पूंजी - अन्य बाजारों में आर्थिक पूंजी का कार्यान्वयन - श्री नाइगेल नोल्स के अनुभव
- भारत में विशिष्ट अनुभव के संदर्भ में आर्थिक पूंजी अंशांकन के क्षेत्र में चुनौतियों से संबंधित आंकड़े - श्री जाफरे ए यू तथा श्री संजीव कुमार
- आर्थिक पूंजी - गणना तथा कार्यशाला के परिणामों की प्रस्तुति के संबंध में कार्यशाला - श्री वरुण गुप्ता तथा श्री बी. एन. रंगराजन

साथियों की समीक्षा के लिए वर्तमान संव्यावसायिक मार्गदर्शन की समीक्षा के विषय में तथा किसी प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आने की स्थिति में जीवन बीमा कंपनियों के मूल्यांकन के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए भी इस समय एक समूह कार्य कर रहा है।

### 3.5.4 साधारण बीमा संबंधी सलाहकार समूह

साधारण बीमा संबंधी सलाहकार समूह में निम्नलिखित सदस्य हैं:

**सलाहकार समूह के सदस्य:**

- |    |            |         |
|----|------------|---------|
| 1. | ए आर प्रभु | अध्यक्ष |
| 2. | जे अनीता   | सदस्य   |

3.	एन के पारिख	सदस्य
4.	एस बालकृष्ण अय्यर	सदस्य
5.	तानिया चक्रवर्ती	सदस्य
6.	एम वेंकटेशन	सदस्य
7.	वीरेश गिरि	सचिव

यह समूह परिषद् को रिपोर्ट करता है।

वर्ष के दौरान इस समूह की बैठक 12.10.2009 तथा 30.10.2009 को हुई जिसमें जीवनेतर कारबार के बारे में वर्तमान मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हुए नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखा:

(क) छात्रों/सदस्यों/फेलो/सम्बद्ध सदस्यों के बीच जीवनेतर क्षेत्र के व्यवसाय के लिए विकल्प देनेवाले नए मेधावी लोगों को आकर्षित किया जाए।

(ख) उन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए प्रतिस्पर्धी टैरिफ-मुक्त स्थितियों में व्यवसाय वृद्धि के निम्नतर स्तर पर आर्थिक भविष्यवाणी, रेडियो विश्लेषण, व्यवसाय योजना की रूपरेखा पर जोर देते हुए उत्पाद विशेषताओं, जोखिम तत्त्वों, श्रेणी निर्धारण तथा कीमत निर्धारण पर विचार, हमीदारी, आइबीएनआर पर सेमीनार आयोजित किए जाएं।

इनमें से अधिकांश विषयों को शामिल करते हुए समूह ने दो सेमीनार आयोजित किए और इसमें काफी सदस्यों ने भाग लिया। इस समूह ने वित्तीय स्थिति की रिपोर्टिंग पर कार्यशाला आयोजित की जिसमें जीवनेतर बीमा कंपनियों में नियुक्त बीमांकक शामिल थे।

### 3.5.5 पेंशन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी सलाहकार समूह

सामाजिक सुरक्षा संबंधी सलाहकार समूह की सदस्यता आज की तारीख को इस प्रकार है:

#### सलाहकार समूह के सदस्य:

1.	के सुब्रह्मणियम	अध्यक्ष
2.	ए डी गुप्ता	सदस्य
3.	डी के पंडित	सदस्य
4.	अर्पण थानावाला	सदस्य
5.	आर कृष्णस्वामी	सदस्य
6.	एस चिदंबरम	सदस्य
7.	कुलिन पटेल	सदस्य
8.	भूदेव चैटर्जी	सदस्य
9.	गौतम कक्कड़	सदस्य



- |     |                            |       |
|-----|----------------------------|-------|
| 10  | वीरेन मेहता (सनदी लेखाकार) | सदस्य |
| 11. | ए आर अरुणाचलम              | सचिव  |

यह समूह परिषद् को रिपोर्ट करता है। इस अवधि के दौरान इस समूह का पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सलाहकार समूह (एजीपीएसएस) के रूप में पुनर्गठन किया गया है और 2 मई 2009, 29 अगस्त 2009, 3 नवंबर 2009, 23 दिसंबर 2009, 18 फरवरी 2010 तथा 26 मार्च 2010 को इसकी 6 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें से उसकी एक बैठक (2 मई 2009) नई दिल्ली में और दूसरी मुंबई में हुई थी।

विगत वर्ष में मुख्य जोर एएस15 (संशोधित) से संबंधित मुद्दों के समाधान पर जारी रहा। एजीपीएसएस ने तीन नए मार्गदर्शी नोटों जीएन27 (क्षतिपूर्ति अभावों के लिए लेखांकन-संबंधी मार्गदर्शी नोट), जीएन28 (अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए मार्गदर्शी नोट) तथा जीएन29 (छूट प्राप्त भविष्य निधि में ब्याज दर गारंटी के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी नोट) को अंतिम रूप दिया। ये मार्गदर्शी नोट औपचारिक रूप से जारी किए जाने से पहले फेलो सदस्यों को इस समय जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति (कापी) संस्थान के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

उक्त सलाहकार समूह ने सीमित देयता सहभागिता अधिनियम पर एक प्रस्तुतीकरण का भी आयोजन किया जिसे प्रख्यात वकील शरद अभ्यंकर ने प्रस्तुत किया। उन्होंने सीमित देयता सहभागिता और उससे संबंधित प्रावधानों की बारीकियों को गहराई से समझाया।

आलोच्य अवधि के दौरान एजीपीएसएस ने सामान्य रूप से प्रयोग में आनेवाले शब्दों की शब्दावली विकसित करने पर काम किया है। यह शब्दावली इस समय समीक्षाधीन है और अगले वित्तीय वर्ष की पहली/दूसरी तिमाही में इस शब्दावली का एक संक्षिप्त रूप प्रकाशित करने की एजीपीएसएस की योजना है। उक्त सलाहकार समूह इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करनेवाले फेलो सदस्यों की एक सूची भारतीय बीमांकक संस्थान के वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की तैयार कर रहा है।

उक्त समूह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ), अंतर्राष्ट्रीय बीमांकक संघ (आइएए) तथा बीमांकक सोसाइटी (एसओए) जैसे अन्य विभिन्न संव्यावसायिक निकायों के साथ संपर्क मजबूत करने और संयुक्त रूप से सेमिनार आयोजित करने के अवसरों की तलाश में है।

### 3.5.6 संव्यावसायिक कार्य तथा मानक संबंधी सलाहकार समूह

आज की तारीख को इस सलाहकार समूह के सदस्य इस प्रकार हैं:

- |    |               |         |
|----|---------------|---------|
| 1. | के के वाधवा   | अध्यक्ष |
| 2. | संजीव पुजारी  | सचिव    |
| 3. | जे एस सालुंखे | सदस्य   |

4.	पीटर जे एकर्स	सदस्य
5.	एन एम गोवर्धन	सदस्य
6.	माइक वुड	सदस्य
7.	एम जी दीवान	सदस्य
8.	चंदन के खासनोबिस	सदस्य

यह समूह परिषद् को रिपोर्ट करता है। आलोच्य अवधि में, इस समिति ने संबंधित मामलों पर 12.6.2009 तथा 4.12.2009 को दो बैठकें कीं।

इस अवधि में समिति ने 'इंडिया फेलोशिप सेमीनार' के दो आयोजन 11/12 जून 2009 को तथा 3/4 दिसंबर 2009 को आयोजित किए जो आइएफएस के क्रमशः 11वें एवं 12वें आयोजन थे।

इस समिति द्वारा हाथ में ली गई गतिविधियां संक्षेप में इस प्रकार हैं -

- 'इंडिया फेलोशिप सेमीनार' की विषयवस्तु तथा गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा की जा रही है।
- कुछ मार्गदर्शी नोटों में परिवर्तन की शुरुआत की गई और उन्हें लागू किया गया। वर्ष के दौरान अन्य मार्गदर्शी नोटों की भी समीक्षा की जाएगी।
- संव्यावसायिक आचरण मानकों तथा मार्गदर्शी नोट जारी करने के लिए सिद्धांत एवं कार्यविधि की इस समय समीक्षा जारी है।

### 3.5.7 प्रशासन संबंधी सलाहकार समूह

इस सलाहकार समूह का गठन 22 जनवरी 2009 को किया गया जिसके सदस्य ये हैं:

1.	जे एस सालुंखे	अध्यक्ष
2.	के के वाधवा	सदस्य
3.	टी भार्गव	सदस्य
4.	डी साइ श्रीनिवास	सदस्य
5.	पौर्णिमा गुप्ते	सदस्य
6.	भरत वेंकटरमणी	सचिव

यह समूह परिषद् को रिपोर्ट करता है।

आलोच्य वर्ष के दौरान सलाहकार समूह की बैठकें 20 जून 2008 तथा 31 अक्टूबर 2009 को हुईं।

इस समूह ने कार्यविधि नियमपुस्तक (व्यय नियमपुस्तक) तथा वित्तीय शक्ति संबंधी स्थायी आदेश और वित्तीय शक्ति स्थायी आदेश अध्याय I से IV को अंतिम रूप दिया जिन्हें बाद में परिषद् ने अनुमोदित किया। इस समूह ने पहली बार भारतीय बीमांकन संस्थान के प्रस्तावित बजट को भी अनुमोदित किया। इसे परिषद् ने अपनाया और प्रशासन ने कार्यान्वित किया।

संस्थान के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करने के लिए नवीन प्रशासनिक प्रणाली विकसित की जा रही है जिसमें सदस्यता आंकड़ों के आधार का रखरखाव तथा सदस्यों की अद्वितीय पहचान संख्या तैयार करना शामिल है। प्रवेश, अंशदान, अध्ययन सामग्री, परीक्षा आदि के बारे में अलग-अलग मॉड्यूल्स कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं।

### 3.5.8 वित्तीय जोखिम प्रबंधन संबंधी सलाहकार समूह

आज की तारीख तक इस सलाहकार समूह के सदस्य ये हैं:

1.	संचित मैनी	अध्यक्ष
2.	आर वैद्यनाथन	सदस्य
3.	एम एस वी एस फणेश	सदस्य
4.	राजेश डालमिया	सदस्य
5.	सुश्री अमृता कौर	सदस्य
6.	डा. के श्रीराम	सदस्य

यह समूह परिषद् को रिपोर्ट करता है। यह उसके सदस्यों के लिए उद्यम जोखिम प्रबंध क्षेत्र में उतार-चढ़ावों पर चर्चा के लिए एक फोरम है जिसमें खासकर बीमांकिक मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस समूह की जिम्मेदारियां ये हैं :

- अध्यक्ष के अनुमोदन से उद्यम जोखिम प्रबंध के विशिष्ट सेमीनारों का आयोजित करना।
- संव्यावसायिक कार्यों और मानक प्रकाशन के संबंध में सलाहकार समूह को सिफारिश करना तथा बीमांकिक के लिए मार्गदर्शी नोटों की समीक्षा करना।
- पाठ्यक्रमों और उद्यम जोखिम प्रबंध के लिए संगत पाठ्यसामग्री के संबंध में शिक्षा और परीक्षा समिति को सुझाव देना।

### 3.5.9 स्वास्थ्य बीमा संबंधी सलाहकार समूह

2009-10 के दौरान स्वास्थ्य बीमा संबंधी सलाहकार समूह के सदस्य ये थे:

1.	अविजित चैटर्जी	अध्यक्ष
----	----------------	---------

2.	रोबर्ट प्रोचनो	सदस्य
3.	हेबर्ट मिस्टर	सदस्य
4.	रिचर्ड किप्प	सदस्य
5.	सुनील शर्मा	सदस्य
6.	जे मीनाकुमारी	सदस्य
7.	प्रिसिला सिन्हा	सदस्य

यह समूह परिषद् को रिपोर्ट करता है।

### **आलोच्य अवधि के दौरान गतिविधियाँ:**

स्वास्थ्य बीमा तथा सावधानी पर सेमीनार

7-8 जनवरी 2009 को एनआइए, पुणे में स्वास्थ्य बीमा सेमीनार आयोजित किया गया जिसमें 115 से अधिक सहभागियों ने भाग लिया। आइआरडीए के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण ने इसमें मुख्य भाषण दिया।

### **की गई प्रस्तुतियाँ :**

आइआरडीए की संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य) श्रीमती जे. मीनाकुमारी भारत में स्वास्थ्य बीमा उद्योग में वर्तमान एवं प्रस्तावित नियामक गतिविधियों के बारे में एक पेपर प्रस्तुत किया।

सुश्री मालती जायसवाल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मेडीटेक तथा श्री ललित बवेजा, मिलीमैन इंडिया के वरिष्ठ स्वास्थ्य केयर परामर्शदाता ने दावे की लागत का प्रबंध करने के लिए विभिन्न उपाय बताए।

सुश्री जार्जिना होव्स, उपाध्यक्ष, स्विस् रे के जीवन एवं स्वास्थ्य उत्पाद, ने हामीदारी तरीकों के बारे में प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

डा. नयन शाह, पैरामाउंट, ने स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रदाताओं की भूमिका तथा प्रदाता नेटवर्कों के चारों ओर विद्यमान मुद्दों पर चर्चा की।

अपोलो डीकेवी के श्री कृष्ण रामचंद्रन तथा डा. भवतोष मिश्र तथा जेन रे की सुश्री आइरीन एनजी ने हामीदारी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के अर्थोपायों पर चर्चा की।

आइसीआइसीआइ लाम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कं. लि. के श्री संजय दत्ता, ग्राहक सेवा प्रमुख, श्री अंकुर निशावन, एवीपी, मार्श ब्रोकर्स ग्रुप, ने लघु बीमा (माइक्रो इश्योरेंस) तथा सामाजिक बीमा मॉडलों पर एक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

श्री नीरज बसूर, निदेशक वित्त, मैक्स बीयूपीए स्वास्थ्य बीमा कंपनी लिमि., ने प्रबंधन रिपोर्टिंग तथा डाटा विश्लेषण पर एक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया।

श्री राबर्ट प्रोचनो, मुख्य बीमांकिक, स्विस् रे हेल्थ केयर प्राइवेट लि., ने स्वास्थ्य मूल्यन तकनीक के विभिन्न समूह मॉडलों के बारे में बताया।

श्री वीरेन गिरि, मिलिमैन, ने सारणी क, ख एवं ग के उपयोग-सहित स्वास्थ्य पोर्टफोलियो विश्लेषण के बारे में एक केस अध्ययन प्रस्तुत किया।

सुश्री गेले एडम्स, म्युनिख रे, ने विद्यमान ढांचे के अंतर्गत उत्पाद डिजाइन पर चर्चा की।

आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के श्री कमलेश मनुज तथा जेन रे के डा. डेटलॉफ रम्प ने मानकीकरण के लाभ एवं चुनौतियों-सहित नीति विषयक वाक्यरचना तथा शब्दावली पर चर्चा की।

श्री एलान वाट्स, आरजीए रे, भारत, चीन तथा मैक्सिको में स्वास्थ्य बीमा के तुलनात्मक इतिहास पर चर्चा की।

प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण आइएआइ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके लिंक का पता है:

<http://www.actuariesindia.org/Presentations/HIB/HIB%20seminar%2017Jan2008/Hib%20at%20Nia%2007Jan2010.htm>

### 3.5.10 व्यवसाय-पत्रिका संबंधी सलाहकार समूह - द ऐक्चुअरी इंडिया

‘द ऐक्चुअरी इंडिया’ भारतीय बीमांकिक संस्थान की एक मासिक पत्रिका है। संस्थान के सदस्यों के लिए बीमांकिक व्यवसाय में विभिन्न गतिविधियों के बारे में विचार-विनिमय का यह एक माध्यम है। संव्यावसायिक अनुभवों को आपस में बांटने के लिए यह पत्रिका एक अवसर प्रदान करती है।

‘ऐक्चुअरी इंडिया’ संबंधी सलाहकार समूह के निम्नलिखित सदस्य हैं:

1.	सत्यन जम्बूनाथन	अध्यक्ष
2.	शुभेन्दु बाल	सदस्य
3.	भरत वेंकटरमणी	सदस्य
4.	मीनाक्षी मल्होत्रा	सदस्य
5.	शिल्पा मैनेकर	सदस्य
6.	नयना दलवी	सदस्य

पत्रिका के प्रधान संपादक - पीटर जे एक्स

वर्ष के दौरान समूह की बैठक 10 अक्टूबर 2009 को हुई।

ऐक्चुअरी इंडिया पत्रिका का पंजीयन न्यूजपेपर फार इंडिया के पंजीयक (आरएनआइ) के यहां सितंबर 2009 में करा दिया गया है और डाक विभाग से आरएनआइ पंजीयन हमें प्राप्त हो गया है तथा पत्रिका के लिए डाक पंजीकरण संख्या मिल गई है जिससे उसके माध्यम से पत्रिका भेजने में हमारा कूरियर प्रभार बचता है।

इस व्यावसायिक पत्रिका की विषयवस्तु के लिए सलाहकार समूह जिम्मेदार है और इसके नियमित प्रकाशन के लिए भी वही जिम्मेदार है।

इसके मासिक अंक में संस्थान के सदस्यों तथा गैर-सदस्यों दोनों के लेख होते हैं। इस पत्रिका में संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न आयोजनों के संबंध में रिपोर्टें तथा घोषणाओं के अलावा व्यवसाय विषयक रुचि की सामग्री शामिल की जाती है।

‘ऐक्चुअरी इंडिया’ की प्रतियां संस्थान के सभी सदस्यों, विभिन्न प्रबंधन संस्थानों, प्रेस, जीवन तथा साधारण बीमा कंपनियों, बीमांकिक परामर्शदाताओं, अंतर्राष्ट्रीय बीमांकिक निकायों को भेजी जाती हैं। इस पत्रिका का मासिक अंक व्यवसाय के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

#### 4. बीमांकिकों का 12 वां विश्व सम्मेलन

बीमांकिक विश्व से संपूर्ण आयोजन-स्थल गूँज रहा था। बीमांकिकों के 12वें विश्व सम्मेलन के इस दो दिवसीय देदीप्यमान समारोह मनाने के लिए व्यवसाय जगत की जानीमानी हस्तियां और अन्य कारबार क्षेत्र के अनेक लीडर इस अवसर पर उपस्थित थे। यह समारोह 18 एवं 19 फरवरी 2010 को इंटरकांटीनेंटल, ललित, मुंबई में आयोजित किया गया था जिसे अंतर्राष्ट्रीय बीमांकिक संघ के सहयोग से भारतीय बीमांकिक संस्थान ने आयोजित किया था।

कारबार से जुड़े हुए ऐसे जोखिमों का पहचान करना और उनका प्रबंध करना बीमांकिक व्यवसाय का हमेशा से केन्द्र बिंदु रहा है। जोखिम अपने साथ हमेशा अवसर भी प्रदान करते हैं ताकि अधिक-से-अधिक फायदा हो। हमारा उद्देश्य हमेशा से यह रहा है कि यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से जोखिमों का प्रबंध किया जाए, जो ग्राहक की जोखिम-लालसा के अनुरूप ही है। तथापि, जोखिमों की बढ़ती जटिलताएं तथा उपभोक्ता की सदा बदलती जरूरतें एवं उनकी जोखिम-लालसा ने व्यवसाय के स्वरूप को चुनौती दी है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक वित्तीय संकट के नतीजे ने परिसीमित जोखिमों के गंभीर प्रभाव छोड़ हैं। हालांकि संख्या में ये थोड़े हैं, किंतु इनके संहारक प्रभाव पड़े हैं।

इस आयोजन ने वित्तीय क्षेत्र के बीमांककों तथा अन्य व्यवसायिकों को व्यवसाय में अनुभव की गई चुनौतियों के बारे में परस्पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का अवसर दिया। सम्मेलन में विभिन्न ज्ञानवर्धक सत्र रखे गए थे जिनमें व्यवसाय तथा अन्य कारबार क्षेत्र के लोगों ने एक-दूसरे से विचारोत्तेजक बातों का आदान-प्रदान किया।

इस अवसर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया जो प्रकाश एवं ज्ञान का स्रोत है। इस समारोह में सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ श्री जी. एन. अगरवाल, भारतीय बीमांकक संस्थान के अध्यक्ष, श्री डेविड अलेक्जेंडर, व्यवसाय विकास के प्रमुख, भूतपूर्व जापान/चीन के स्विस रे एशिया - प्रधान प्रायोजक, श्री के. वी. कामत, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, आइसीआइसीआइ बैंक, श्री पॉल थर्नटन, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय बीमांकिक संघ और श्री के. एस. गोपाल कृष्णन, उपाध्यक्ष, भारतीय बीमांकक संस्थान, उपस्थित थे।

भारतीय बीमांकक संस्थान के अध्यक्ष श्री जी. एन. अगरवाल ने अपने उद्घाटन भाषण के साथ सभी उपस्थित व्यक्तियों का स्वागत किया और इस अवसर की मूल विषयवस्तु (थीम) - "बीमांकिक प्रबंधन - आमूल परिवर्तन" की घोषणा की।

आइसीआइसी बैंक के गैर-कार्यालय अध्यक्ष, श्री के. वी. कामत ने उस वित्तीय वृद्धि के बारे में बताया जिससे हमारा देश अवगत है। उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि दो अंकों में आर्थिक विकास के साथ-साथ होनेवाले खतरे का मुकाबला तथा प्रबंध करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।

भारतीय बीमांकक संस्थान के उपाध्यक्ष, श्री के. एस. गोपाल कृष्णन के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ। उन्होंने सभी महानुभावों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनके बहुमूल्यों विचारों के आदान-प्रदान के लिए तथा इस अवसर पर उपस्थित होकर शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

## 5. पुस्तकालय

आइएआइ का पुस्तकालय बहुत अनूठा है। इसमें विशिष्ट किस्म की पुस्तकें हैं जिनसे आवश्यक सूचना प्राप्त होती है तथा बीमांकिक परीक्षा के लिए अध्ययन करनेवालों को इससे मार्गदर्शन मिलता है।

संस्थान का पुस्तकालय वह केन्द्र स्थल है जहां रुचिवाले विषय के बारे में और अध्ययन करने की सामग्री मिल जाती है। आइएआइ की सदस्यता में बढ़ोतरी के साथ-साथ पुस्तकालय की सदस्यता भी बढ़ रही है। आज की तारीख में पुस्तकालय की सदस्यता लगभग 1600 है।

संस्थान/पुस्तकालय के सदस्यों के अनुरोध के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ाई जाती है और पुस्तकों की खरीद के लिए प्रकाशकों तथा पुस्तक बिक्रेताओं से संपर्क किया जाता है।

पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रहण विषयवार किया जाता है और विषयवार पुस्तकों की सूची हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिचालन तथा पाठक सेवा:

पुस्तकालय की सेवा का लाभ उठाने के लिए उनकी सदस्यता जरूरी है। कार्यालय में तथा वेबसाइट पर पुस्तकालय सदस्यता फार्म उपलब्ध हैं।

1. सदस्य एक बार में दो पुस्तकें ले सकते हैं। मुंबई स्थित सदस्य एक पुस्तक अधिकतम 15 दिन के लिए तथा बाहर के सदस्य 21 दिन तक के लिए कोई पुस्तक ले सकते हैं।
2. पुस्तक की अवधि बढ़ाने के लिए फोन या ई-मेल या व्यक्तिगत तौर पर संपर्क किया जा सकता है। मांग के अनुसार उसी व्यक्ति को वही पुस्तक और दो सप्ताह के लिए पुनः दी जा सकती है।
3. विलम्ब से पुस्तक लौटाने का फाइन 10 रुपये प्रति दिन है।
4. परिचालन से बाहर की किसी पुस्तक को कोई सदस्य आरक्षित करा सकता है और जैसे ही पुस्तकालय में ऐसी पुस्तक लौटाई जाती है, उसकी सूचना उस सदस्य को या तो ई-मेल या फोन से दी जाती है।
5. केवल संदर्भ के काम आनेवाले दस्तावेज पुस्तकालय में देखने को मिल सकते हैं और अनुरोध किए जाने पर उनके अपेक्षित अंश की फोटोकॉपी कराई जा सकती है।
6. सदस्यों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पुस्तकालय में पुस्तक अच्छी हालत में लौटाई गई है। ऐसा न करने पर उन्हें पुस्तक की लागत देनी होगी या उसी पुस्तक की एक प्रति उसे पुस्तकालय को देनी होगी।

### लिबसिस (LIBSYS) : पुस्तकालय साफ्टवेयर

वेब-ओपैक (Web-OPAC) की प्रक्रिया चालू है। इससे सदस्यों को पुस्तकालय पुस्तक सूची (कैटलाग) आनलाइन ब्राउज करने में सहायता मिलेगी।

### 6. 2009-2010 के वित्तीय विवरण का विश्लेषण



## 1. तुलनपत्र

- क) 2008-2009 की तुलना में न्यास निधि तथा आधारभूत निधि लगभग 13.42% बढ़ गई है। इसके साथ ही वर्ष के दौरान कई कदम उठाए गए ताकि खर्चों पर मितव्ययिता बरती जाए। इससे 2009-10 में अच्छा अधिशेष सृजित किया गया।
- ख) चालू देयताएं लगभग 0.75% कम हुईं।
- ग) निवेश राशियों में लगभग 24.50% की वृद्धि हुई। इसमें अलग से उद्दिष्ट की गई निधियों का निवेश शामिल है जो 111% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष में 48.93% की बढ़ोतरी के कारण भी यह वृद्धि हुई।
- घ) ऋण तथा अग्रिम की राशि बढ़कर 51.08% हो गई। यह वृद्धि उपचित ब्याज के कारण है किंतु निवेश राशियों (वृद्धि 57.68%) पर यह देय नहीं है और स्रोत पर की गई कर की कटौती, जो आयकर प्राधिकारियों से वसूलीयोग्य है (वृद्धि 38.75%); क्रमशः 48.22 लाख रुपए तथा 7.67 लाख रुपए हो गई।

## 2. आय तथा व्यय

- क) 2009-2010 में सृजित वास्तविक अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में 1.24 करोड़ रुपए (48.93%) अधिक था। तथापि, भवन निधि को इस वर्ष के 3 करोड़ रुपए के अधिशेष में से अंतरण के कारण चालू वर्ष में अधिशेष घटकर पिछले वर्ष के 182.53 लाख रुपए की तुलना में 75.85 लाख रुपए रह गया।
- ख) इस वर्ष कुल आय लगभग 31.42% बढ़ी। कुल राजस्व का 70.30% शैक्षिक सेवा एवं परीक्षा शुल्क के माध्यम से सृजित हुआ। कुल राजस्व में सदस्यों का अंशदान लगभग 11.89% है। निवेश पर ब्याज आय लगभग 10.65% है जो पिछले वर्ष की तुलना में 29.42% ज्यादा है।
- ग) पिछले वर्ष की तुलना में कुल खर्च (लेखा परीक्षा शुल्क एवं मूल्यहास को छोड़कर) में लगभग 16.40% की वृद्धि हुई जो संस्थान की गतिविधियों में वृद्धि के अनुरूप है।

## 7. आधार

भारतीय बीमांकक संस्थान का स्टाफ निरंतर कठोर परिश्रम करता रहा और सतत बढ़ रहे कार्यभार के साथ कदम-से-कदम मिलाते हुए उसने उच्च स्तर की वचनबद्धता का प्रदर्शन किया।

विभिन्न समितियों तथा सलाहकार समूहों ने पूरे वर्ष-भर अपना योगदान दिया तथा संव्यावसायिकता का अत्यंत उच्च मानदंड अपनी गतिविधियों से प्रकट किया।

परीक्षकों तथा अंक देनेवालों (मार्करों) ने परीक्षाओं के संचालन में अपना योगदान दिया जिससे एक विश्वसनीय संव्यावसायिक परीक्षा निकाय के रूप में भारतीय बीमांकक संस्थान की प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिला।

### वित्तीय विवरण

**खांडवाला एंड शाह  
सनदी लेखाकार**

जी-3, 8 वीं मंजिल, 'एवरेस्ट'  
156, ताड़देव रोड, ताड़देव  
मुंबई - 400 034.

### भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद् के लेखों से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

#### भारतीय बीमांकक संस्थान

1. हमने 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखे के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त भारतीय बीमांकक संस्थान के संलग्न तुलनपत्र की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देने तक सीमित है।
2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस तर्कसंगत आश्वासन के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, परीक्षण-आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकट की गई जानकारी के समर्थन के साक्ष्य की जांच भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के अनुमान समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन के साथ शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का एक तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।
3. हम रिपोर्ट करते हैं कि -
  - (क) हमें वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
  - (ख) हमारी राय में बीमांकक अधिनियम, 2006 की अपेक्षाओं के अनुरूप लेखे रखे गए हैं।
  - (ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे खाता-बहियों के अनुरूप हैं।
  - (घ) हमारी राय में तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखा लेखांकन मानकों के अनुसार हैं।

(ड) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त लेखे तथा उनके संबंध में दी गई टिप्पणियों के साथ पठित ये लेखे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित की सही-सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:

- i) 31 मार्च, 2010 को संस्थान के कार्यों की स्थिति तथा तुलनपत्र के बारे में और
- ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता वाले आय एवं व्यय लेखे के विषय में।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 19 अगस्त 2010

खांडवाला एंड शाह, सनदी लेखाकार  
के लिए और उसकी ओर से

ह/-

(प्रेमल पी. गांधी)

भागीदार

सदस्यता सं.45462

## भारतीय बीमांकक संस्थान

31 मार्च, 2010 को तुलनपत्र

31.03.09 को	निधियां एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.10 को	31.03.09 को	संपत्ति एवं परिसंपत्तियां	अनुसूची	31.03.10 को
56,115,093.93	पूँजी एवं आरक्षित निधियां	"क"	63,647,931.97	2,739,530.61	अचल परिसंपत्तियां तथा काम चालू है	"च"	3,816,338.78
3,752,733.74	इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियां	"ख"	3,881,220.83	97,687,701.32	निवेश	"छ"	121,621,179.00
29,663,763.79	उद्दिष्ट धर्मादा निधि	"ग"	62,589,638.18		चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम :	"ज"	4,153,681.84
1,982,396.45	अन्य उद्दिष्ट निधियां	"घ"	2,180,636.10	317,953.46	क) नकदी एवं बैंक शेष		
12,989,235.60	चालू देयताएं	"डु"	12,893,441.01	134,236.00	ख) विविध देनदार	"झ"	326,600.00
7,141,484.54	भारतीय बीमांकक संस्थान- मृत्युसंख्या और रुग्णावस्था अन्वेषण केन्द्र (एमएमआरआई)	"डक"	989,520.06	10,765,286.66	ग) ऋण एवं अग्रिम	"ञ"	16,264,588.53
111,644,708.05	योग रु.		146,182,388.15	111,644,708.05	योग रु.		146,182,388.15

लेखे तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणियां 'घ'  
सम संख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह/-

कृते खांडवाला एवं शाह

ह/-

प्रेमल पी. गांधी  
भागीदार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 19 अगस्त 2010

ह/-

जी. एन. अगरवाल  
अध्यक्ष

ह/-

ए. डी. गुप्ता  
उपाध्यक्ष

ह/-

जी. एल. एन. शर्मा  
मानद सचिव

कृते भारतीय बीमांकक संस्थान

भारतीय बीमांकक संस्थान  
31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखे

समाप्त वर्ष 31.03.2009	व्यय	अनुसूची	समाप्त वर्ष 31.03.2010	समाप्त वर्ष 31.03.2009	आय	अनुसूची	समाप्त वर्ष 31.03.2010
29,319,170.67	संस्थान के खर्च	"ट"	34,128,607.34	8,143,307.95	निवेश पर आय बचत बैंक खाता पर और बैंकों तथा सार्वजनिक निगमों के यहाँ मीयादी जमा राशियों पर	"ढ"	10,409,880.04
66,798.00	लेखा परीक्षा शुल्क	"च"	66,180.00	5,305,517.24	घटाइए : विशिष्ट निधियों को अंतरित	"ठ"	3,543,703.13
25,575.00	अतिरिक्त लेखापरीक्षा		27,575.00	30,861,240.35	शैक्षिक सेवाएं एवं परीक्षा शुल्क	"ण"	6,866,176.91
662,682.58	सांविधिक लेखा परीक्षा		882,678.83	4,768,291.50	सदस्यों का अंशदान:	"त"	45,340,546.00
	मूल्यहास		37,585,838.04	13,897,828.00	सेमीनार शुल्क	"थ"	7,670,793.10
25,236,620.84	अधोनीत शेष			477,970.00	अन्य आय	"द"	12,256,461.20
55,310,847.09	योग रु.		72,690,879.21	55,310,847.09	योग रु		556,902.00
55,915.00	अवधि-पूर्व खर्च	"ड"	0.00	25,236,620.84	अधोनीत शेष		72,690,879.21
6,927,582.16	भवन निधि को अंतरित		30,000,000.00				37,585,838.04
18,253,123.68	सामान्य निधि को अंतरित अवधि के लिए व्यय की तुलना में आय की अधिकता		7,585,838.04				
25,236,620.84	योग रु.		37,585,838.04	25,236,620.84	योग रु.		37,585,838.04

लेखे तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के लिए टिप्पणियाँ 'ध'  
सम संख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

ह/-

कृते खांडवाला एवं शाह

ह/-

प्रेमल पी. गांधी

भागीदार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 19 अगस्त 2010

ह/-

जी. एन. अगरवाल

अध्यक्ष

ह/-

ए. डी. गुप्ता

उपाध्यक्ष

कृते भारतीय बीमांकक संस्थान

ह/-

जी. एल. एन. शर्मा

मानद सचिव

## भारतीय बीमांकक संस्थान

31.03.2010 को तुलनपत्र की अनुसूधियां

अनुसूची क	पूंजी तथा आरक्षित निधियां		
	क) पूंजी		
	निम्नलिखित द्वारा दान की गई पूंजी :		
325,000.00	i) साधारण बीमा परिषद् की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष	325,000.00	
500,000.00	ii) साधारण भारतीय बीमा निगम	500,000.00	
151,270.00	iii) अन्य निधियां	151,270.00	
976,270.00	31.03.2009 को शेष	31 मार्च 2010	976,270.00
	ख) सामान्य आरक्षित निधियां		
36,985,700.25	01.04.2008 को शेष	1 अप्रैल 2009	55,138,823.93
18,253,123.68	जोड़िए : आय तथा व्यय लेखे से अंतरित		7,585,838.04
15,000.00	घटाइए : जीसीए (अनुसूची-ख (v) में विशेष महत्व के पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार		0.00
85,000.00	घटाइए : प्रोफेसर जी.एस.दीवान स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधि (अनुसूची ख (क))		53,000.00
55,138,823.93	31.03.2009 को शेष	31 मार्च 2010	62,671,661.97
56,115,093.93		योग रु.	63,647,931.97

अनुसूची क(क) : निधियों का व्योरा (अन्य)			
दिनांक	नाम		राशि
12-08-95	मेसर्स थानावाला कंसल्टेंसी सर्विस		50,000.00
13-12-95	श्री डी. बसु		1,000.00
27-12-95	श्री एम. सी. चक्रवर्ती		10,000.00
17-01-96	श्री एस. रामास्वामी		1,000.00
23-01-96	श्री एम.एस. वेंकटरमन		2,000.00
01-02-96	श्री एस. पी. सूबेदार		2,500.00
23-02-96	श्री डी. के. लोड्या		1,000.00
26-02-96	श्री जे. एल. स्मित		2,500.00
19-03-96	श्री एच. एल. माटिया		10,000.00
19-03-96	श्री बी. पी. गुप्त		6,550.00
08-05-96	श्री के. वी. वाइ. शास्त्री		1,000.00
16-05-96	सुश्री अर्चना त्रिपाठी		300.00
21-05-96	श्री एस. एन. नारायणन		3,320.00
08-07-96	श्री डी. के. पंडित		10,000.00
21-08-96	श्री एम. वीराबद्रियन		1,000.00
05-12-96	श्री वी. एल. सप्रे		5,000.00
13-12-96	श्री बी. पी. गुप्त (एल.एम.)		10,500.00
31-03-96	श्री ए. आर. प्रभु		1,000.00
03-03-96	श्री डी. बसु		100.00
15-05-96	श्री टी. एस. स्वामीनाथन		25,000.00
25-06-96	मेसर्स थानावाला कंसल्टेंसी सर्विस		7,500.00
	योग रु.		151,270.00

भारतीय बीमांकक संस्थान		31.03.09 को	ब्योरे	31.03.10 को	31.03.10 को
अनुसूची ख	इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियाँ :				
	क) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक इनाम/पुरस्कार निधि : (सर्वोत्तम बीमांकिक पेपर के लिए)				
(35,000.00)	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त			0.00	
85,000.00	जोड़िए : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित राशि			53,000.00	
50,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिए गए इनाम			53,000.00	
0.00	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		0.00
	क झ) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक इनाम/पुरस्कार निधि (विषय एसए2)				
100,000.00	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	157,250.00	
11,000.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			15,725.00	
50,000.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त			0.00	
3,750.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिए गए इनाम			6,000.00	
157,250.00	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		166,975.00
	ख) प्रोफेसर (दिवंगत) जी. एस. दीवान 100 वीं वर्षगांठ स्मारक शिक्षा निधि (आर.एम.मेहता द्वारा दिया गया दान)				
170,523.76	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	186,781.37	
18,757.61	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			18,678.14	
2,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिए गए इनाम			0.00	
186,781.37	1.04.2008 को शेष	31 मार्च	2010		205,459.51
	ग) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक छात्रवृत्ति निधि (अनुसंधान परियोजना के लिए)				
154,707.61	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	168,725.45	
17,017.84	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			16,872.55	
3,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			0.00	
168,725.45	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		185,598.00
	घ) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक शताब्दी शिक्षा निधि (विषय सीटी8 के लिए)				
142,991.77	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	155,720.87	
15,729.10	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			15,572.09	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त			0.00	
3,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			10,000.00	
155,720.87	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		161,292.96
	ड) के. आर. तलपडे स्मारक छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 1 के लिए)				
12,749.15	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	12,651.56	
1,402.41	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			1,265.16	
1,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			2,000.00	
12,651.56	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		11,916.72
	च) एच. वी. कृष्णमूर्ति इनाम निधि : (विषय सीटी 3 के लिए)				
33,321.30	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	35,486.64	
3,665.34	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			3,548.66	
1,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			2,000.00	
35,486.64	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		37,035.30
	छ) शांति न्यास धर्मादा निधि : (सदस्य द्वारा सर्वोत्तम अनुसंधान/लेख के लिए)				
163,650.17	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	173,151.69	
18,001.52	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			17,315.17	
8,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			8,500.00	
173,151.69	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		181,966.86
	ज) आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 5 के लिए)				
11,591.22	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	10,616.25	
1,275.03	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			1,061.63	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त			18,500.00	
2,250.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			2,000.00	
10,616.25	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		28,177.88
900,383.83					978,422.23

शेष अग्रणीत

भारतीय बीमाकक संस्थान					31.03.10 को	31.03.10 को
31.03.09 को	ब्योरे					
900,383.83				शेष अग्रानीत		978,422.23
झ) छज्जू राम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 2 के लिए)						
17,625.59	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	17,814.41
1,938.82	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)					1,781.44
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त					12,400.00
1,750.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					2,000.00
17,814.41	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	29,995.85
ञ) पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (विषय सीटी 6 के लिए)						
20,008.85	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	20,459.82
2,200.97	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)					2,045.98
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त					10,000.00
1,750.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					2,000.00
20,459.82	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	30,505.80
ट) कनाडा जीवन छात्रवृत्ति धर्मादा निधि : (सफल एसोसिएट्स तथा फेलो के लिए)						
229,866.02	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	255,151.28
25,285.26	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)					25,515.13
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त					0.00
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					6,000.00
255,151.28	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	274,666.41
ठ) के.ए. पंडित स्मारक इनाम निधि : (विषय एसटी 4 के लिए)						
82,636.42	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	88,226.43
9,090.01	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)					8,822.64
3,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					5,000.00
88,226.43	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	92,049.07
ड) के. पी. शर्मा इनाम निधि : (विषय सीटी 4 के लिए)						
32,376.82	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	33,938.27
3,561.45	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)					3,393.83
2,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					2,000.00
33,938.27	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	35,332.10
ड) जनार्दन पुंडलिक नेरुरकर इनाम निधि : (विषय एटी 2 के लिए)						
26,105.83	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	25,477.47
2,871.64	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)					2,547.75
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त					35,000.00
3,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					5,000.00
25,477.47	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	58,025.22
ण) प्रोफेसर आर.एम.जोशी इनाम निधि : (विषय सीटी 7 के लिए)						
34,039.92	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	36,284.31
3,744.39	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)					3,628.43
1,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					2,000.00
36,284.31	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	37,912.74
त) पीटर एक्स अनुसंधान निधि : (जीवन बीमा के लिए)						
13,965.91	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	15,502.16
1,536.25	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)					1,550.22
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					0.00
15,502.16	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	17,052.38
थ) पीटर एक्स इनाम निधि (विषय एसटी 3 के लिए)						
33,798.99	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	46,251.88
3,717.89	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)					4,625.19
12,235.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त					0.00
3,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम					5,000.00
46,251.88	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	45,877.07
1,439,489.86						1,599,838.87
				शेष अग्रानीत		



भारतीय बीमाक संस्थान				31.03.10 को	31.03.10 को
31.03.09 को	ब्योरे				
1,439,489.86			शेष अग्रानीत		1,599,838.87
<b>द) जे. आर. जोशी इनाम निधि (विषय सीए 3 के लिए)</b>					
27,311.18	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	30,504.23	
3,004.23	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			3,050.42	
2,688.82	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त			0.00	
2,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			3,000.00	
30,504.23	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		30,554.65
<b>ध) के. एस. गोपालकृष्णन तथा लियाकत खान इनाम निधि (विषय एसटी 5 के लिए)</b>					
34,993.28	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	36,342.54	
3,849.26	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			3,634.25	
2,500.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			3,000.00	
36,342.54	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		36,976.79
<b>न) दिवंगत मीना सिध्वानी बीमाकन शिक्षा निधि (नए एफएसआइ को पुरस्कार के लिए)</b>					
37,462.80	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	36,583.71	
4,120.91	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			3,658.37	
5,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			5,000.00	
36,583.71	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		35,242.08
<b>प) दिवंगत आर. एम. मेहता स्मारक निधि</b>					
50,907.19	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	56,506.98	
5,599.79	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			5,650.70	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त			0.00	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			0.00	
56,506.98	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		62,157.68
<b>फ) जीसीए में विशेष महत्त्व के पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार</b>					
0.00	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			0.00	
15,000.00	जोड़िए : सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित			0.00	
15,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			0.00	
0.00	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		0.00
<b>ब) दिवंगत ए.एस. गुप्त इनाम निधि (प्रतिवर्ष सर्वोत्तम छात्रा के लिए)</b>					
98,474.25	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	103,306.42	
10,832.17	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			10,330.64	
6,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			6,000.00	
103,306.42	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		107,637.06
<b>भ) प्रिंसिपल पीएनबी जीवन बीमा कं. लिमि.</b>					
2,000,000.00	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	2,050,000.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि			0.00	
220,000.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			205,000.00	
170,000.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			310,000.00	
2,050,000.00	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		1,945,000.00
<b>म) कमल कुमार नोरंगलाल पोदार इनाम निधि (विषय एसटी 5 के लिए)</b>					
0.00	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	0.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि			60,000.00	
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(क)			3,813.70	
0.00	घटाइए : वर्ष के दौरान दिया गया इनाम			0.00	
0.00	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010		63,813.7
3,752,733.74			योग रु		3,881,220.8

भारतीय बीमांकक संस्थान		31.03.10 को	31.03.10 को
31.03.09 को	ब्योरे		
अनुसूची ग	उद्दिष्ट धर्मदा निधियां		
	क) स्विस रे		
106,623.48	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
11,728.58	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
0.00	घटाइए : पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने पर व्यय		
118,352.06	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
			130,187.27
	ख) स्विस रे : (फर्नीचर)		
301,500.26	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
33,165.03	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
0.00	घटाइए : माड्युलर फर्नीचर खरीदने पर व्यय		
334,665.29	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
			368,131.82
	ग) स्टैंडर्ड लाइफ :		
257,725.88	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
28,349.85	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
0.00	घटाइए : पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद		
286,075.73	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
			314,683.30
	घ) स्टैंडर्ड लाइफ : (फर्नीचर)		
522,918.61	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
57,521.05	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
0.00	घटाइए : माड्युलर फर्नीचर खरीदने पर व्यय		
580,439.66	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
			638,483.63
	ड) प्रूडेंशियल कार्पोरेशन एशिया लि. :		
1,756,137.82	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
193,175.16	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
0.00	घटाइए : उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन तथा तीन या उससे अधिक विषयों में एक बार में ही पास करने के लिए दिया गया		
1,949,312.98	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
			2,103,742.28
	च) एचडीएफसी :		
10,292.50	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
1,132.17	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
0.00	घटाइए : बीमांकक डायरेक्टरी के प्रकाशन के लिए दिया गया		
11,424.67	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
			12,567.14
	छ) सीपीडी/अनुसंधान :		
786,312.51	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
86,494.38	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
0.00	घटाइए : खर्चों को पूरा करने के लिए आइएआइ को अंतरित ब्याज		
872,806.89	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
			960,087.58
	ज) जीसीए तथा अनुसंधान निधि :		
8,190,966.68	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
901,006.34	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
9,091,973.02	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
			10,001,170.32
	झ) भवन निर्माण निधि :		
8,550,568.77	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009
6,927,582.16	जोड़िए : आय एवं व्यय लेखों से अंतरित		
940,562.56	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ख)		
16,418,713.49	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010
29,663,763.79			
			48,060,584.84
			62,589,638.18

योग रु .

भारतीय बीमांकक संस्थान				31.03.10 को	31.03.10 को	
31.03.09 को	ब्योरे					
अनुसूची घ	अन्य उद्दिष्ट निधियां :					
क) भारतीय जीवन बीमा निगम:						
881,548.06	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	978,518.35
96,970.29	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ग)					97,851.84
0.00	घटाइए: आय-व्यय लेखों को अंतरित					0.00
978,518.35	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	1,076,370.19
ख) आइसीआइसीआइ :						
698,295.51	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	775,108.02
76,812.51	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ग)					77,510.80
0.00	घटाइए: खर्चों को पूरा करने के लिए एएसआइ को अंतरित ब्याज					0.00
775,108.02	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	852,618.82
ग) कर्मचारी राहत निधि :						
206,099.18	1.04.2008 को शेष	←	→	1 अप्रैल	2009	228,770.08
0.00	जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त राशि					0.00
22,670.90	जोड़िए : वर्ष के दौरान आबंटित ब्याज (अनुसूची (ठ)(ग)					22,877.01
0.00	घटाइए: वर्ष के दौरान अदा की गई राशि					0.00
228,770.08	31.03.2009 को शेष	←	→	31 मार्च	2010	251,647.09
1,982,396.45					योग रु .	2,180,636.10
अनुसूची ङ चालू देयताएं						
अन्य देयताएं						
473,865.00	प्रतिदेय जमा (आइएआइ के सदस्य)					369,015.00
344,681.00	उपदान देयता (बीमांकिक मूल्य)					463,118.00
अग्रिम रूप में प्राप्त राशि						
320,000.00	म्यूनिक रे (विज्ञापन आय)					315,000.00
8,891,760.00	परीक्षा शुल्क मई 2010					9,124,995.76
77,675.00	विलंब परीक्षा शुल्क मई 2009					0.00
357,782.00	वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए अग्रिम प्राप्त अंशदान शुल्क					0.00
4,850.00	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अग्रिम प्राप्त अंशदान शुल्क					22,019.00
600.00	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अग्रिम प्राप्त अंशदान शुल्क					3,175.00
6,648.00	देय टीडीएस					0.00
2,511,374.60	बकाया देयता					2,596,118.25
12,989,235.60					योग रु .	12,893,441.01
						12,893,441.01

## भारतीय बीमाकक संस्थान

अनुसूची ड (क) आइएआइ-एमएमआइसी निधि (पहले का नाम एमएमआइबी) - अंशदाताओं के नाम

नाम	दिनांक	राशि
बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण	6 अक्टूबर 03	500,000.00
एचडीएफसी स्टैंडर्ड जीवन बीमा कंपनी लि.	6 अक्टूबर 03	500,000.00
एवीवा जीवन बीमा कं. लि.	6 अक्टूबर 03	500,000.00
बिडला सनलाइफ बीमा कं. लि.	7 अक्टूबर 03	500,000.00
एमपी सनमार बीमा कं. लि.	7 अक्टूबर 03	500,000.00
आइएनजी व्यास जीवन बीमा कं. लि.	8 अक्टूबर 03	500,000.00
एलीएज बजाज जीवन बीमा कं. लि.	8 अक्टूबर 03	500,000.00
आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल जीवन बीमा कं. लि.	13 अक्टूबर 03	500,000.00
टाटा एआइजी जीवन बीमा कंपनी लि.	14 अक्टूबर 03	500,000.00
ओएम कोडक महिन्द्रा जीवन बीमा कं. लि.	17 अक्टूबर 03	500,000.00
मैक्स न्यूयार्क जीवन बीमा कं. लि.	17 अक्टूबर 03	500,000.00
मेट लाइफ इंडिया बीमा कं. लि.	21 नवंबर 03	500,000.00
भारतीय जीवन बीमा	22 नवंबर 03	500,000.00
ईगान रेलिगरी जीवन बीमा कं. लि. **	23 मार्च-10	500,000.00
एसबीआइ जीवन बीमा कं. लि. **	30 मार्च-10	500,000.00
	योग रु.	<u>7,500,000.00</u>

## अनुसूची ड (क) क) एमएमआइसी (पहले का नाम एमएमआइबी)

9,126,089.32	1.04.2008 को शेष	1 अप्रैल	2009	7,141,484.54
862,437.97	जोड़िए : वर्ष के दौरान आर्बिटल ब्याज			804,909.89
0.00	जोड़िए : बीमा कंपनियों द्वारा अंशदान **			1,000,000.00
64,479.75	घटाइए : वर्ष के दौरान प्रभारित ब्याज			385,560.37
2,591,172.00	घटाइए : एमएमआइसी, हैदराबाद को अंतरित राशि			7,550,000.00
191,391.00	घटाइए : आइएआइ द्वारा किए गए खर्चे			21,314.00
<u>7,141,484.54</u>	31.03.2009 को शेष	31 मार्च	2010	<u>989,520.06</u>

## भारतीय बीमाकक संस्थान

31.03.09 को	ब्योरे	31.03.10 को	31.03.10 को
अनुसूची छ	निवेश		
	क) निम्नलिखित के बांडों में :		
2,000,000.00	इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया	0.00	
400,000.00	गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	0.00	
1,000,000.00	केरल पावर फाइनेंस निगम लि.	0.00	
	ख) निम्नलिखित के यहां मीयादी जमा राशियों में:		
13,000,000.00	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (नरीमन पाइंट, पी. एम. रोड)	13,000,000.00	
29,856,077.00	एचडीएफसी लि.	16,656,077.00	
2,856,522.32	बैंक ऑफ इंडिया, पी. एम. रोड	0.00	
455,272.00	एस्सिस बैंक, फोर्ट, मुंबई	455,272.00	
2,500,000.00	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	0.00	
6,500,000.00	आइडीबीआई बैंक लि.	6,500,000.00	
1,000,000.00	आइएनजी वैश्य बैंक	0.00	
15,000,000.00	बर्कले बैंक	7,500,000.00	
1,500,000.00	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	1,500,000.00	
9,500,000.00	आइसीआईसीआई होम फाइनेंस लि.	12,000,000.00	
1,000,000.00	इंडुसइंड बैंक	0.00	
1,000,000.00	कर्नाटका बैंक लि.	7,000,000.00	
100,000.00	आंध्र प्रदेश पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि.	0.00	
1,292,500.00	तमिलनाडु पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लि.	1,292,500.00	
7,727,330.00	एचडीएफसी लि. (आइएआइ-एमएमआइसी)	6,417,330.00	
0.00	डीबीएस बैंक लि.	10,200,000.00	
0.00	भारतीय जीवन बीमा निगम हाउसिंग फाइनेंस लि.	10,000,000.00	
0.00	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	12,000,000.00	
0.00	श्रीराम ट्रान्स्पोर्ट फाइनेंस कं. लि.	10,000,000.00	
	ग) म्युचुअल फंडों में		
1,000,000.00	एलआईसी लिक्विड प्लस फंड - ग्रोथ ऑप्शन	7,100,000.00	
<b>97,687,701.32</b>		<b>योग रु.</b>	<b>121,621,179.00</b>
अनुसूची ज	नकदी और बैंक शेष		
	क) नकदी शेष		
6,002.60	हाथ नकदी	5,800.00	
5,800.00	नकदी (सामान्य)	583.16	
11,802.60			6,383.16
	ख) निम्नलिखित के यहां बचत खाते में बैंक शेष		
134,255.85	बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पाइंट (खाता सं. 4553)	8,312.85	
546.01	बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फोर्ट (खाता सं. 57127)	4,894.01	
35,535.22	बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फोर्ट (खाता सं. 56426)	1,508,982.22	
328,993.09	बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फोर्ट (खाता सं. 2970)	3,533,837.11	
(202,378.31)	बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फोर्ट (खाता सं. 2971) बुक ओवरड्राफ्ट	(937,835.51)	
0.00	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चर्चगेट (खाता सं. 9080)	0.00	
296,951.86			
	ग) निम्नलिखित के यहां चालू खाते में बैंक शेष		
9,199.00	बैंक ऑफ इंडिया, डीएन रोड, फोर्ट (खाता सं. 8725) एएसआइ-एमएमआइबी	29,008.00	
<b>317,953.46</b>		<b>योग रु.</b>	<b>4,118,290.68</b>
			29,008.00
		<b>योग रु.</b>	<b>4,153,681.84</b>

भारतीय बीमाकक संस्थान		31.03.10 को	31.03.10 को
31.03.09 को	ब्योरे		
अनुसूची झ	विविध देनदार		
12,500.00	घोलमंडलम एमएस साधारण बीमा	0.00	
49.00	डीटीडीसी वर्ल्डवाइड कूरियर सर्विसेज	0.00	
30,000.00	डारविन रोडीज	25,400.00	
30,000.00	ईएमबी कंसल्टेंसी	60,000.00	
30,000.00	न्यूटन रिक्लूटमेंट लि.	30,000.00	
30,000.00	आरजीए रे	0.00	
0.00	एआइए लि.	30,000.00	
0.00	जनरल कोलांज रे	30,000.00	
0.00	नेशनल इंशुरेंस एकाडेमी	151,200.00	
1,687.00	श्रीलंका बीमा		
<b>134,236.00</b>		योग रु.	<b>326,600.00</b>
अनुसूची ज	ऋण और अग्रिम		
	क) ऋण और अग्रिम		
1,823,927.96	मीयादी जमाराशियों पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं (बैंकों के पास)	4,387,137.65	
6,536,339.52	मीयादी जमाराशियों पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं (सार्वजनिक निगम के पास)	8,795,376.18	
1,979,983.18	वसूलीयोग्य स्रोत पर काटा गया कर	2,747,231.62	
	कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 (1,27,439.20 रु)		
	कर निर्धारण वर्ष 2007-08 (3,88,806.55 रुपए)		
	कर निर्धारण वर्ष 2008-2009 (6,42,158.30 रुपए)		
	कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 (5,43,485.13 रुपए)		
	कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 (10,45,342.44 रुपए)		
	वसूलीयोग्य स्रोत पर काटा गया कर (दिल्ली चैप्टर)		
19,560.00	टेलीफोन जमाराशि	14,540.00	
6,600.00	विद्युत जमाराशि	66,600.00	
0.00	श्रव्य सम्मेलन	0.00	
398,876.00	पूर्वदत्त खर्च	253,703.08	
	ख) अन्य अग्रिम		
0.00	स्टाफ ऋण	0.00	
<b>10,765,286.66</b>		योग रु.	<b>16,264,588.53</b>

भारतीय बीमाकक संस्थान  
अनुसूची "घ"  
अचल परिसंपत्तियां

क्रम सं.	व्योरे	मृत्युहास की दर %	सकल ब्लॉक			मृत्युहास			निवल ब्लॉक	
			01.04.2009 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.2010 को	वर्ष के लिए	01.04.09 तक	31.03.2010 तक	31.03.2010 को	31.03.2009 तक
1	वाटर यूरिफायर	15	6,890.00	0.00	6,890.00	1,033.50	4,591.76	5,625.26	1,264.74	2,298.24
2	एअर कंडीशनर	15	552,492.00	0.00	552,492.00	82,873.80	383,338.62	466,212.42	86,279.58	169,153.38
3	ग्रह्य सम्मेलन प्रणाली	15	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	43,450.00	43,450.00	0.00	0.00
4	नकदी बॉक्स	15	3,549.00	0.00	3,549.00	0.00	3,135.20	3,548.00	1.00	413.80
5	कंप्यूटर	60	653,678.00	1,039,557.00	1,693,235.00	377,938.62	528,763.00	906,721.62	786,513.38	124,895.00
6	कंप्यूटर प्रिंटर	60	133,369.00	26,500.00	159,869.00	7,910.04	129,309.00	137,219.04	22,649.96	4,060.00
7	ईपीबीए एक्स प्रणाली	15	26,773.00	0.00	26,773.00	0.00	26,772.00	26,772.00	1.00	1.00
8	ईपीबीए एक्स प्रणाली	15	168,480.00	0.00	168,480.00	0.00	16,127.08	41,399.08	127,080.92	152,352.92
9	आन्सरिंगमशीन	15	2,495.00	0.00	2,495.00	0.00	1,540.63	374.25	580.12	954.37
10	फोनोचर	15	2,544,395.16	0.00	2,544,395.16	381,659.27	1,475,968.27	1,857,627.54	686,767.62	1,068,426.89
11	अग्निशामक	15	7,987.00	0.00	7,987.00	1,198.05	1,444.22	2,642.27	5,344.73	6,542.78
12	सुरक्षित लाकर	15	23,335.00	0.00	23,335.00	3,500.25	6,662.00	10,162.25	13,172.75	16,673.00
13	तेल मशीन	15	3,375.00	0.00	3,375.00	506.25	855.77	1,362.02	2,012.98	2,519.23
	योग		4,170,268.16	1,066,057.00	5,236,325.16	882,678.83	2,621,977.55	3,504,656.38	1,731,668.78	1,548,290.61
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (डब्ल्यूआईपी)		1,191,240.00	893,430.00	2,084,670.00	0.00	0.00	0.00	2,084,670.00	1,191,240.00
	योग		5,361,508.16	1,959,487.00	7,320,995.16	882,678.83	2,621,977.55	3,504,656.38	3,816,338.78	2,739,530.61
	पिछले वर्ष		3,821,218.16	1,540,290.00	5,361,508.16	662,682.58	1,959,294.97	2,621,977.55	2,739,530.61	1,861,923.19

## भारतीय बीमांकक संस्थान

31.3.2010 को समाप्त अवधि के लिए आय तथा व्यय से संबंधित अनुसूधियां

31.03.09 को		31.3.10 को	31.3.10 को
समाप्त पिछला वर्ष	व्योरे	समाप्त चालू वर्ष	समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची ट	संस्थान के खर्च		
4,593,887.00	वेतन (बोनस/अनुग्रह-अनुदान/उपदान/ अवकाश नकदीकरण)	5,934,276.00	
109,154.00	स्टाफ कल्याण	94,440.00	
1,924,939.00	कार्यालय किराया	1,833,443.00	
706,399.00	विद्युत प्रभार	629,313.00	
5,494,353.30	परीक्षा खर्च	7,139,833.50	
4,027,560.37	अध्ययन सामग्री खर्च	3,495,758.33	
1,688,261.00	यूके, लंदन को रायल्टी	3,598,025.59	
4,964,616.04	सेमीनार खर्च	5,101,528.80	
2,119,259.20	बीमांकक इंडिया मैगजीन खर्च	1,970,031.55	
1,039,222.30	बैठक खर्च	1,931,333.50	
41,273.00	बीमा प्रीमियम	46,767.65	
97,790.00	कानूनी एवं संव्यावसायिक प्रभार	121,730.00	
1,072,951.00	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	829,841.00	
261,281.90	बीमांकिक डायरी का मुद्रण	0.00	
447,104.96	डाक टिकट, कूरियर तथा टेलीफोन प्रभार	321,724.14	
24,938.00	यात्रा एवं वाहन	16,815.00	
146,607.00	मरम्मत एवं रखरखाव	258,559.17	
87,984.71	बैंक प्रभार	45,125.00	
342,969.99	सदस्यता एवं अंशदान शुल्क	386,974.47	
56,694.23	कार्यालय एवं सामान्य खर्च	67,367.09	
33,668.25	चुनाव खर्च	0.00	
23,161.00	पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	3,354.00	
15,095.42	बट्टे खाते डाले गए विविध शेष	302,366.55	
<b>29,319,170.67</b>		<b>योग रु .</b>	<b>34,128,607.34</b>



भारतीय बीमाक संस्थान		31.03.10 को	31.3.10 को
समाप्त पिछला वर्ष	व्योरे	समाप्त चालू वर्ष	समाप्त चालू वर्ष
<b>अनुसूची ठ</b>	<b>विशिष्ट निधि के लिए ब्याज आबंटन</b>		
0.00	क) प्रोफेसर जी. एस. दीवान स्मारक/ इनाम/पुरस्कार निधि : (सर्वोत्तम बीमाकिक पेपर एवं विषय एसए2 के लिए)	0.00	
18,757.60	ख) प्रोफेसर (दिवंगत) जी.एस.दीवान 100 वीं वर्ष गांठ स्मारक शिक्षा निधि (आर.एम.मेहता द्वारा दिया गया दान)	18,678.14	
17,017.84	ग) प्रोफेसर जी.एस.दीवान स्मारक छात्रवृत्ति निधि : (अनुसंधान परियोजना के लिए)	16,872.55	
15,729.10	घ) प्रोफेसर जी. एस. दीवान जन्म शती शिक्षा निधि (विषय सीटी 8 के लिए)	15,572.09	
1,402.41	ड) के. आर. तलपडे स्मारक छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (विषय सीटी 1 के लिए)	1,265.16	
3,665.34	च) एच. वी. कृष्णमूर्ति इनाम निधि (विषय सीटी 3 के लिए)	3,548.66	
18,001.52	छ) शांति न्यास धर्मादा निधि (सदस्य द्वारा सर्वोत्तम अनुसंधान/लेख के लिए)	17,315.17	
1,275.03	ज) आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (विषय सीटी 5 के लिए)	1,061.63	
1,938.82	झ) छज्जू राम छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (विषय सीटी 2 के लिए)	1,781.44	
2,200.97	ञ) पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (विषय सीटी 6 के लिए)	2,045.98	
25,285.26	ट) कनाडा जीवन छात्रवृत्ति धर्मादा निधि (सफल एसोसिएट्स तथा फेलो के लिए)	25,515.13	
9,090.01	ठ) के.ए.पंडित इनाम निधि (विषय एसटी 4 के लिए)	8,822.64	
3,561.45	ड) के. पी. शर्मा इनाम निधि (विषय सीटी 4 के लिए)	3,393.83	
2,871.64	ढ) जनार्दन पुंडलिक नेहरूकर इनाम निधि (विषय एटी 2 के लिए)	2,547.75	
3,744.39	ण) प्रोफेसर आर.एम.जोशी इनाम निधि (विषय सीटी 7 के लिए)	3,628.43	
3,004.23	त) जे. आर. जोशी इनाम निधि (विषय सीटी 3 के लिए)	3,050.42	
3,717.89	थ) पीटर एकर्स इनाम निधि (विषय एसटी 3 के लिए)	4,625.19	
1,536.25	द) पीटर एकर्स अनुसंधान निधि (जीवन बीमा के लिए)	1,550.22	
3,849.26	ध) के. एस. गोपालकृष्णन एवं लियाकत खान इनाम निधि (विषय एसटी 5 के लिए)	3,634.25	
11,728.58	न) स्विस् रे (पुस्तकालय आधारिक संरचना)	11,835.21	
28,349.85	प) स्टैंडर्ड लाइफ निधि	28,607.57	
193,175.16	फ) प्रूडेंशियल निगम एशिया लिमि.निधि (कोचिंग कक्षाएं तथा परीक्षक सेमीनार)	194,931.30	
1,132.17	ब) एचडीएफसी (बीमाकिक डायरेक्टरी)	1,142.47	
86,494.38	भ) सीपीडी/अनुसंधान निधि	87,280.69	
901,006.34	म) जीसीए एवं अनुसंधान निधि	909,197.30	
940,562.56	य) भवन निर्माण निधि	1,641,871.35	
96,970.29	र) भारतीय जीवन बीमा निगम (पदोन्नति एवं इनाम)	97,851.84	
4,120.91	ल) दिवंगत मीना सिधवानी बीमाकिक शिक्षा निधि	3,658.37	
33,165.03	व) स्विस् रे (फर्नीचर)	33,466.53	
57,521.05	श) स्टैंडर्ड लाइफ (फर्नीचर)	58,043.97	
76,812.51	ष) आइसीआईसीआई	77,510.80	
5,599.79	स) दिवंगत आर.एम.मेहता स्मारक निधि	5,650.70	
0.00	ह) जीसीए में विशेष महत्त्व के पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार	0.00	
10,832.17	क्ष) दिवंगत ए.एस.गुप्त इनाम निधि	10,330.64	
11,000.00	त्र) प्रो. जी.एस.दीवान इनाम स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधि-एसए2	15,725.00	
220,000.00	झ) प्रिंसीपल पीएनबी जीवन बीमा कंपनी लि.	205,000.00	
22,670.90	कक) कर्मचारी राहत निधि	22,877.01	
0.00	कख) कमल कुमार नोरंगलाल मोदार इनाम निधि एसटी 5 के लिए	3,813.70	
<b>2,837,790.71</b>	<b>योग रु.</b>		<b>3,543,703.13</b>
<b>अनुसूची ड</b>	<b>अवधि-पूर्व मदें</b>		
	मई 2007 परीक्षा के लिए दिल्ली में आरएनआइएस बीमा कालेज को प्रदत्त		
55,915.00	डाइट (कुल मानदेय 75915 रुपए जिसमें से 20,000 रुपए अग्रिम रूप में प्रदत्त)		0.00
<b>55,915.00</b>	<b>योग रु.</b>		<b>0.00</b>

भारतीय बीमाक क संस्थान  
इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियों के लिए ब्याज प्रावधान :  
अनुसूची ठ (क)

इनाम तथा छात्रवृत्ति निधियाँ	01.04.09 को	ब्याज @ 10%	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान अदा किया गया	31.03.10 को
विद्युत मीना शिक्षावर्ती बीमाक शिक्षा निधि	36,583.71	3,658.37	0.00	5,000.00	35,242.08
विद्युत अर एम. महता स्मारक निधि	56,506.98	5,650.70	0.00	0.00	62,157.68
जोवन बीमा के लिए पीटर एकरा अनुसंधान निधि	15,502.46	1,550.22	0.00	0.00	17,052.38
पीटर एकरा इनाम निधि	46,251.88	4,625.19	0.00	5,000.00	45,877.07
प्रिंसिपल जे.एन.डी. जोवन ईमा क. लिमि.	2,050,000.00	205,000.00	0.00	310,000.00	1,945,000.00
लोरेण्ड के निधन महार के फेर के लिए अग्रज क पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रो. जी.एस. दीवान जन्मशती शिक्षा निधि	155,720.87	15,572.09	0.00	10,000.00	161,292.96
डॉ. जी.एस. दीवान इनाम स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधि	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
प्रो. जी.एस. दीवान इनाम स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधि-एसए2	157,250.00	15,725.00	0.00	6,000.00	166,975.00
प्रो. जी.एस. दीवान स्मारक छात्रवृत्ति धर्मदा	168,725.45	16,872.55	0.00	0.00	185,598.00
कै.पी.तलपडे स्मारक छात्रवृत्ति	12,651.56	1,265.16	0.00	2,000.00	11,916.72
एच.बी.कृष्णमूर्ति इनाम निधि	35,486.64	3,548.66	0.00	2,000.00	37,035.30
शारी न्यास धर्मदा निधि	173,151.69	17,315.17	0.00	8,500.00	181,966.86
आत्माराम छात्रवृत्ति धर्मदा	10,616.25	1,061.63	18,500.00	2,000.00	28,177.88
छज्जूसाम छात्रवृत्ति धर्मदा	17,814.41	1,781.44	12,400.00	2,000.00	29,995.85
पार्वती देवी छात्रवृत्ति धर्मदा	20,459.82	2,045.98	10,000.00	2,000.00	30,505.80
कनाडा लाइफ छात्रवृत्ति निधि	255,151.28	25,515.13	0.00	6,000.00	274,666.41
के.ए. पंडित स्मारक इनाम निधि	88,226.43	8,822.64	0.00	5,000.00	92,049.07
के.पी.शर्मा इनाम निधि	33,938.27	3,393.83	0.00	2,000.00	35,332.10
जनार्दन पुंडलिक नखकर इनाम निधि	25,477.47	2,547.75	35,000.00	5,000.00	58,025.22
प्रो. आर.एम. जोशी इनाम निधि	36,284.31	3,628.43	0.00	2,000.00	37,912.74
जे.आर.जोशी इनाम निधि	30,504.23	3,050.42	0.00	3,000.00	30,554.65
विद्युत जी.एस. दीवान 100वीं वर्षगांठ स्मारक	186,781.37	18,678.14	0.00	0.00	205,459.51
के.एस. गोपालकृष्ण एव लियकत खान इनाम निधि	36,342.54	3,634.25	0.00	3,000.00	36,976.79
विद्युत ए.एस. गुप्ता इनाम निधि	103,306.42	10,330.64	0.00	6,000.00	107,637.06
ऊमल कुमर गोपलाल भोदार इनाम निधि एसटी5 के लिए	0.00	3,813.70	60,000.00	0.00	63,813.70
योग	3,752,733.74	379,087.09	188,900.00	439,500.00	3,881,220.83

भारतीय बीमाकक संस्थान  
उद्दिष्ट धर्मादा निधि (यों) के लिए ब्याज प्राकथान :  
अनुसूची ठ (ख)

उद्दिष्ट धर्मादा निधि	01.04.09 को	ब्याज @ 10%	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान अदा किया गया	31.03.10 को
स्टैडर्ड लाइफ (फर्नीचर)	580,439.66	58,043.97	0.00	0.00	638,483.63
स्विस् रे (फर्नीचर)	334,665.29	33,466.53	0.00	0.00	368,131.82
स्विस् रे (पुस्तकालय आधारभूत संरचना)	118,352.06	11,835.21	0.00	0.00	130,187.27
स्टैडर्ड लाइफ	286,075.73	28,607.57	0.00	0.00	314,683.30
यूरोपियन कॉर्पोरेशन एशिया लि.	1,949,312.98	194,931.30	0.00	40,502.00	2,103,742.28
एच डी एफ सी	11,424.67	1,142.47	0.00	0.00	12,567.14
सीपीडी/अनुसंधान	872,806.89	87,280.69	0.00	0.00	960,087.58
द ऐक्ज्यूसरी इंडिया पत्रिका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोसीए और अनुसंधान	9,091,973.02	909,197.30	0.00	0.00	10,001,170.32
मवन निधि	16,418,713.49	1,641,871.35	30,000,000.00	0.00	48,060,584.84
योग	29,663,763.79	2,966,376.39	30,000,000.00	40,502.00	62,589,638.18

उद्दिष्ट धर्मादा निधि (यों) के लिए ब्याज प्राकथान :

अनुसूची ठ (ग)

उद्दिष्ट धर्मादा निधि	01.04.09 को	ब्याज @ 10%	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान अदा किया गया	31.03.10 को
भारतीय जीवन बीमा निगम	978,518.35	97,851.84	0.00	0.00	1,076,370.19
आइसीआइसीआई	775,108.02	77,510.80	0.00	0.00	852,618.82
कर्मचारी राहत निधि	228,770.08	22,877.01	0.00	0.00	251,647.09
योग	1,982,396.45	198,239.65	0.00	0.00	2,180,636.10

भारतीय बीमांकक संस्थान		31.3.10 को	31.3.10 को
31.03.09 को	व्योरे	समाप्त चालू वर्ष	समाप्त चालू वर्ष
समाप्त पिछला वर्ष			
अनुसूची ड	निवेश आय		
	क) बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज		
2,015.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी. एन. रोड - 56426	1,029.00	
272.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी. एन. रोड - 57127	64.00	
938.00	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - चर्चगेट - 9080	0.00	
17,816.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी. एन. रोड - 2970	8,026.00	
6,126.00	बैंक ऑफ इंडिया - डी. एन. रोड - 2971	7,956.00	
1,779.00	बैंक ऑफ इंडिया - एन. पी. - 4553	1,707.00	
28,946.00			18,782.00
	ख) बैंकों के यहां मीयादी जमा राशि पर प्राप्त ब्याज		
643,933.90	बैंक ऑफ इंडिया	29,401.22	
1,445.41	कार्पोरेशन बैंक	0.00	
1,365.00	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (चर्चगेट)	0.00	
34,487.32	एक्सिस बैंक (पी. एम. रोड, फोर्ट)	47,174.00	
74,996.24	कोटक महिन्द्रा बैंक	0.00	
606,739.00	डीबीएस बैंक लि.	338,343.00	
999,543.00	बार्कले बैंक	1,100,131.53	
33,575.34	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	204,616.00	
9,883.56	आइडीबीआई बैंक	620,235.00	
74,658.83	इंडुसइंड बैंक	39,738.47	
91,386.99	आइएनजी व्यास बैंक	7,051.29	
27,500.00	कर्नाटक बैंक	522,416.00	
51,277.00	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (नरीमन पाइंट)	982,494.00	
211,124.00	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (पी. एम. रोड)	324,719.00	
183,528.00	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	71,968.00	
1,823,927.96	उपचित ब्याज	4,387,137.65	
4,869,371.55			8,655,425.16
	ग) अन्य निवेशों से ब्याज/लाभांश		
6,886.00	यूटीआई - एआरएस बॉन्ड	0.00	
569,888.37	आइसीआईसीआई होम फाइनेंस लि.	1,247,015.29	
191,500.00	आइडीबीआई बॉन्ड	133,422.00	
2,995,794.33	एचडीएफसी लि.	2,598,479.79	
11,150.00	ओम प्रदेश पावर फाइनेंस निगम लि.	0.00	
78,750.00	गुजरात ईलेक्ट्रिसिटी बोर्ड	18,476.33	
142,053.21	तमिलनाडु पावर फाइनेंस निगम लि.	156,908.00	
111,000.00	केरल पावर फाइनेंस निगम लि.	0.00	
24,141.74	एचडीएफसी म्युचुअल फंड से लाभांश	0.00	
64,479.75	एमएमआईसी - वर्ष के दौरान निधि अंतरण पर	385,560.37	
123,952.70	एलआईसी एमएफ इनकम प्लस फंड	233,823.05	
412,040.18	फ्रॉकलीन टैमप्लेटन म्युचुअल फंड	0.00	
337,282.08	आसीआईसीआई फ्रुडेंशियल म्युचुअल फंड	0.00	
0.00	भारतीय जीवन बीमा निगम हाउसिंग फाइनेंस लि.	405,000.00	
0.00	श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कं. लि.	543,687.70	
0.00	महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	400,438.00	
6,536,339.52	उपचित ब्याज	8,795,376.18	
11,605,257.88			14,918,186.71
16,503,575.43	उप-योग (क+ख+ग)		23,592,393.87
8,360,267.48	घटाइए : वर्ष के लिए की गई उपचित ब्याज की व्यवस्था		13,182,513.83
8,143,307.95		योग रु.	10,409,880.04

भारतीय बीमांकक संस्थान			
31.03.09 को		31.3.10 को	31.3.10 को
समाप्त पिछला वर्ष	ब्योरे	समाप्त चालू वर्ष	समाप्त चालू वर्ष
अनुसूची ण	शैक्षिक सेवाएं एवं परीक्षा शुल्क		
12,568,525.00	परीक्षा शुल्क	19,375,560.00	
16,539,015.35	अध्ययन पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री शुल्क	24,152,486.00	
5,000.00	बीमांकिक डायरेक्टरी/छात्र हस्त पुस्तिका की बिक्री	12,000.00	
268,700.00	छूट शुल्क	330,500.00	
1,480,000.00	बीमांकक इंडिया मैगजीन आय	1,470,000.00	
<b>30,861,240.35</b>		<b>योग रु.</b>	<b>45,340,546.00</b>
अनुसूची त	सदस्यों का अंशदान		
1,144,125.00	दाखिला शुल्क	1,406,800.00	
3,316,324.00	अभिदान शुल्क	5,828,498.00	
307,842.50	जुर्माना/विलंब शुल्क	435,495.10	
<b>4,768,291.50</b>		<b>योग रु.</b>	<b>7,670,793.10</b>
अनुसूची थ	सेमीनार शुल्क		
10,020,718.00	बीमांककों के विश्व सम्मेलन पर	8,197,491.20	
680,000.00	इंडिया फेलोशिप पर	630,000.00	
450,000.00	बीमांकिक स्वास्थ्य एवं साधारण बीमा पर	567,470.00	
530,000.00	जीवन बीमा के वर्तमान मुद्दों पर	550,000.00	
964,500.00	सीए 2 माडलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम पर	762,000.00	
801,500.00	कारबार जागरूकता माड्यूल पर	1,319,500.00	
25,000.00	भारतीय जीवन बीमा संबंधी आर्थिक पूंजी पर	230,000.00	
185,000.00	सेवा निवृत्त हितलाभों पर	0.00	
158,605.00	सनदी लेखाकार कार्यक्रम पर	0.00	
82,505.00	पालिसी हितलाभों के मूल्यांकन पर	0.00	
<b>13,897,828.00</b>		<b>योग रु.</b>	<b>12,256,461.20</b>
अनुसूची द	अन्य आय		
75,550.00	सदस्यों से प्राप्त डाक प्रभार	77,300.00	
1,200.00	रद्दी की बिक्री	2,928.00	
67,984.00	विविध शेष पुनरांकन	128,345.00	
25,736.00	अन्य आय	3,329.00	
307,500.00	अभ्यास प्रमाणपत्र (सीओपी) शुल्क (नवीकरण एवं नया निर्गम)	345,000.00	
<b>477,970.00</b>		<b>योग रु.</b>	<b>556,902.00</b>

**अनुसूची- घ :****महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां****1. लेखांकन परम्परा :**

लेखे ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए जाते हैं।

**2. ब्याज से आय :**

निवेशों पर ब्याज की गणना प्रोद्भवन आधार पर इस प्रकार के निवेशों को लागू दरों पर की जाती है। विशिष्ट निधियों के उद्दिष्ट निवेशों से आय संबंधित निधियों में जमा कर दी जाती है। उद्दिष्ट न किए गए निवेश से प्राप्त आय आय एवं व्यय लेखे को जमा कर दी जाती है।

**3. निवेश :**

निवेश का उल्लेख लागत पर किया जाता है।

**4. अचल परिसंपत्तियां तथा मूल्यहास :**

अचल परिसंपत्तियां अपनी मूल लागत पर उल्लिखित की जाती हैं। वर्ष के लिए सीधी रेखा प्रणाली के अंतर्गत मूल्यहास की व्यवस्था की जाती है।

**परिसंपत्ति की किस्म****मूल्यहास की दर**

वाटर प्यूरीफायर	15%
एअर कंडीशनर	15%
श्रव्य सम्मेलन प्रणाली	15%
नकदी बाक्स	15%
कंप्यूटर	60%
कंप्यूटर प्रिंटर	60%
ईपीबीएक्स प्रणाली	15%
आन्सरिंग मशीन	15%
फर्नीचर	15%
अग्निशामक	15%
सुरक्षित लाकर	15%
तौल मशीन	15%

कंप्यूटर साफ्टवेयर की खरीद के लिए प्रदत्त 20,84,670 रुपए के अग्रिम को इस वर्ष के दौरान पूंजीकृत नहीं किया गया है।

5. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के आधार पर स्टाफ उपदान पाने का हकदार है और उपदान देयता तय करने के लिए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित यथानुपात आधार पर प्रावधान किया गया है।
6. अध्ययन सामग्री का स्टाक प्रकाशन, लेखन सामग्री इत्यादि को लेखों के अपने-अपने व्यय शीर्ष के अंतर्गत वर्ष में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।
7. निवेश आय का आबंटन निम्नलिखित रीति से किया गया है जिसे अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है तथा लेखापरीक्षकों ने जिस पर विश्वास किया है:

क =	निवेश का 01.04.2009 को अथ शेष (+) 01.04.2009 को अथ नकदी एवं बैंक शेष।
ख =	निवेश का 31.03.2010 को इति शेष (+) 31.03.2010 को इति नकदी एवं बैंक शेष।
ग =	वर्ष 2009-10 के दौरान निवेश आय (+) 31.03.10 को समाप्त वर्ष के लिए उपचित ब्याज।
i. =	सभी निधियों के लिए निवेश आय के आबंटन के लिए ब्याज दर।
i =	$(2 \times \text{ग}) / [\text{क} + \text{ख}] - \text{ग}$
क =	90,269,125.78
ख =	119,328,522.84
ग =	10,000,047.23
(क+ख) - ग =	199,597,601.39
i =	10%

ध्यान दीजिए : निधियों में निवेश आय के आबंटन के लिए ब्याज दर 10% है।

### लेखों के संबंध में टिप्पणियां

1. पिछली अवधि के आंकड़ों को यथा आवश्यक पुनः समूहबद्ध, पुनःक्रमबद्ध तथा पुनः वर्गीकृत किया गया है।
2. भारतीय बीमांकिक सोसाइटी सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है और बंबई सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 दिनांक 09.11.2006 को भंग कर दिया गया तथा भारतीय बीमांकिक सोसाइटी की देयताएं 10.11.2006 को भारतीय बीमांकिक संस्थान को अंतरित कर दी गईं। बीमांकिक अधिनियम, 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 27.08.2006 को मिली। केंद्र सरकार ने 10.11.06 को यह तारीख इसलिए निश्चित की क्योंकि इस दिन से वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग) की दिनांक 08.11.2006 की अधिसूचना के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान लागू हुए।
3. 31.03.2010 को अनुसूची "झ" के अंतर्गत दर्शाई गई विविध देनदार राशि 3,26,600 रुपए है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में 3,26,600 रुपए की कुल बकाया राशि प्राप्त हो चुकी है।
4. चूंकि, कतिपय निधियों में अर्थात्, प्रोफेसर जी. ए. दीवान स्मारक/इनाम/पुरस्कार निधि और जीसीए [अनुसूची ख (क)] में विशेष महत्वपूर्ण पेपर के लिए अध्यक्ष का पुरस्कार, भुगतान के

लिए पर्याप्त शेष राशि नहीं है, इसलिए उन विशिष्ट निधियों से खर्च किए गए अवशिष्ट खर्च सामान्य निधि खाते [अनुसूची क (ख)] के नामे की गई है।

5. आइएआइ-एमएमआइसी (पहले एएसआइ-एमएमआइबी नाम से) पर आलोच्य वर्ष के दौरान 8,04,909.89 रुपए (निवल) का ऑडिट ब्याज तुलनपत्र की "डक" अनुसूची के अंतर्गत आइएआइ-एमएमआइसी खाते में जमा की गई है।
6. लेखों के शेष की पुष्टि : 31.03.2010 को विविध देनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों एवं चालू देयताओं के शेष लेखा बहियों के अनुसार हैं और ये पुष्टि तथा समाधान के अधीन हैं।
7. (क) पहले की भारतीय बीमांकिक सोसाइटी ने आय कर निदेशक (छूट) के कार्यालय में 30.03.2006 को कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग) (vi) के अंतर्गत छूट की मंजूरी के लिए फार्म सं.56 डी में एक आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय बीमांकिक संस्थान ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 क) के अंतर्गत छूट मांगी है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 को इस संबंध में आवश्यक कागजात 11.07.2007 को प्रस्तुत किए हैं। इसे देखते हुए, समीक्षाधीन अवधि में लेखों में आय-कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (ख) कर निर्धारण 2005-2006 के लिए वित्तीय वर्ष 2008-2009 के दौरान आय कर अधिनियम 1961 की धारा 263 के संशोधन के लिए पूर्व भारतीय बीमांकिक सोसाइटी को एक नोटिस प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध एक अपील दायर की गई है और वह अपील आय कर अपील अधिकरण, मुंबई के विचाराधीन है।

**कृते खांडवाला एंड शाह**  
**सनदी लेखाकार**

हस्ता/-  
प्रेमल पी. गांधी  
भागीदार  
सदस्यता सं. 45462

**स्थान : मुंबई**  
**दिनांक : 19 अगस्त 2010**

**कृते भारतीय बीमांकिक संस्थान**

हस्ता./-  
जी. एन. अगरवाल  
अध्यक्ष  
हस्ता./-  
ए. डी. गुप्ता  
उपाध्यक्ष  
हस्ता./-  
जी. एल. एन. शर्मा  
मानद सचिव



**एमएमआइसी की वित्तीय रिपोर्ट**

**राजेश लक्ष्मण एवं सहयोगी**  
**सनदी लेखाकार**

कार्यालय :  
302, तीसरी मंजिल,  
बेलविंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स  
चिराग अली लेन, अबाइड  
हैदराबाद 5000001

1. हमने 31 मार्च 2010 को मृत्युसंख्या एवं रुग्णावस्था अन्वेषण केन्द्र (भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई) के संलग्न तुलनपत्र की लेखा परीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधतंत्र की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इस वित्तीय विवरण के संबंध में अपनी राय देने तक सीमित है।
2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस तर्कसंगत आश्वासन के लिए लेखा परीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। किसी लेखा परीक्षा में, परीक्षण-आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकट की गई जानकारियों के समर्थन के साक्ष्य की जांच भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के अनुमान समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण के साथ शामिल होते हैं। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय का एक तर्कसंगत आधार प्रस्तुत करती है।
3. हमारी लेखापरीक्षा और हमें दिए गए आवश्यक स्पष्टीकरणों के आधार पर हम इस प्रकार रिपोर्ट करते हैं
  - (क) हमें वह सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुए जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
  - (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित बहियां कंपनी ने रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी परीक्षा से ज्ञात होता है।
  - (ग) इस रिपोर्ट में दिया गया तुलनपत्र लेखा बहियों के अनुरूप है।
  - (घ) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि
    - (i) तुलनपत्र के मामले में, सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च 2010 को इस केन्द्र के कार्यों की सही-सही एवं स्वच्छ तस्वीर यह प्रस्तुत करती है।
    - (ii) 31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए यह घाटे का आय एवं व्यय लेखा है।

**कृते राजेश लक्ष्मण एवं सहयोगी**  
**सनदी लेखाकार**  
ह/-

**आर. लक्ष्मण राव**  
**भागीदार**

**सदस्यता सं. 207113**

**स्थान : हैदराबाद**

**दिनांक : 30.04.2010**

**मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र**  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

**31 मार्च 2010 को तुलनपत्र**

	अनुसूची सं.	राशि (रुए में) 2009-10	राशि (रुए में) 2008-09
<b>निधियों का स्रोत</b>			
आधारभूत निधि	1	4,713,540	1,152,620
		<b>4,713,540</b>	<b>1,152,620</b>
<b>निधियों का अनुप्रयोग</b>			
अचल परिसंपत्तियां	2		
स्वागत पर		2,944,516	814,195
घटाईए : संचित मूल्यहास		900,216	203,860
		<b>2,044,300</b>	<b>610,335</b>
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम			
नकदी एवं बैंक शेष	3	2,610,738	209,490
ऋण एवं अग्रिम	4	285,195	351,062
		<b>2,895,933</b>	<b>560,552</b>
चालू देयताएं	5	226,692	18,267
<b>निवल चालू परिसंपत्तियां</b>		<b>2,669,241</b>	<b>542,285</b>
		<b>4,713,540</b>	<b>1,152,620</b>

समसंख्यक दिनांक के लेखों की टिप्पणियों के साथ पढ़िए

**कृते राजेश लक्ष्मण एवं  
सहयोगी  
सनदी लेखाकार**

**कृते मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र**  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

ह/-  
आर. लक्ष्मण राव  
भागीदार  
सदस्यता सं. 207113  
स्थान : हैदराबाद  
दिनांक : 30.04.2010

ह/-  
जी. एन.  
अगरवाल  
अध्यक्ष

ह/-  
ए. डी. गुप्ता  
उपाध्यक्ष

ह/-  
जी. एल. एन.  
शर्मा  
मानद सचिव

ह/-  
के. पी. शर्मा  
मुख्य कार्यपालक  
अधिकारी

**मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र**  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)  
**31 मार्च 2010 को समाप्त अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा**

	अनुसूची सं.	राशि (रुए में) 2009-10	राशि (रुए में) 2008-09
<b>आय</b>			
मीयादी जमाराशियों पर ब्याज		8,932	-
<b>व्यय</b>			
कर्मचारी खर्च	6	2,351,613	920,727
संचार खर्च	7	245,429	20,597
प्रशासन खर्च	8	704,614	293,368
मूल्यहास	2	696,357	203,860
<b>योग</b>		<b>3,998,013</b>	<b>1,438,552</b>
आधारभूत निधि को अंतरित आय की तुलना में व्यय का आधिक्य		<b>(3,989,081)</b>	<b>(1,438,552)</b>

समसंख्यक दिनांक के लेखों की टिप्पणियों के साथ पढ़िए

**कृते राजेश लक्ष्मण एवं सहयोगी**  
**सनदी लेखाकार**

**कृते मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र**  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

ह/-  
आर. लक्ष्मण राव  
भागीदार  
सदस्यता सं. 207113  
स्थान : हैदराबाद  
दिनांक : 30.04.2010

ह/-  
जी. एन.  
अगरवाल  
अध्यक्ष

ह/-  
ए. डी. गुप्ता  
उपाध्यक्ष

ह/-  
जी. एल. एन.  
शर्मा  
मानद सचिव

ह/-  
के. पी. शर्मा  
मुख्य कार्यपालक  
अधिकारी

**मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र**  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

**तुलनपत्र के हिस्से की अनुसूचियां**

<b>अनुसूची 1:</b>	<b>राशि (रुए में)</b> <b>2009-10</b>	<b>राशि (रुए में)</b> <b>2008-09</b>
<b>आधारभूत निधि</b>		
अथ शेष	1,152,620	2,591,172
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	7,550,000	
घटाइए : आय की तुलना में व्यय का आधिक्य	(3,989,081)	(1,438,552)
	<b>4,713,540</b>	<b>1,152,620</b>
<b>अनुसूची 3:</b>		
<b>नकदी एवं बैंक शेष</b>		
हाथ में नकदी	2,704	4,362
बैंक शेष		
- चालू खाते में	2,008,034	205,128
- मीयादी जमा खाते में	600,000	-
	<b>2,610,738</b>	<b>209,490</b>
<b>अनुसूची 4:</b>		
<b>ऋण और अग्रिम</b>		
अन्य अग्रिम	-	202,248
किराया जमा राशियां	60,000	60,000
पूर्वदत्त खर्चें	122,795	78,814
पूर्वदत्त किराया	11,000	10,000
सर्वर के लिए पूर्वदत्त अतिरिक्त एएमसी	91,400	-
	<b>285,195</b>	<b>351,062</b>
<b>अनुसूची 5:</b>		
<b>चालू देयताएं</b>		
देय लेखा परीक्षा शुल्क	24,817	16,545
एचसीएल इन्फोसिस्टम्स लिमि.	192,808	-
देय विद्युत प्रभार	5,330	-
देय टेलीफोन प्रभार	979	-
दलाली पर स्रोत पर कर- कटौती	-	1,722
संव्यवसायिक पर स्रोत पर कर-कटौती	2,758	-
	<b>226,692</b>	<b>18,267</b>

**मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र**  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

**आय एवं व्यय लेखे के हिस्से की अनुसूचियाँ**

	राशि (रुए में) 2009-10	राशि (रुए में) 2008-09
<b>अनुसूची 6:</b>		
<b>कर्मचारी खर्च</b>		
वेतन	2,345,986	919,118
स्टाफ कल्याण	5,627	1,609
	<b>2,351,613</b>	<b>920,727</b>
<b>अनुसूची 7:</b>		
<b>संचार खर्च</b>		
टेलीफोन प्रभार	38,726	16,760
इंटरनेट प्रभार	205,907	3,454
डाकटिकट	796	383
	<b>245,429</b>	<b>20,597</b>
<b>अनुसूची 8:</b>		
<b>प्रशासन खर्च</b>		
विज्ञापन	405	-
एसपीएसएस साफ्टवेयर के लिए एएमसी	78,814	8,360
एंटीवायरस साफ्टवेयर	-	7,000
लेखापरीक्षा शुल्क	27,575	16,545
बैंक प्रभार	1,000	550
भवन रखरखाव	11,388	-
दलाली एवं कमीशन	-	16,722
कंप्यूटर उपभोक्ता वस्तुएं	4,767	776
वाहन	6,648	1,040
विद्युत रखरखाव	4,246	7,730
विद्युत प्रभार	43,646	3,155
बीमा	11,321	-
बैठक खर्चे	5,160	-
सदस्यों का बैठक शुल्क	120,000	-
कार्यालय रखरखाव	17,329	15,565
पार्किंग	4,200	-
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	6,051	3,776
संव्यवसाय कर	5,000	-
संव्यवसाय प्रभार	3,600	-
दर तथा कर	6,601	-
किराया- कार्यालय	247,000	169,200
किराया - अन्य	14,000	-
मरम्मत एवं रखरखाव	-	2,180
यात्रा खर्च	85,863	40,769
	<b>704,614</b>	<b>293,368</b>

**मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र**  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

**अनुसूची 2: अचल परिसंपत्तियां**

व्योरे	मूल्यहास की दर	सकल ब्लाक				मूल्यहास			निवल ब्लाक	
		01.04.09 को	180 दिन से अधिक	180 दिन से कम	31.3.2010 को	01.04.09 को	वर्ष के लिए	31.3.2010 को	31.3.2010 को	31.3.2009 को
एअरकंडीशनर	15%	134,503	-	-	134,503	10,088	18,662	28,750	105,753	124,215
कंप्यूटर	60%	176,000	3,650	36,200	215,850	52,800	86,970	139,770	76,080	123,200
फर्नीचर एवं फिक्सचर	10%	38,748	-	-	38,748	2,756	3,399	6,155	30,593	33,992
कार्यालय उपस्कर	15%	8,299	8,750	-	17,049	622	2,464	3,086	13,963	7,677
साफ्टवेयर	60%	458,645	-	533,148	991,793	137,594	352,575	490,169	501,624	321,052
सर्वर	15%	-	1,548,573	-	1,548,573	-	232,286	232,286	1,316,287	-
		814,195	1,560,973	569,348	2,944,516	203,860	696,357	900,216	2,044,300	610,335

**कृते राजेश लक्ष्मण एवं सहयोगी**  
**सनदी लेखाकार**

**कृते मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र**  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)

ह/-

आर. लक्ष्मण राव

भागीदार

सदस्यता सं. 207113

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 30.04.2010

ह/-

के. पी. शर्मा

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ****1. पृष्ठभूमि**

मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र, भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई है जिसकी स्थापना हैदराबाद में भारत में जीवन बीमा कंपनियों के पालिसी धारकों की मृत्युसंख्या तथा रुग्णता दरों के संबंध में अनुसंधान करने के लिए मुख्य रूप से की गई थी और श्री के. पी. शर्मा इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं जो व्यवसाय से एक बीमांकक हैं। वे इस अनुसंधान स्कंध (विंग) के प्रमुख हैं।

**2. लेखांकन का आधार**

इस इकाई के वित्तीय विवरण भारत में लागू सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं।

**3. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की व्यवस्था आय कर नियमावली में निर्धारित दरों पर तथा रीति से हासित मूल्य तरीके पर किया जाता है।****4. अचल परिसंपत्तियाँ**

अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख उनके अर्जन की मूल लागत पर किया जाता है जिसमें से संचित मूल्यहास घटा दिया जाता है।

**5. पारिश्रमिक एवं वेतन****2009-2010****2008-2009**

वेतन तथा भत्ते

23,45,986 रुपए

919,118 रुपए

**6. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक**

लेखापरीक्षा शुल्क

25,000 रुपए

15,000 रुपए

सेवा कर

2,575 रुपए

1,545 रुपए

**7. मीयादी जमा राशियों पर अर्जित ब्याज इकाई की आय के रूप में दिखाई गई है।****8. सभी आंकड़े रुपए के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और जहां कहीं भी जरूरी हुआ है उन्हें पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।**

**कृते राजेश लक्ष्मण एवं  
सहयोगी  
सनदी लेखाकार**

**कृते मृत्युसंख्या एवं रुग्णता अन्वेषण केन्द्र  
(भारतीय बीमांकक संस्थान की एक इकाई)**

ह/-

आर. लक्ष्मण राव  
भागोदार  
अधिकारी

सदस्यता सं. 207113

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 30.04.2010

ह/-

जी. एन.  
अगरवाल  
अध्यक्ष

ह/-

ए. डी. गुप्ता  
उपाध्यक्ष

ह/-

जी. एल. एन.  
शर्मा  
मानद सचिव

ह/-

के. पी. शर्मा  
मुख्य कार्यपालक  
अधिकारी

## RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 27th August 2010

DBOD. No. Ret. BC. 37/12.06.004/2010-11—In exercise of the powers conferred under Clause (b) of sub section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs exclusion of the "State Bank of Indore" from the Second Schedule to the said Act, as the said bank has ceased to carry on banking business with effect from August 26, 2010.

ANAND SINHA  
Executive Director

## STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 28th August 2010

SBD/No. 3/2010-11—In terms of section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, after consulting the Board of Directors of State Bank of Travancore and with the approval of the Reserve Bank of India, have appointed Shri Pradeep Kumar Panja as Managing Director of State Bank of Travancore for a period of two years with effect from the date he assumes charge

O. P. BATT  
Chairman

***Employees' State Insurance Corporation***

New Delhi, the

2008

No. A-12(11)/1/1996-Med.IV. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to Senior Administrative Grade posts in ISM namely:-

**1. Short title and commencement:** (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation [Senior Administrative Grade posts in ISM] Recruitment Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application:** – These regulations shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.



**3. Number of posts, classification and scale of pay:-** The number of the said posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these Regulations.

**4. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and others matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

**5. Disqualification - No person :-**

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Regulation.

- 6. Power to relax:-** Where the Director General of the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 7. Savings:-** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

C. S. KEDAR  
Director General

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
5. Advisor (Indian System Medicine) in SAG level post	*1 *Subject to variation dependant on workload	Group -A Non ministerial	PB-4, GP- Rs.10,000/- Plus non practicing allowance as admissible to analogous posts under the Central Government	Selection Post	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether: by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by transfer on deputation/absorption or through contract.	<p><b>By Promotion</b> Chief Medical Officers in the scale of PB-4 GP-Rs.8700/- with 3* years regular service or total 17* years of Group "A" regular service.</p> <p><b>*Note</b> Extra Ordinary Leave availed for reasons other than on Medical certificate and for Study purpose, shall be excluded from the qualifying service.</p> <p><b>BY TRANSFER ON DEPUTATION</b> Officers under the Central / State Government / Public Sector Undertakings. (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; OR (ii) With 3 years' regular service in PB-4 GP-Rs.8700 or equivalent; OR (iii) With 8 years' regular PB-3, GP Rs.7600/- or equivalent; and (b) Possessing the following educational Qualification and Experience:- <b>ESSENTIAL:</b> (i) A degree in Ayurveda of a recognized University/Statutory State Board/Council/Faculty of Indian Medicine or equivalent recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970). (ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or a State Register of Indian Medicine and (iii) 15 years' experience in the profession. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / department of the Central Government shall not exceed 3 years. Note 2: The eligibility list of officers for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade. Through Contract: Short term appointment for one year of Medical Officer who fulfill essential educational qualification requirement.</p>	<p><b>FOR CONSIDERING PROMOTION (GROUP-A DPC)</b></p> <p>1. Secretary Ministry of Labour Govt. of India—Chairman</p> <p>2. Director General ESI Corporation – Member</p>	Not applicable

**TEZPUR UNIVERSITY**  
Assam, the 26th August 2010

**Statute 2 of Second Schedule of the Tezpur University Act, 1993**

(Amendments as approved by the Visitor vide MHRD letter F.No.14-1/2010-Desk  
(U) Dated 07/07/2010)

The numerals 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 2(5) and 2(6) of Statute 2 of the Second Schedule of Tezpur University Act, 1993 are replaced by 2(i), 2(ii), 2(iii), 2(iv), 2(v) and 2(vi) respectively.

The numerals 5(i), 5(ii), 5(iii), 5(iv) and 5(v) of the Statute 2 of the Second Schedule of Tezpur University Act, 1993 are replaced by v(a), v(b), v(c), v(d) and v(e) respectively.

**Statute 2(4) of the Second Schedule of Tezpur University Act, 1993 :**

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon the office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and shall be eligible for re-appointment within the age limit as specified above.

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office.

Provided further that the Visitor may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.

**A. K. BURAGOHAIN**  
Registrar

# Institute of Actuaries of India

Mumbai - 400 001

## **Forth Report of the Council for the year ended 31.3.2010**

The Council has the pleasure to submit its 4<sup>th</sup> report for the financial year ended 31<sup>st</sup> March 2010 and activities for the period since last AGM on 30.8.2009.

### **1. Environment :**

The Life and non-life industries are passing through a challenging time due to significant regulatory changes with respect to product design, charging structure and distribution related issues. It is expected that the life insurers would move from unit linked products to non unit linked products. There has been significant pressure on controlling the expense and make the process more efficient and robust. Several alternative measures are being considered by the insurers. The Council believes that the introduction of cap on charges and surrender penalties is a welcome step in the interest of customers and increases value to the customer. However, due to difficulty of selling a life insurance product and the significant expenses involved in the existing distribution models, the growth in private life insurance industry is expected to be moderate. It is interesting to see how the life companies change their strategies with the given reality. In the recent past, several life insurers have been generating profit after significant losses in the initial years. It is important that the insurers continue this trend on sustainable basis to give positive signal to the stakeholders.

The non-life industry was de-tariffed in January 2007. Following de-tariffication, there has been a 'price war' between non-life insurers resulting in huge underwriting losses. New entrants to the non-life market have resulted in increased competition and further reduction in rates. Discounts in Corporate Fire portfolios are as high as 90% from erstwhile tariffs. Traditionally, actuaries have not had a significant role to play in the non-life industry, with tariffs governing prices. Post de-tariffication, IRDA has widened the role of Appointed Actuaries in non-life companies, stipulating increased actuarial involvement in technical pricing and reserving. Further, all non-life companies are expected to furnish a Financial Condition Report (FCR) for the year 2009-10 to IRDA by September 30, 2010. The objective of the FCR, in brief, is to analyze the potential future development of the company's solvency position and to provide to the company's Board of Directors and the IRDA an early warning signal in order to reduce the damage that insolvency might cause. The FCR thus provides a "future focus" to the statutory requirements and examines the sensitivity of the future solvency position to potential changes in the economic environment, claims experience and pricing strategy as well as other relevant factors.

Broadly, companies in the financial sector face three types of risk – operational risk, financial risk and market risk. Operational risk includes sales, technological risk, etc. Financial risk would include risk related to asset and liability mismatch and market risk on the other hand includes interest rate risk, equity risk, etc. Few other types of risk that are specific to insurance companies are pricing risk, insurance risk etc. Regulatory overlap across sector is also a risk to take note of. The recent notification on the implementation of Corporate Governance guidelines is a welcome move from IRDA in establishing a robust risk management framework. Insurance Regulatory and Development Authority has also made it mandatory for all insurance companies

to have a risk committee of Directors. There is significant employment opportunities for actuarial students in the area of risk management. In line with IAA framework, Institute is trying to introduce Certified Enterprise Risk Analyst (CERA) course to make traditional actuarial students a risk specialist. Significant work is required to be undertaken in marketing the profession into this area.

On the Pension and Employee Benefits area there are no significant changes. Institute of Chartered Accountants of India is probably considering again some changes in Accounting Standard 15. It may have some impact on Actuarial profession. The PFRDA and the Government are trying to popularize New Pension Scheme. Though it is a defined contribution scheme, it is expected to generate some employment opportunities for actuaries.

## 2. Membership

The net membership of the Institute has gone up by 21.6% the analysis of which is given as under:

### 2.1 Analysis

Class of Membership	As at 31.3.2002	As at 31.3.2003	As at 31.3.2004	As at 31.3.2005	As at 31.3.2006	As at 31.3.2007	As at 31.3.2008	As at 31.3.2009	As at 31.3.2010
Fellows	204	200	204	203	213	217	215	203	216
Affiliates	19	23	24	18	23	27	18	20	16
Associates	122	118	120	136	131	135	134	132	130
Students other than Associates	1494	1905	2815	3486	5552	6200	6518	8340	10216
<b>Total</b>	<b>1839</b>	<b>2246</b>	<b>3163</b>	<b>3843</b>	<b>5919</b>	<b>6579</b>	<b>6885</b>	<b>8695</b>	<b>10578</b>
Hon. Fellows	6	6	6	6	6	6	6	6	6
<b>Grand Total</b>	<b>1845</b>	<b>2252</b>	<b>3169</b>	<b>3849</b>	<b>5925</b>	<b>6585</b>	<b>6891</b>	<b>8701</b>	<b>10584</b>

It may be observed that the rise in membership has been in students only.

## 3. Committees / Advisory Groups and Council

### 3.1 Committees / Advisory Groups and Council

Members of the Council serving as at 31.3.2010 :

Sr. No.	Name of the Member
1.	G.N. Agarwal, President
2.	K.S. Gopalakrishnan, Vice President
3.	G.L.N. Sarma, Hon. Secretary
4.	Tarun Bajaj, (nominee from the Central Government)
5.	R. Kannan (nominee from the IRDA)
6.	Heerak Basu
7.	S. Madhusudhanan
8.	K.K. Wadhwa

9.	T. Bhargava
10.	A.D. Gupta
11.	Anil Kumar Singh
12.	A.R. Prabhu
13.	N. Kalpana
14.	Vibha Bagaria

### 3.2 Meetings

From the last AGM on 28.8.2009 till this AGM, the Council met 5 times in Mumbai on the following dates:

Sr. No.	Date
1.	14.11.2009
2.	19.2.2010
3.	10.3.2010
4.	8.5.2010
5.	14.8.2010

### 3.3. Office Bearers

Following office bearers have continued to serve the Institute from 3.1.2009 :

1. G.N. Agarwal	President
2. K.S. Gopalakrishnan	Vice President (upto 8.5.2010)
3. A.D. Gupta	Vice President (from 8.5.2010)
3. G.L.N. Sarma	Hon. Secretary

### 3.3 Committees

#### 3.4.1 Education and Examination Committee

The Education and Examination Committee was set up by the office order dated 03 January 2009 and was further reconstituted on 31 March 2010 by the President with the following members:

Members of the Committee:

1	G L N Sarma	Chairperson
2	A K Singh	Member
3	N Kalpana	Member
4	R Vaidyanathan	Member

This Committee reports to the Council.

During this year the Committee met on 29th May 2010 & 17th June 2010 and discussed all related issues. In addition, the Chairperson had a number of consultations with the members and the Chairpersons of Advisory Group on Examination and Advisory Group

on Education on introduction of new subjects, exemption, mutual recognition agreement with other actuarial bodies and other issues related to examination and education.

### 3.4.2 CPD / CoP Committee

In accordance with the decision taken at the Council meeting on 03 January 2009, the Certificate of Practice Committee (CoP Committee) is constituted as under:

#### Members of the Committee:

1	G N Agarwal	Chairperson
2	K S Gopalakrishnan	Member
3	Dr R Kannan	Member

This Committee reports to the Council. It is responsible for taking decisions on the applications for fresh or renewal of Certificate of Practice. Decisions are taken in accordance with laid down rules for such Certificate of Practice.

Presently CoPs are issued to Appointed Actuaries to comply with their regulatory role in Life, General and Reinsurance areas. For the year 2009-10, the details of CoP issued/renewed are as under;

#### Issuance of CoP

Life Insurance	-	5
General Insurance	-	7
Life Reinsurance	-	1
General Reinsurance	-	0

#### Renewal of CoP

Life Insurance	-	24
General Insurance	-	23
Life Reinsurance	-	1
General Reinsurance	-	1

### 3.4.3 Finance and Investment Committee

The Committee was reconstituted on 22<sup>nd</sup> January 2009 with the following members :-

1. K.S. Gopalakrishnan	Chairperson
2. Heerak Basu	Member
3. Vibha Bagaria	Member
4. A.R. Prabhu	Member

This Committee reports to the Council.  
The Committee met on 20th June 2009, 5th September 2009 and 13th February 2010.



### 3.4.4 Audit Committee

The Audit Committee was reconstituted on 22<sup>nd</sup> January 2009 with the following members :-

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| 1. A.D. Gupta              | Chairperson |
| 2. Vibha Bagaria           | Member      |
| 3. Pradeep Kumar Mahapatro | Member      |

This Committee reports to the Council.

The Committee met on 27th June 2009 and will be meeting again on 14th August 2010.

### 3.4.5 Disciplinary Committee

In terms of Section 26 of the Actuaries Act 2006, the Disciplinary Committee of the Institute of Actuaries of India is constituted as under:-

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. A D Gupta             | Presiding Officer |
| 2. Uttam Prakash Agarwal | Member            |
| 3. Mr Lalit Kumar        | Member            |
| 4. K K Wadhwa            | Member            |
| 5. A R Prabhu            | Member            |

Mr R L Narasimhan and Mr Gururaj Nayak, Administrative Officer will work as Prosecution Director and Designated Person respectively to the committee.

## 3.5 Advisory Groups

### 3.5.1 Advisory Group on Education

The Advisory Group on Education was set up by the office order dated 03 January 2009 and was further reconstituted on 21 November 2009 by the President with the following members:

- |    |                  |             |
|----|------------------|-------------|
| 1  | B N Rangarajan   | Chairperson |
| 2  | Sanjeeb Kumar    | Member      |
| 3  | Sanchit Maini    | Member      |
| 4  | P K Dinakar      | Member      |
| 5  | Rajesh Dalmia    | Member      |
| 6  | S Madhusudhanan  | Member      |
| 7  | Debasis Sengupta | Member      |
| 8  | Sankarsan Basu   | Member      |
| 9  | Varun Gupta      | Member      |
| 10 | N Kalpana        | Member      |
| 11 | Pournima Gupte   | Member      |

This Group reports to the Education and Examination Committee (EEC). During the year Advisory Group on Education had met on 21<sup>st</sup> September 2009, 29<sup>th</sup> January 2010 and 10<sup>th</sup> June 2010 respectively to discuss various issues relating to education, syllabus, introduction of new subjects, MRA with other actuarial bodies etc.

### 3.5.2 Advisory Group on Examination

The Advisory Group on Examination was set up by the office order dated 03 January 2009 and was further reconstituted on 16 January 2010 by the President with the following members:

Members of the Advisory Group:

1	R Srinivasa Rao	Chairperson
2	A K Singh	Member
3	Prithesh Chaubey	Member
4	Vivek Jalan	Member
5	S P Chakraborty	Member
6	Arpan Thanawala	Member
7	Dheeraj Misra	Member
8	Gautam Kakar	Member
9	Rajeev Kumar	Member
10	D Sai Srinivas	Member
11	Bharat Venkataramani	Secretary

This Group reports to the Education and Examination Committee (EEC). During the year examination advisory group met on 18th July 2009, 27th August 2009, 21st November 2009, 22nd December 2009, 19th February 2010, 29th May 2010 (Joint Meeting with EEC) & 17th July 2010 (Joint meeting with EEC) to discuss examination related matters such as panel of examiner, standard of paper setting and marking, mechanism to address student grievances etc.

### 3.5.3 Advisory Group on Life Insurance

Membership of the Advisory Group on Life Insurance as on date is as under:

1	Heerak Basu	Chairperson
2	Dr R Kannan	Member
3	V Rajagopalan	Member
4	T Bhargava	Member
5	G L N Sarma	Member
6	N M Govardhan	Member
7	Sanket Kawatkar	Member
8	R Padmaja	Member
9	Abhishek Saraf	Member
10	Paul Antony Beresford	Member

11	Ashley Rebello	Member
12	John Poole	Member
13	P K Thapliyal	Secretary

This Group reports to the Council. During the period the Advisory Group met on 27th August 2009, 29th October 2009, 26th February 2010 and 10th March 2010.

Activities of Advisory Group:

- ❖ Current Issues in Life Assurance (CILA) was conducted on 27th and 28th August 2009 at Hotel Sea Princess, Mumbai. The following topics were presented:

- Issues in writing unitized-with-profit (UWP) business in India by Mr PradEEP Thapliyal
- Universal life products by Mr. K.S. Gopalakrishnan
- Economic Capital – A preamble by Mr. Varun Gupta and Mr. B.N. Rangarajan
- IFRS for Life Insurance by Mr. Rohan Sachdev
- Financial Reinsurance by Mr. R. Srinivasa Rao
- Asset Liability Management by Dr. R. Kannan
- Enterprise Risk Management by Mr. M. Subbrahmanyam
- Evolution of Life Insurance Products – Issues and concerns by Mr. S.P. Chakraborty and Mr. P.K. Maiti
- Health Insurance products by Mrs. J. Anitha and Mr. DNKLNK Chakravathy
- Taxation of Life Companies in India by Mr. Punit Shah
- Fund Management in Life Insurance Company by Mr. Abhijit Gulanikar

Mr. U.P. Agarwal, President, Institute of Chartered Accountants of India addressed the gathering. Over 100 participants attended the seminar.

- ❖ A Workshop on Economic Capital In Life Insurance Industry was organized on 29th October 2009. Over 90 participants attended the same. The following topics were discussed:

- Economic Capital –Implementation of EC in Other Markets – Experiences by Mr. Nigel Knowles
- Data related challenges in Calibrating the Economic Capital with specific reference to India by Mr. Geoffery Au and Mr. Sanjeeb Kumar
- Workshop on Economic Capital calculation and Presentation of Results of workshop by Mr. Varun Gupta and Mr. B N Rangarajan

The Group is also currently working on reviewing the existing professional guidance for peer review and also guidance regarding the valuation of life insurance companies in the event of an Initial Public Offering.

### 3.5.4 Advisory Group on General Insurance

The Advisory Group on General Insurance comprises of the following members:-

Members of the Advisory Group:

1	A R Prabhu	Chairperson
2	J Anita	Member
3	N K Parikh	Member
4	S Balakrishna Iyer	Member
5	Tania Chakravarti	Member
6	M Venkatesan	Member
7	Biresh Giri	Secretary

This Group reports to the Council.

The group met on 12.10.2009 and 30.10.2009 during the year to deliberate current issues on Non-life Business with focus on

- attracting new talent opting for Non-life Business area among Student / Associates / Fellows / Affiliates.
- to organize seminars covering all aspects having business growth with bottom-line under competitive De-Tariff conditions, as also on product features, risk factors, rating and pricing considerations, underwriting, IBNR, with emphasis on Economic Forecasting, Ratio analysis, Business plan projections.

The group organized two seminars covering most of these topics and was well responded by members. The group also arranged the Workshop on Financial Condition Reporting (FCR) covering the rope of appointed actuaries is in Non-Life Insurance Companies.

### 3.5.5 Advisory Group on Pensions and Social Security

Membership of the Advisory Group on Pensions and Social Security as on date is as under:-

#### Members of the Advisory Group:

1	K Subrahmanyam	Chairperson
2	A D Gupta	Member
3	D K Pandit	Member
4	Arpan Thanawala	Member
5	R Krishnaswamy	Member
6	S Chidambaram	Member
7	Kulin Patel	Member
8	Bhudev Chatterjee	Member
9	Gautam Kakar	Member
10	Viren Mehta (CA)	Member
11	R Arunachalam	Secretary

This Group reports to the Council. During the period the group is reconstituted as Advisory Group for Pension and Social Security (AGPSS) and had six meetings on 2<sup>nd</sup> May 2009, 29<sup>th</sup> August 2009, 3<sup>rd</sup> November 2009, 23<sup>rd</sup> December 2009, 18<sup>th</sup> February 2010 and 26<sup>th</sup>

March 2010. One of the meetings was held in New Delhi (on 2<sup>nd</sup> May 2009) and the other meetings in Mumbai.

The major focus during the last year was to continue with addressing issues related to the AS 15 (Rev). AGPSS has finalized three new guidance notes GN 27 (Guidance Note on Accounting for Compensatory Absences), GN 28 (Guidance Note for Other Employee Benefits) and GN 29 (Guidance Note for Valuation of Interest Rate Guarantee in Exempt Provident Funds). These guidance notes are currently being circulated to the fellow members before being formally issued. The copy of the same has been made available in the Institute website.

The advisory group also conducted a presentation on Limited Liability Partnership Act by eminent lawyer Sharadh Abhayankar who provided in depth details on the Limited Liability Partnerships and the related provisions.

During the period, the AGPSS worked on developing a glossary of terms that are commonly used. The glossary is currently under review and the AGPSS plans to introduce an abridged version of the glossary during the first/second quarter of the next financial year. The advisory group is also in the process of preparing a list of practicing fellow members for making this available on IAI's website.

The group is also working on strengthening the liaison with various other professional bodies like the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), International Actuarial Association (IAA) and Society of Actuaries (SoA) and exploring opportunities to conduct joint seminars.

### **3.5.6 Advisory Group on Professional Affairs and Standards**

The members of the Advisory Group as on date are as under:

1 K K Wadhwa	Chairperson
2 Sanjeev Pujari	Secretary
3 J S Salunkhe	Member
4 Peter J Akers	Member
5 N M Govardhan	Member
6 Mike Wood	Member
7 M G Diwan	Member
8 Chandan K Khasnobis	Member

This Group reports to the Council. During the period, the Committee met thrice, on 12.6.2009 and 4.12.2009 to deliberate on issues of relevance.

Two 'India Fellowship Seminars' were conducted by the Committee during this period on 11/12th of June 2009 and 3/4th of December 2009 which were respectively the 11th and the 12th IFS.

The activities undertaken by the Committee in brief are as follows –

- The content and quality of the 'India Fellowship Seminar' has been continuously reviewed.
- Changes to some existing GN's have been initiated and implemented. Other GNs will also be reviewed during the year.
- Professional Conduct Standards (PCS) and Principles & Procedures for issuance of Guidance Notes (GN's)

### 3.5.7 Advisory Group on Administration

**The Advisory Group was constituted on 22<sup>nd</sup> January 2009 with the following members:-**

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 1. J S Salunkhe         | Chairperson |
| 2. K K Wadhwa           | Member      |
| 3. T Bhargava           | Member      |
| 4. D. Sai Srinivas      | Member      |
| 5. Pournima Gupte       | Member      |
| 6. Bharat Venkataramani | Secretary   |

The Group reports to the Council.

During the year the Advisory Group met on 20<sup>th</sup> June 2009 and 31<sup>st</sup> October 2009.

The Group finalized the Process Manual (Expenditure Manual) and Financial Power Standing Order and Financial Power Standing Orders Chapter I to IV which were subsequently approved by the Council. The Group also approved the proposed Budget of the Institute of Actuaries of India for the first time. The same was adopted by the Council and implemented by the Administration.

The new administrative system is being developed to integrate various administrative functions of the Institute including maintenance of the membership data base and generation of unique identification number for members. Different modules such as about admissions, subscriptions, study materials, examination etc. are in the final stages of implementation.

### 3.5.8 Advisory Group on Enterprise Risk Management

The members of the Advisory Group as on date are as under :-

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| 1. Mr. Sanchit Maini   | Chairperson |
| 2. Mr. R. Vaidyanathan | Member      |
| 3. Mr. MSVS Phanesh    | Member      |
| 4. Mr. Rajesh Dalmia   | Member      |

---

5. Ms. Amrita Kaur	Member
6. Dr. K. Sriram	Member

---

The Group reports to the Council. It is a forum for its members to discuss developments in the area of enterprise risk management, with particular focus on actuarial matters. Its responsibilities are :

- Conduct of enterprise risk management specific seminars, with approval of the President.
- Recommend to the Advisory Group on Professional Affairs and Standards issuance, and review, of guidance notes for actuaries.
- Make suggestions to the Education and Examination Committee on course syllabus and course material relevant to enterprise risk management.

### **3.5.9 Advisory Group on Health Insurance**

During 2009-10, the members of the Advisory Group on Health Insurance were:

1. Avijit Chatterjee	Chairperson
2. Robert Prochnow	Member
3. Hebert Meister	Member
4. Richard Kipp	Member
5. Sunil Sharma	Member
6. J Meenakumari	Member
7. Priscilla Sinha	Member

This Group reports to the Council.

#### **Activities during the period:**

##### **Seminar on Health Insurance and Care**

The Health Insurance Seminar was held on January 7-8, 2009 at NIA Pune and was attended by over 115 delegates. The keynote address was given by Mr. J Hari Narayan, Chairman, IRDA.

#### **Presentations made:**

Mrs. J Meenakumari, Joint Director Health-IRDA, presented a paper on current and proposed regulatory developments in Health Insurance Industry in India.

Ms. Malti Jaiswal, CEO, Meditek and Mr. Lalit Baveja, Senior Health Care Consultant with Milliman India, described various strategies to manage claim costs.

Ms. Georgina Howes Vice president, Life and Health Products of Swiss Re, made a presentation on underwriting methods.

Dr Nayan Shah, Paramount discussed the health providers' role in health insurance and the issues surrounding provider networks.

Mr. Krishnan Ramachandran and Dr Bhabatosh Mishra of Apollo DKV and Ms Irene Ng of Gen Re, discussed ways and means of strengthening the underwriting process.

Mr. Sanjay Datta, Head Customer Service, ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Mr. Ankur Nijhawan, AVP, Marsh Brokers Group, made a presentation on Micro Insurance & Social Insurance Models.

Mr. Neeraj Basur, Director Finance, Max BUPA Health Insurance Company Ltd., made a presentation on management reporting and data analysis.

Mr. Robert Prochnow, Chief Actuary, Swiss Re Health Care Pvt. Ltd., spoke on various models of group health pricing techniques.

Mr Biresh Giri, Milliman presented a case study on health portfolio analysis, including the uses of table A, B and C.

Ms Gayle Adams, Munich Re discussed product design within the existing framework,

Mr Kamlesh Manuja of ICICI Prudential Life Ins Co, and Dr Detloff Rump of Gen Re discussed policy wordings and terminology, including the benefits and challenges of standardization.

Mr Alan Watts, RGA Re discussed the comparative history of health insurance in India, China and Mexico.

The presentations made are available on IAI website. The link is

<http://www.actuariesindia.org/Presentations/HIB/HIB%20seminar%2017Jan2008/Hib%20at%20Nia%2007Jan2010.htm>

### **3.5.10 Advisory Group on the Profession's Magazine - The Actuary India**

The Actuary India is the monthly magazine of the Institute of Actuaries of India. It is a medium of communication about various activities pertaining to the actuarial profession for the members of the institute. It also gives members an opportunity to share professional experiences.

The Advisory Group on Actuary India has the following members:

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1 Satyan Jambunathan | Chairperson |
| 2 Subhendu Bal       | Member      |



3	Bharat Venkataramani	Member
4	Meenakshi Malhotra	Member
5	Shilpa Mainekar	Member
6	Nayna Dalvi	Member

**Chief Editor of the magazine – Peter J Akers**

During the year the group met on 10<sup>th</sup> October 2009.

In September 2009 the Actuary India magazine got registered with Registrar of Newspapers for India (RNI) and received the RNI registration No. From Postal Department we got the Postal Registration No for the magazine. And now we dispatch the magazines thru post which save our courier charges.

The advisory group is responsible for the content of the profession's magazine and is also responsible for its production at regular intervals.

The monthly issue contains articles from both members of the Institute as well as non-members. The magazine covers matters of topical interest to the profession aside from reports and announcements on various events organized by the Institute.

The Actuary India is sent to all members of the Institute, various management institutes, press, Life and General Insurance companies, Actuarial consultants, International actuarial bodies. The monthly issue of the magazine is also available on the website of the profession.

#### **4. 12<sup>th</sup> Global Conference of Actuaries**

The entire venue was bustling with people from the actuarial world. Eminent personalities from the profession and many other business leaders had congregated to celebrate the two-day scintillating event, the 12<sup>th</sup> Global Conference of Actuaries (GCA). The event was held this year on 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> of February, 2010 at Intercontinental, The Lalit, Mumbai. It was organized by the Institute of Actuaries of India (IAI) in collaboration with the International Actuarial Association (IAA).

Identifying the risks to which the business is exposed and managing them has always been the core of actuarial profession. Risk always brings with it the opportunities to fetch higher returns. The objective has always been to manage the risks in the best possible way, which is also in line with the risk appetite of customer. However, the increasing complexities of risks and ever-changing consumer needs and their risk appetite are challenges that the profession faces. Also, the aftermath of global financial crisis unleashed the severe effects of tail risks which are very few in number but have catastrophic effects.

The event brought together actuaries and other professionals in the finance space interact and discuss the challenges faced by the profession. The conference witnessed various

enlightening sessions in which people from the profession and other business leaders exchanged their thought provoking ideas with each other.

Amidst all the festivities, the event began with the lighting of the auspicious lamp, the source of light and wisdom. Among all the dignitaries present were Mr. G. N. Agarwal, President, Institute of Actuaries of India, Mr. David Alexander, Head of Business Development, Swiss Re Asia ex Japan / China – Principal Sponsor, Mr. K. V. Kamath, Non-Executive Chairman, ICICI Bank, Mr. Paul Thornton, President, International Actuarial Association and Mr. K. S. Gopalakrishnan, Vice President, Institute of Actuaries of India.

Mr. G. N. Agarwal, President, IAI, welcomed the audience with his inaugural speech and declared the theme of the event as “Actuarial Management – Paradigm Shift”.

Mr. K V Kamath, Non-Executive Chairman, ICICI Bank spoke about the financial growth that our economy is seeing. He pointed out that we should be prepared to face and manage the risks that double digit economic growth will bring along.

The inaugural session ended with a vote of thanks by Mr. K. S. Gopalakrishnan, Vice President, IAI. He expressed his gratitude towards all the dignitaries and thanked them for sharing their valuable thoughts and gracing the occasion with their presence.

## 5. Library

The Library of IAI is very unique in its kind, as it has specialized collection to serve the information needs and provide guidance to those studying for actuarial examination.

The library is the access point to get material for further reading in the subject of interest. Library membership is increasing with increase in the membership of IAI. Till date library membership is around 1600.

As per the request of the members of the Institute / Library adding the books in the library and the publishers / booksellers are contacted for purchase of books.

Library collection is distributed as per the subjects and the list of books as per subjects is available on our website.

### Circulation and Reader Services:

For using a library service needs a library membership. Library Membership forms are available in the office and on website.

1. Members can borrow maximum two titles at a time. The duration for which a title can be kept at any one time is maximum 15 days for Mumbai based member and 21 days for outstation member.
2. The duration of loan can be extended by phone or e-mail or in person. Depending on the demand for the book it is reissued to the same person for 2 more weeks.

3. Fine on late return is Rs. 10 per day.
4. One can reserve a book, which is out in circulation. As soon as the book returns to the library the person who has reserved the book is intimated by either e-mail or phone.
5. The documents which are for reference only can be accessed and photocopies of required part can be requested.
6. Members need to ensure safe return of the title to the library failing which they will be required to bear the cost of the title or provide another copy of same title to the library.

#### LIBSYS: Library Software

The process of Web-OPAC is in progress. This will help the members to browse the library book catalogue online.

### 6. Analysis of financial statements 2009-2010

#### 1. Balance Sheet

- a) Trust Fund and corpus has increased by about 13.42% over 2008-2009. Coupled with many steps taken during the year to exercise economy over expenses healthy surplus was generated in 2009-10.
- b) Current Liabilities have gone down by about 0.75%.
- c) Investments have gone up by about 24.50%. This includes the investment of earmarked funds which shows an increase of 111.00%. Further the increase can be attributed to increase in Gross surplus 48.93%
- d) The amount of Loan and advances has gone up by 51.08%. The increase is on account of Accrued Interest but not due on investments (increase 57.68%) and Tax Deducted at source which is recoverable from Income Tax authorities (increase 38.75%) amounting Rs. 48.22 lacs and Rs. 7.67 lacs respectively.

#### 2. Income and Expenditure

- a) Actual Surplus generated during 2009-10 was higher by Rs. 1.24 crores (48.93%) over previous year. However due to transfer of Rs. 3 crores out of this year's surplus to Building Fund, the surplus was declined to Rs. 75.85 lacs as compared to Rs. 182.53 lacs during previous year.
- b) The total income grew by about 31.42%. The revenue generated through educational service and examination fees accounts for 70.30% of the total revenue. Members' contribution is about 11.89% of the total revenue. Interest income on investment is about 10.65% which is higher by 29.42% over previous year.
- c) Total expenses (other than Audit fee and Depreciation) grew by about 16.40% over previous year which are in line with the increase in the activities of the institute.

**7. Acknowledgement**

The staff at the IAI continued their hard work and demonstrated commitment of high degree in coping with ever increasing work load.

Various committees and Advisory Groups have contributed throughout the year and brought activities to very high standards of professionalism.

Examiners and Markers have contributed to the conduct of examination which has enhanced IAI's standing as a credible professional examining body.

**FINANCIAL STATEMENT**


**Khandwala & Shah**  
**Chartered Accountants**

G3, 8th Floor, Everest,  
156, Tardeo Road, Tardeo,  
Mumbai - 400 034

**Report of the Auditors relating to Accounts to the Council of Institute of Actuaries of India****INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA**

1. We have audited the attached Balance Sheet of Institute of Actuaries of India as at 31st March, 2010 together with Income and Expenditure Account for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Institute's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We report that:
  - (a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit;
  - (b) In our opinion, accounts are maintained in conformity with the requirements of The Actuaries Act, 2006;
  - (c) The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of account;
  - (d) In our opinion, the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account comply with the Accounting Standards;
  - (e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with the Notes thereon, give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
    - (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of Institute as at 31st March, 2010;
    - (ii) in the case of the Income and Expenditure Account, of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.

For and on behalf of  
**KHANDWALA & SHAH,**  
Chartered Accountants,

  
(PREMAL P. GANDHI)  
Partner  
Membership No.45462


Place : Mumbai  
Date : 19 AUG 2010

INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA  
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2010

As at 31.03.09	FUNDS & LIABILITIES	Sch.	As at 31.03.10	As at 31.03.09	PROPERTY & ASSETS	Sch.	As at 31.03.10
56,115,093.93	CAPITAL AND RESERVES	"A"	63,647,931.97	2,739,530.61	FIXED ASSETS & WORK-IN-PROGRESS	"F"	3,816,338.78
3,752,733.74	PRIZE AND SCHOLARSHIP FUNDS	"B"	3,881,220.83	97,687,701.32	INVESTMENTS	"G"	121,621,179.00
29,663,763.79	EARMARKED ENDOWMENT FUND	"C"	62,589,638.18		CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES :		
1,982,396.45	OTHER EARMARKED FUNDS	"D"	2,180,636.10	317,953.46	A) CASH & BANK BALANCES	"H"	4,153,681.84
12,989,235.60	CURRENT LIABILITIES	"E"	12,893,441.01	134,236.00	B) SUNDRY DEBTORS	"I"	326,600.00
7,141,484.54	IAI - MORTALITY & MORBIDITY INVESTIGATION CENTRE (MMIC)	"Ea"	989,520.06	10,765,286.66	C) LOANS & ADVANCES	"J"	16,264,588.53
111,644,708.05	Total Rs.		146,182,388.15	111,644,708.05	Total Rs.		146,182,388.15

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies "S"  
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE


For KHANDWALA & SHAH  
CHARTERED ACCOUNTANTS


  
Premal P. Gandhi  
PARTNER  
Membership No. 45462

PLACE : MUMBAI  
DATE : 19 August 2010

For INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

  
G. N. Agarwal  
PRESIDENT

  
A. D. Gupta  
VICE PRESIDENT

  
G. L. N. Sarma  
HON. SECRETARY

**INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA  
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 ST MARCH, 2010**

Year Ended 31.03.2009	EXPENDITURE	Sch.	Year Ended 31.03.2010	Year Ended 31.03.2009	INCOME	Sch.	Year Ended 31.03.2010
29,319,170.67	EXPENSES OF INSTITUTE	"K"	34,128,607.34	8,143,307.95	INTEREST ON INVESTMENT : ON SAVING BANK ACCOUNT AND ON F.D. WITH BANKS & PUB. CORP. Less : TRANSFERRED TO SPECIFIC FUNDS	"N"	10,409,880.04
66,798.00	AUDIT FEES		66,180.00	5,305,517.24			
25,575.00	INTERNAL AUDIT FEES		27,575.00				
	STATUTORY AUDIT FEES						
662,682.58	DEPRECIATION	"F"	882,678.83	30,861,240.35	EDUCATIONAL SERVICES & EXAM. FEES	"O"	45,340,546.00
25,236,620.84	BALANCE CARRIED DOWN		37,585,838.04	4,768,291.50	MEMBERS CONTRIBUTION	"P"	7,670,793.10
				13,897,828.00	SEMINAR FEES	"Q"	12,256,461.20
				477,970.00	OTHER INCOME	"R"	556,902.00
55,310,847.09	Total Rs.		72,690,879.21	55,310,847.09	Total Rs.		72,690,879.21
55,915.00	PRIOR PERIOD EXPENSES	"M"	0.00	25,236,620.84	BALANCE BROUGHT DOWN		37,585,838.04
6,927,582.16	TRANSFERRED TO BUILDING FUND		30,000,000.00				
18,253,123.68	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDI- TURE FOR THE YEAR TRANSFERRED TO GEN. FUND		7,585,838.04				
25,236,620.84	Total Rs.		37,585,838.04	25,236,620.84	Total Rs.		37,585,838.04

Notes to Accounts and Significant Accounting Policies "S"  
AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For KHANDWALA & SHAH  
CHARTERED ACCOUNTANTS

*Premal P. Gandhi*

Premal P. Gandhi  
PARTNER

Membership No. 45462

PLACE : MUMBAI  
DATE : 19 August 2010

For INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA

*A.D. Gupta*

A.D. Gupta  
VICE PRESIDENT

*G.L.N. Sarma*

G.L.N. Sarma  
HON. SECRETARY

## SCHEDULES TO BALANCE SHEET AS AT 31.03.2010

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
<b>SCHEDULE A</b>	<b>CAPITAL AND RESERVES</b>		
	<b>a) Capital</b>		
	Capital donated by :		
325,000.00	i) Chairman Executive Committee of General Insurance Council	325,000.00	
500,000.00	ii) General Insurance Corporation of India	500,000.00	
151,270.00	iii) Other Funds	151,270.00	
976,270.00	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>	<b>976,270.00</b>	
	<b>b) General Reserves :</b>		
36,985,700.25	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	55,138,823.93	
18,253,123.68	Add : Trfd from Income and Expenditure Account	7,585,838.04	
15,000.00	Less : President's award for paper of Special Significance at GCA (Sch.B(v))	0.00	
85,000.00	Less : Prof. G.S. Diwan Memorial / Prize / Awards Fund (Sch.B(a))	53,000.00	
55,138,823.93	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>	<b>62,671,661.97</b>	
<b>56,115,093.93</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>63,647,931.97</b>

<b>SCHEDULE A (a)</b>	<b>Details of Funds (Others)</b>	<b>Amount</b>
Date	Name	
12-08-95	M/s Thanawala Consultancy Service	50,000.00
13-12-95	Mr. D. Basu	1,000.00
27-12-95	Mr. M.C. Chakravarty	10,000.00
17-01-96	Mr. S.V. Ramaswamy	1,000.00
23-01-96	Mr. M.S. Venkataraman	2,000.00
01-02-96	Mr. S.P. Subhedar	2,500.00
23-02-96	Mr. D.K. Lodaya	1,000.00
26-02-96	Mr. J.L. Smith	2,500.00
19-03-96	Mr. H.L. Bhatia	10,000.00
19-03-96	Mr. B.P. Gupta	6,550.00
08-05-96	Mr. K.V.Y. Sastry	1,000.00
16-05-96	Ms. Archana Tripathy	300.00
21-05-96	Mr. S. N.Narayanan	3,320.00
08-07-96	Mr. D.K. Pandit	10,000.00
21-08-96	Mr. M. Veerabadrian	1,000.00
05-12-96	Mr. V.L. Sapre	5,000.00
13-12-96	Mr. B.P. Gupta (L.M.)	10,500.00
31-03-96	Mr. A.R. Prabhu	1,000.00
03-03-96	Mr. D. Basu	100.00
15-05-96	Mr. T. S. Swaminathan	25,000.00
25-06-96	M/s Thanawala Consultancy Service	7,500.00
	<b>Total Rs.</b>	<b>151,270.00</b>

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
<b>SCHEDULE B</b>	<b>PRIZE AND SCHOLARSHIP FUNDS :</b>		
	<b>a) Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Award Fund :</b>		
	<b>(For Best Actuarial Paper)</b>		
(35,000.00)	Balance as at 01.04.2008 <---1st April 2009 --->	0.00	
0.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	0.00	
0.00	Add : Received during year	0.00	
85,000.00	Add : Amount trfd from General Reserve	53,000.00	
50,000.00	Less : Prize paid during the year	53,000.00	
<u>0.00</u>	Balance as at 31.03.2009 <---31st March 2010 --->		<u>0.00</u>
	<b>ai) Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Award Fund :</b>		
	<b>(Subject SA2)</b>		
100,000.00	Balance as at 01.04.2008 <---1st April 2009 --->	157,250.00	
11,000.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	15,725.00	
50,000.00	Add : Received during year	0.00	
3,750.00	Less : Prize paid during the year	6,000.00	
<u>157,250.00</u>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<u>166,975.00</u>
	<b>b) Prof. (Late) G.S. Diwan 100th Birth Anniversary Memorial</b>		
	<b>Education Fund (Donated by R.M. Mehta)</b>		
170,523.76	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	186,781.37	
18,757.61	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	18,678.14	
2,500.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<u>186,781.37</u>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<u>205,459.51</u>
	<b>c) Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund :</b>		
	<b>(For Research Project)</b>		
154,707.61	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	168,725.45	
17,017.84	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	16,872.55	
3,000.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<u>168,725.45</u>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<u>185,598.00</u>
	<b>d) Prof. Diwan Birth Centenary Education Fund :</b>		
	<b>(For Subject CT8)</b>		
142,991.77	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	155,720.87	
15,729.10	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	15,572.09	
0.00	Add : Received during year	0.00	
3,000.00	Less : Prize paid during year	10,000.00	
<u>155,720.87</u>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<u>161,292.96</u>
	<b>e) K.R. Talpade Memorial Scholarship Endowment Fund :</b>		
	<b>(For Subject CT1)</b>		
12,749.15	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	12,651.56	
1,402.41	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	1,265.16	
1,500.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<u>12,651.56</u>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<u>11,916.72</u>
<b>681,129.25</b>	<b>Balance C/fd.....</b>		<b>731,242.19</b>



As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
681,129.25	Balance B/fd.....		731,242.19
<b>f) H.V. Krishnamurthy Prize Fund :</b>			
<b>(For Subject CT3)</b>			
33,321.30	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	35,486.64	
3,665.34	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	3,548.66	
1,500.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>35,486.64</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>37,035.30</b>
<b>g) Shanti Trust Endowment Fund :</b>			
<b>(For Best Research/Article by Member)</b>			
163,650.17	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	173,151.69	
18,001.52	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	17,315.17	
8,500.00	Less : Prize paid during the year	8,500.00	
<b>173,151.69</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>181,966.86</b>
<b>h) Atma Ram Scholarship Endowment Fund :</b>			
<b>(For Subject CT5)</b>			
11,591.22	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	10,616.25	
1,275.03	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	1,061.63	
0.00	Add : Received during year	18,500.00	
2,250.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>10,616.25</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>28,177.88</b>
<b>i) Chhaju Ram Scholarship Endowment Fund :</b>			
<b>(For Subject CT2)</b>			
17,625.59	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	17,814.41	
1,938.82	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	1,781.44	
0.00	Add : Received during year	12,400.00	
1,750.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>17,814.41</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>29,995.85</b>
<b>j) Parvati Devi Scholarship Endowment Fund :</b>			
<b>(For Subject CT6)</b>			
20,008.85	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	20,459.82	
2,200.97	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	2,045.98	
0.00	Add : Received during year	10,000.00	
1,750.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>20,459.82</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>30,505.80</b>
<b>k) Canada Life Scholarship Endowment Fund :</b>			
<b>(For Successful Associates and Fellows)</b>			
229,866.02	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	255,151.28	
25,285.26	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	25,515.13	
0.00	Add : Received during year	0.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	6,000.00	
<b>255,151.28</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>274,666.41</b>
1,193,809.34	Balance C/fd.....		1,313,590.29

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
1,193,809.34	Balance B/fd.....		1,313,590.29
	<b>l) K.A. Pandit Memorial Prize Fund : (For Subject ST4)</b>		
82,636.42	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	88,226.43	
9,090.01	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	8,822.64	
3,500.00	Less : Prize paid during the year	5,000.00	
<b>88,226.43</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>92,049.07</b>
	<b>m) K.P. Sarma Prize Fund : (For Subject CT4)</b>		
32,376.82	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	33,938.27	
3,561.45	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	3,393.83	
2,000.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>33,938.27</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>35,332.10</b>
	<b>n) Janardhan Pundlik Nerurkar Prize Fund : (For Sub. ST2)</b>		
26,105.83	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	25,477.47	
2,871.64	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	2,547.75	
0.00	Add : Received during year	35,000.00	
3,500.00	Less : Prize paid during the year	5,000.00	
<b>25,477.47</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>58,025.22</b>
	<b>o) Prof. R.M. Joshi Prize Fund : (For Subject CT7)</b>		
34,039.92	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	36,284.31	
3,744.39	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	3,628.43	
1,500.00	Less : Prize paid during the year	2,000.00	
<b>36,284.31</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>37,912.74</b>
	<b>p) Peter Akers Research Fund : (For Life Insurance)</b>		
13,965.91	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	15,502.16	
1,536.25	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	1,550.22	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<b>15,502.16</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>17,052.38</b>
	<b>q) Peter Akers Prize Fund (For Subject ST3)</b>		
33,798.99	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	46,251.88	
3,717.89	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	4,625.19	
12,235.00	Add : Received during the year	0.00	
3,500.00	Less : Prize paid during the year	5,000.00	
<b>46,251.88</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>45,877.07</b>
	<b>r) J.R. Joshi Prize Fund : (For Subject CA3)</b>		
27,311.18	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	30,504.23	
3,004.23	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a)	3,050.42	
2,688.82	Add : Received during the year	0.00	
2,500.00	Less : Prize paid during the year	3,000.00	
<b>30,504.23</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>30,554.65</b>
1,469,994.09	Balance C/fd.....		1,630,393.52

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
1,469,994.09	Balance B/fd.....		1,630,393.52
	<b>s) K.S. Gopalakrishnan &amp; Ilyaqat Khan Prize Fund : (For Subject ST5)</b>		
34,993.28	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	36,342.54	
3,849.26	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	3,634.25	
2,500.00	Less : Prize paid during the year	3,000.00	
<b>36,342.54</b>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<b>36,976.79</b>
	<b>t) Late Meena Sidhwani Act. Edu. Fund (For Awards to New FASIs)</b>		
37,462.80	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	36,583.71	
4,120.91	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	3,658.37	
5,000.00	Less : Prize paid during the year	5,000.00	
<b>36,583.71</b>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<b>35,242.08</b>
	<b>u) Late R.M. Mehta Memorial Fund</b>		
50,907.19	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	56,506.98	
5,599.79	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	5,650.70	
0.00	Amount received during the year	0.00	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<b>56,506.98</b>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<b>62,157.68</b>
	<b>v) Presidents Award for paper of Special Significance at GCA</b>		
0.00	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	0.00	
0.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	0.00	
15,000.00	Add : Trfd from General Reserve	0.00	
15,000.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<b>0.00</b>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<b>0.00</b>
	<b>w) Late A S Gupta Prize Fund (For best Girl Student each year)</b>		
98,474.25	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	103,306.42	
10,832.17	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	10,330.64	
6,000.00	Less : Prize paid during the year	6,000.00	
<b>103,306.42</b>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<b>107,637.06</b>
	<b>x) Principal PNB Life Insurance Co. Ltd</b>		
2,000,000.00	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	2,050,000.00	
0.00	Add : Amount received during the year	0.00	
220,000.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	205,000.00	
170,000.00	Less : Prize paid during the year	310,000.00	
<b>2,050,000.00</b>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<b>1,945,000.00</b>
	<b>y) Kamal Kumar Noranglal Podar Prize Fund (For Subject ST5)</b>		
0.00	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	0.00	
0.00	Add : Amount received during the year	60,000.00	
0.00	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (a))	3,813.70	
0.00	Less : Prize paid during the year	0.00	
<b>0.00</b>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<b>63,813.70</b>
<b>3,752,733.74</b>		<b>Total Rs.</b>	<b>3,881,220.83</b>

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
<b>SCHEDULE C</b>	<b>EARMARKED ENDOWMENT FUNDS :</b>		
	<b>a) Swiss Re :</b>		
106,623.48	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	118,352.06	
11,728.58	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	11,835.21	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Library Books	0.00	
<b>118,352.06</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>130,187.27</b>
	<b>b) Swiss Re : (Furniture)</b>		
301,500.26	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009--->	334,665.29	
33,165.03	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	33,466.53	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Modular Furniture	0.00	
<b>334,665.29</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>368,131.82</b>
	<b>c) Standard Life :</b>		
257,725.88	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	286,075.73	
28,349.85	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	28,607.57	
0.00	Less : Purchase of Library Books	0.00	
<b>286,075.73</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>314,683.30</b>
	<b>d) Standard Life : (Furniture)</b>		
522,918.61	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	580,439.66	
57,521.05	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	58,043.97	
0.00	Less : Exps. for Purchase of Modular Furniture	0.00	
<b>580,439.66</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>638,483.63</b>
	<b>e) Prudential Corporation Asia Ltd. :</b>		
1,756,137.82	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	1,949,312.98	
193,175.16	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	194,931.30	
0.00	Less : Paid for Excellent Performance & passing Three or more subjects at a time	40,502.00	
<b>1,949,312.98</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>2,103,742.28</b>
	<b>f) HDFC :</b>		
10,292.50	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	11,424.67	
1,132.17	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	1,142.47	
0.00	Less : Paid for Publication of Actuarial Directory	0.00	
<b>11,424.67</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>12,567.14</b>
	<b>g) CPD / Research :</b>		
786,312.51	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	872,806.89	
86,494.38	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	87,280.69	
0.00	Less : Interest transferred to IAI to meet expenses	0.00	
<b>872,806.89</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>960,087.58</b>
	<b>h) GCA &amp; Research Fund :</b>		
8,190,966.68	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	9,091,973.02	
901,006.34	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	909,197.30	
<b>9,091,973.02</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->		<b>10,001,170.32</b>
<b>13,245,050.30</b>	<b>Balance C/fd.....</b>		<b>14,529,053.34</b>

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
13,245,050.30	Balance B/fd.....		14,529,053.34
	<b>l) Building Fund :</b>		
8,550,568.77	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	16,418,713.49	
6,927,582.16	Add : Transferred form Income & Expenditure Account	30,000,000.00	
940,562.56	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (b)	1,641,871.35	
<u>16,418,713.49</u>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<u>48,060,584.84</u>
<u>29,663,763.79</u>	<b>Total Rs.</b>		<u>62,589,638.18</u>
<b>SCHEDULE D</b>	<b>OTHER EARMARKED FUNDS :</b>		
	<b>a) Life Insurance Corporation of India</b>		
881,548.06	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	978,518.35	
96,970.29	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (c)	97,851.84	
0.00	Less : Transferred to income and expenditure account	0.00	
<u>978,518.35</u>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<u>1,076,370.19</u>
	<b>b) ICICI :</b>		
698,295.51	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	775,108.02	
76,812.51	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (c)	77,510.80	
0.00	Less : Interest transferred to ASI to meet expenses	0.00	
<u>775,108.02</u>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<u>852,618.82</u>
	<b>c) Employees Relief Funds :</b>		
206,099.18	Balance as at 01.04.2008 <— 1st April 2009 —>	228,770.08	
0.00	Add : Amount received during the year	0.00	
22,670.90	Add : Interest allocated during Year (Schedule (L) (c)	22,877.01	
0.00	Less : Amount paid during the year	0.00	
<u>228,770.08</u>	Balance as at 31.03.2009 <— 31st March 2010 —>		<u>251,647.09</u>
<u>1,982,396.45</u>	<b>Total Rs.</b>		<u>2,180,636.10</u>

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
<b>SCHEDULE E</b>	<b>CURRENT LIABILITIES</b>		
	<b>Other Liability</b>		
473,865.00	Deposit Refundable (IAI Members)	369,015.00	
344,681.00	Gratuity Liability - Actuarial value	463,118.00	
	<b>Amount Recd. In Advance</b>		
320,000.00	Munich RE (Advertisement Income)	315,000.00	
8,891,760.00	Exam. Fees May 2010	9,124,995.76	
77,675.00	Late Exam Fees May 2009	0.00	
357,782.00	Subscription Fees recd. In advance for F.Y. 2009-10	0.00	
4,850.00	Subscription Fees recd. In advance for F.Y. 2010-11	22,019.00	
600.00	Subscription Fees recd. In advance for F.Y. 2011-12	3,175.00	
6,648.00	TDS Payable	0.00	
2,511,374.60	Outstanding Liability	2,596,118.25	
<b>12,989,235.60</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>12,893,441.01</b>

**SCHEDULE E(a) IAI - MMIC FUND ( FORMER NAME MMIB ) - LIST OF CONTRIBUTORS**

Name	Date	Amount
Insurance Regulatory & Development Authority	06-Oct-03	500,000.00
HDFC Standard Life Insurance Co. Ltd.	06-Oct-03	500,000.00
Aviva Life Insurance Co. Ltd.	06-Oct-03	500,000.00
Birla Sunlife Insurance Co. Ltd.	07-Oct-03	500,000.00
AMP Sanmar Assurance Co. Ltd.	07-Oct-03	500,000.00
ING Vysya Life Insurance Co. Ltd.	08-Oct-03	500,000.00
Allianz Bajaj Life Insurance Co. Ltd.	08-Oct-03	500,000.00
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	13-Oct-03	500,000.00
Tata AIG Life Insurance Co. Ltd.	14-Oct-03	500,000.00
OM Kotak Mahindra Life Insurance Co. Ltd.	17-Oct-03	500,000.00
Max New York Life Insurance Co. Ltd.	17-Oct-03	500,000.00
Met Life India Insurance Co. Ltd.	21-Nov-03	500,000.00
Life Insurance Corporation of India	22-Nov-03	500,000.00
Aegon Religare Life Insurance Co. Ltd.**	23-Mar-10	500,000.00
SBI Life Insurance Co. Ltd.**	30-Mar-10	500,000.00
<b>Total Rs.</b>		<b>7,500,000.00</b>

**SCHEDULE E(a)**

<b>a) MMIC (Formerly - MMIB)</b>		
9,126,089.32	Balance as at 01.04.2008 <--- 1st April 2009 --->	7,141,484.54
862,437.97	Add : Interest allocated during Year	804,909.89
0.00	Add : Contribution by Insurance Companies**	1,000,000.00
64,479.75	Less : Interest charged during the year	385,560.37
2,591,172.00	Less : Amount transferred to MMIC, Hyderabad	7,550,000.00
191,391.00	Less : Expenses incurred by IAI	21,314.00
<b>7,141,484.54</b>	Balance as at 31.03.2009 <--- 31st March 2010 --->	<b>989,520.06</b>

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
<b>SCHEDULE G</b>	<b>INVESTMENTS</b>		
	<b>a) In Bonds of</b>		
2,000,000.00	Industrial Development Bank of India	0.00	
400,000.00	Gujarat Electricity Board	0.00	
1,000,000.00	Kerala Power Finance Corporation Ltd.	0.00	
	<b>b) In Fixed Deposit with</b>		
13,000,000.00	State bank of Bikaner & Jaipur (Nariman Point, PM Road)	13,000,000.00	
29,856,077.00	HDFC Ltd.	16,656,077.00	
2,856,522.32	Bank of India, P.M. Road	0.00	
455,272.00	Axis Bank, Fort, Mumbai	455,272.00	
2,500,000.00	State Bank of Hyderabad	0.00	
6,500,000.00	IDBI Bank Ltd.	6,500,000.00	
1,000,000.00	ING Vysya Bank	0.00	
15,000,000.00	Barclays Bank	7,500,000.00	
1,500,000.00	Development Credit Bank	1,500,000.00	
9,500,000.00	ICICI Home Finance Ltd.	12,000,000.00	
1,000,000.00	IndusInd Bank	0.00	
1,000,000.00	Karnataka Bank Ltd.	7,000,000.00	
100,000.00	Andhra Pradesh Power Finance Corporation Ltd.	0.00	
1,292,500.00	Tamilnadu Power Finance Corporation Ltd.	1,292,500.00	
7,727,330.00	HDFC Ltd. (IAI - MMIC)	6,417,330.00	
0.00	DBS BANK Ltd	10,200,000.00	
0.00	LIC Housing Finance Ltd	10,000,000.00	
0.00	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	12,000,000.00	
0.00	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	10,000,000.00	
	<b>c) In Mutual Funds</b>		
1,000,000.00	LIC Liquid Plus Fund - Growth Option	7,100,000.00	
<b>97,687,701.32</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>121,621,179.00</b>

As at 31.03.09	Particulars	As at 31.03.10	As at 31.03.10
<b>SCHEDULE H</b>	<b>CASH AND BANK BALANCES</b>		
	<b>a) Cash Balances</b>		
6,002.60	Cash on Hand	5,800.00	
5,800.00	Cash (General)	583.16	
<u>11,802.60</u>			<u>6,383.16</u>
	<b>b) Bank Balances in Saving Account with</b>		
134,255.85	Bank of India, Nariman Point (A/c No. 4553)	8,312.85	
546.01	Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 57127)	4,994.01	
35,535.22	Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 56426)	1,508,982.22	
328,993.09	Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 2970)	3,533,837.11	
(202,378.31)	Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 2971) Book Overdraft	(937,835.51)	
0.00	Central Bank of India, Churchgate (A/c No. 9080)	0.00	
<u>296,951.86</u>			<u>4,118,290.68</u>
	<b>c) Bank Balances in Current Account with</b>		
9,199.00	Bank of India, D.N. Road, Fort (A/c No. 8725) (ASI - MMIB)	29,008.00	
<u>9,199.00</u>			<u>29,008.00</u>
<b>317,953.46</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>4,153,681.84</b>
<b>SCHEDULE I</b>	<b>SUNDRY DEBTORS</b>		
12,500.00	Cholamandalam MS General Insurance	0.00	
49.00	DTDC Worldwide Courier Services	0.00	
30,000.00	Darwin Rodes	25,400.00	
30,000.00	EMB Consultancy	60,000.00	
30,000.00	Newton Recruitment Ltd.	30,000.00	
30,000.00	RGA RE	0.00	
0.00	AIA Limited	30,000.00	
0.00	General Cologne Re	30,000.00	
0.00	National Insurance Academy	151,200.00	
1,687.00	Sri Lanka Insurance	0.00	
<u>134,236.00</u>	<b>Total Rs.</b>		<u>326,600.00</u>
<b>SCHEDULE J</b>	<b>LOANS &amp; ADVANCES</b>		
	<b>a) LOANS AND ADVANCES :</b>		
1,823,927.96	Interest on fixed deposit accrued but not due (with Banks)	4,387,137.65	
6,536,339.52	Interest on fixed deposit accrued but not due (with Public Corporation)	8,795,376.18	
1,979,983.18	Tax deducted at Source Recoverable	2,747,231.62	
	Assessment Year 2006-2007 (Rs. 1,27,439.20)		
	Assessment Year 2007-2008 (Rs. 3,88,806.55)		
	Assessment Year 2008-2009 (Rs. 6,42,158.30)		
	Assessment Year 2009-2010 (Rs. 5,43,485.13)		
	Assessment Year 2010-2011 (Rs. 10,45,342.44)		
	Tax deducted at Source Recoverable (Delhi Chapter)		
19,560.00	Telephone Deposit	14,540.00	
6,600.00	Electricity Deposit	66,600.00	
0.00	Audio Conference	0.00	
398,876.00	Prepaid Expenses.	253,703.08	
	<b>b) OTHER ADVANCES</b>		
0.00	Staff Loan	0.00	
<b>10,765,286.66</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>16,264,588.53</b>



SCHEDULE "F" FIXED ASSETS

SR. NO.	PARTICULARS	"RATE OF DEPRE. %"	GROSS BLOCK				DEPRECIATION			NET BLOCK	
			AS AT 01.04.2009	ADDITIONS DURING THE YEAR	SALE/ ADJUSTMENT	AS AT 31.03.2010	UP TO 01.04.2009	FOR THE YEAR	UP TO 31.03.2010	AS AT 31.03.2010	AS AT 31.03.2009
1	WATER PURIFIER	15	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00	4,591.76	1,033.50	5,625.26	1,264.74	2,298.24
2	AIR CONDITIONER	15	552,492.00	0.00	0.00	552,492.00	383,338.62	82,873.80	466,212.42	86,279.58	169,153.38
3	AUDIO CONFERENCING SYSTEM	15	43,450.00	0.00	0.00	43,450.00	43,450.00	0.00	43,450.00	0.00	0.00
4	CASH BOX	15	3,549.00	0.00	0.00	3,549.00	3,135.20	412.80	3,548.00	1.00	413.80
5	COMPUTER	60	653,678.00	1,039,557.00	0.00	1,693,235.00	528,783.00	377,938.62	906,721.62	786,513.38	124,895.00
6	COMPUTER PRINTER	60	133,369.00	26,500.00	0.00	159,869.00	129,309.00	7,910.04	137,219.04	22,649.96	4,060.00
7	EPBAX SYSTEM	15	26,773.00	0.00	0.00	26,773.00	26,772.00	0.00	26,772.00	1.00	1.00
8	EPBAX SYSTEM	15	168,480.00	0.00	0.00	168,480.00	16,127.08	25,272.00	41,399.08	127,080.92	152,352.92
9	ANSWERING MACHINE	15	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00	1,540.63	374.25	1,914.88	580.12	954.37
10	FURNITURE	15	2,544,395.16	0.00	0.00	2,544,395.16	1,475,968.27	381,659.27	1,857,627.54	686,767.62	1,068,426.89
11	FIRE EXTINGUISHER	15	7,987.00	0.00	0.00	7,987.00	1,444.22	1,198.05	2,642.27	5,344.73	6,542.78
12	SAFE LOCKER	15	23,335.00	0.00	0.00	23,335.00	6,662.00	3,500.25	10,162.25	13,172.75	16,673.00
13	WEIGHT MACHINE	15	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	855.77	506.25	1,362.02	2,012.98	2,519.23
	TOTAL		4,170,268.16	1,066,057.00	0.00	5,236,325.16	2,621,977.55	882,678.83	3,504,656.38	1,731,668.78	1,548,290.61
	COMPUTER SOFTWARE (WIP)		1,191,240.00	893,430.00	0.00	2,084,670.00	0.00	0.00	0.00	2,084,670.00	1,191,240.00
	TOTAL		5,361,508.16	1,959,487.00	0.00	7,320,995.16	2,621,977.55	882,678.83	3,504,656.38	3,816,338.78	2,739,530.61
	Previous Year		3,821,218.16	1,540,290.00	0.00	5,361,508.16	1,959,294.97	662,682.58	2,621,977.55	2,739,530.61	1,861,923.19

Previous Year Ended 31.03.09	Particulars	Current Year Ended 31.03.10	Current Year Ended 31.03.10
<b>SCHEDULE K</b>	<b>EXPENSES OF THE INSTITUTE</b>		
4,593,887.00	Salaries (Includes Bonus/Ex-grants/Gratuity/Leave encashment)	5,934,276.00	
109,154.00	Staff Welfare	94,440.00	
1,924,939.00	Office Rent	1,833,443.00	
706,399.00	Electricity Charges	629,313.00	
5,494,353.30	Examination Expenses	7,139,833.50	
4,027,560.37	Study Material Expenses	3,495,758.33	
1,688,261.00	Royalty to UK, London	3,598,025.59	
4,964,616.04	Seminar Expenses	5,101,528.80	
2,119,259.20	Actuary India Magazine Expenses	1,970,031.55	
1,039,222.30	Meeting Expenses	1,931,333.50	
41,273.00	Insurance Premium	46,767.65	
97,790.00	Legal & Professional Charges	121,730.00	
1,072,951.00	Printing and Stationary	829,841.00	
261,281.90	Printing of Actuarial Directory	0.00	
447,104.96	Postage, Courier & Telephone Charges	321,724.14	
24,938.00	Travelling & Conveyance	16,815.00	
146,607.00	Repairs & Maintenance	258,559.17	
87,984.71	Bank Charges	45,125.00	
342,969.99	Membership & Subscription Fees	386,974.47	
56,694.23	Office & General Exps.	67,367.09	
33,668.25	Election Charges	0.00	
23,161.00	Library Books & Periodical	3,354.00	
15,095.42	Sundry Balance Written Off	302,366.55	
<b>29,319,170.67</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>34,128,607.34</b>

Previous Year Ended 31.03.09	Particulars	Current Year Ended 31.03.10	Current Year Ended 31.03.10
<b>SCHEDULE I</b>	<b>INTEREST ALLOCATED TO SPECIFIC FUNDS</b>		
0.00	a) Prof. G.S. Diwan Memorial/Prize/Awards Fund (For Best Actuarial Paper & Subject SA2)	0.00	
18,757.60	b) Prof. (Late) G.S. Diwan 100th Birth Anniversary Memorial Edu. Fund (Donated by R.M. Mehta)	18,678.14	
17,017.84	c) Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Fund (For Research Project)	16,872.55	
15,729.10	d) Prof. G.S. Diwan Birth Cenetary Education Fund (For Subject CT8)	15,572.09	
1,402.41	e) K.R. Talpade Memorial Scholarship Endowment Fund (For Subject CT1))"	1,265.16	
3,665.34	f) H.V. Krishnamurthy Prize Fund (For Subject CT3)	3,548.66	
18,001.52	g) Shanti Trust Endowment Fund (For Best Research / Article by Member)"	17,315.17	
1,275.03	h) Atma Ram Scholarship Endowment Fund (For Subject CT5))	1,061.63	
1,938.82	i) Chhaju Ram Scholarship Endowment Fund (For Subject CT2)	1,781.44	
2,200.97	j) Parvati Devi Scholarship Endowment Fund (For Subject CT6)	2,045.98	
25,285.26	k) Canada Life Scholarship Endowment Fund (For Successful Associates & Fellows)	25,515.13	
9,090.01	l) K.A. Pandit Prize Fund (For Subject ST4)	8,822.64	
3,561.45	m) K.P. Sarma Prize Fund (For Subject CT4)	3,393.83	
2,871.64	n) Janardhan Pundlik Nerulkar Prize Fund (For Subject ST2)	2,547.75	
3,744.39	o) Prof. R.M. Joshi Prize Fund (For Subject CT7)	3,628.43	
3,004.23	p) J.R. Joshi Prize Fund (For Subject CA3)	3,050.42	
3,717.89	q) Peter Aker Prize Fund (For Subject ST3)	4,625.19	
1,536.25	r) Peter Aker Research Prize Fund (For Life Insurance)	1,550.22	
3,849.26	s) K.S. Gopalkrishnan & Liyaquat Khan Prize Fund (For Subject ST5)	3,634.25	
11,728.58	t) Swiss Re (Library Infrastructure)	11,835.21	
28,349.85	u) Standard Life Fund	28,607.57	
193,175.16	v) Prudential Corporation Asia Ltd Fund (Coaching Classes & Examiners Seminar)"	194,931.30	
1,132.17	w) HDFC (Actuarial Directory)	1,142.47	
86,494.38	x) CPD / Research Fund	87,280.69	
901,006.34	y) GCA & Research Fund	909,197.30	
940,562.56	z) Building Fund	1,641,871.35	
96,970.29	aa) LIC of India (Promotion & Prizes)	97,851.84	
4,120.91	ab) Late Meena Sidhwani Actuarial Education Fund	3,658.37	
33,165.03	ac) Swiss Re (Furniture)	33,466.53	
57,521.05	ad) Standard Life (Furniture)	58,043.97	
76,812.51	ae) ICICI	77,510.80	
5,599.79	af) Late R.M. Mehta Memorial Fund	5,650.70	
0.00	ag) Presidents Award for paper of Special significance at GCA	0.00	
10,832.17	ah) Late A S Gupta Prize Fund	10,330.64	
11,000.00	ai) Prof. G.S. Diwan Prize Memorial/Prize/Award Fund - SA2	15,725.00	
220,000.00	aj) Principal PNB Life Insurance Co. Ltd	205,000.00	
22,670.90	ak) Employees Relief Fund	22,877.01	
0.00	al) Kamal Kumar Noranglal Podar Prize Fund for ST5	3,813.70	
<b>2,837,790.71</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>3,543,703.13</b>

INTEREST PROVISION FOR PRIZES AND SCHOLARSHIP FUND(S)  
SCHEDULE I (a)

Prizes and Scholarship Funds	As on 01.04.09	Interest @ 10%	Addition during the year	Paid during the year	As on 31.03.10
Late Meena Sidhwani Actuarial Education Fund	36,583.71	3,658.37	0.00	5,000.00	35,242.08
Late R.M. Mehta Memorial Fund	56,506.98	5,650.70	0.00	0.00	62,157.68
Peter Aker's Research Fund for Life Insurance	15,502.16	1,550.22	0.00	0.00	17,052.38
Peter Akers Prize Fund	46,251.88	4,625.19	0.00	5,000.00	45,877.07
Principal PNB Life Insurance Co. Ltd	2,050,000.00	205,000.00	0.00	310,000.00	1,945,000.00
President's Award for Paper of Special Significance at GCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prof. G.S. Diwan Birth Centenary Education Fund	155,720.87	15,572.09	0.00	10,000.00	161,292.96
Prof. G.S. Diwan Prize Memorial/Prize/Award Fund	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
Prof. G.S. Diwan Prize Memorial/Prize/Award Fund - SA2	157,250.00	15,725.00	0.00	6,000.00	166,975.00
Prof. G.S. Diwan Memorial Scholarship Endowment	168,725.45	16,872.55	0.00	0.00	185,598.00
K.R. Talpade Memorial Scholarship Endowment	12,651.56	1,265.16	0.00	2,000.00	11,916.72
H.V. Krishnamurthy Prize Fund	35,486.64	3,548.66	0.00	2,000.00	37,035.30
Shanti Trust Endowment Fund	173,151.69	17,315.17	0.00	8,500.00	181,966.86
Atmaram Scholarship Endowment	10,616.25	1,061.63	18,500.00	2,000.00	28,177.88
Chhaju Ram Scholarship Endowment	17,814.41	1,781.44	12,400.00	2,000.00	29,995.85
Parvatidevi Scholarship Endowment	20,459.82	2,045.98	10,000.00	2,000.00	30,505.80
Canda Life Scholarship Fund	255,151.28	25,515.13	0.00	6,000.00	274,666.41
K.A. Pandit Memorial Prize Fund	88,226.43	8,822.64	0.00	5,000.00	92,049.07
K.P. Sarma Prize Fund	33,938.27	3,393.83	0.00	2,000.00	35,332.10
Janardhan Pundlik Nerurkar Prize Fund	25,477.47	2,547.75	35,000.00	5,000.00	58,025.22
Prof. R.M. Joshi Prize Fund	36,284.31	3,628.43	0.00	2,000.00	37,912.74
J.R. Joshi Prize Fund	30,504.23	3,050.42	0.00	3,000.00	30,554.65
Late G.S. Diwan 100th Birth Anniversary Memorial	186,781.37	18,678.14	0.00	0.00	205,459.51
K.S. Gopalkrishnan & Liyaquat Khan Prize Fund	36,342.54	3,634.25	0.00	3,000.00	36,976.79
Late A S Gupta Prize Fund	103,306.42	10,330.64	0.00	6,000.00	107,637.06
Kamat Kumar Noranglal Podar Prize Fund for STS	0.00	3,813.70	60,000.00	0.00	63,813.70
<b>Total</b>	<b>3,752,733.74</b>	<b>379,087.09</b>	<b>188,900.00</b>	<b>439,500.00</b>	<b>3,881,220.83</b>

**INTEREST PROVISION FOR EARMARKED ENDOWMENT FUND(S) :**  
**SCHEDULE L(b)**

Earmarked Endowment Fund	As on 01.04.09	Interest @ 10%	Addition during the year	Paid during the year	As on 31.03.10
Standard Life (Furniture)	580,439.66	58,043.97	0.00	0.00	638,483.63
Swiss Re (Furniture)	334,665.29	33,466.53	0.00	0.00	368,131.82
Swiss Re (Library Infrastructure)	118,352.06	11,835.21	0.00	0.00	130,187.27
Standard Life	286,075.73	28,607.57	0.00	0.00	314,683.30
Prudential Corporation Asia Ltd.	1,949,312.98	194,931.30	0.00	40,502.00	2,103,742.28
HDFC	11,424.67	1,142.47	0.00	0.00	12,567.14
CPD / Research	872,806.89	87,280.69	0.00	0.00	960,087.58
The Actuary India Magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GCA and Research	9,091,973.02	909,197.30	0.00	0.00	10,001,170.32
Building Fund	16,418,713.49	1,641,871.35	30,000,000.00	0.00	48,060,584.84
<b>Total</b>	<b>29,663,763.79</b>	<b>2,966,376.39</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>40,502.00</b>	<b>62,589,638.18</b>

**INTEREST PROVISION FOR EARMARKED ENDOWMENT FUND(S) :**  
**SCHEDULE L(c)**

Earmarked Endowment Fund	As on 01.04.09	Interest @ 10%	Addition during the year	Paid during the year	As on 31.03.10
LIC of India	978,518.35	97,851.84	0.00	0.00	1,076,370.19
ICICI	775,108.02	77,510.80	0.00	0.00	852,618.82
Employees Relief Fund	228,770.08	22,877.01	0.00	0.00	251,647.09
<b>Total</b>	<b>1,982,396.45</b>	<b>198,239.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,180,636.10</b>

Previous Year Ended 31.03.09	Particulars	Current Year Ended 31.03.10	Current Year Ended 31.03.10
<b>SCHEDULE M</b>	<b>PRIOR PERIOD ITEMS</b>		
55,915.00	Paid to RNIS College of Insurance at Delhi for May 2007 Examination		0.00
<u>55,915.00</u>	Diet (Total Honorarium Rs.75,915/- out of this Rs.20,000/- paid in advance)		<u>0.00</u>
	<b>Total Rs.</b>		
<b>SCHEDULE N</b>	<b>INVESTMENT INCOME</b>		
	<b>A) INTEREST ON SAVINGS BANK ACCOUNTS RECEIVED</b>		
2,015.00	Bank of India - D.N. Road - 56426	1,029.00	
272.00	Bank of India - D.N. Road - 57127	64.00	
938.00	Central Bank of India - Churchgate - 9080	0.00	
17,816.00	Bank of India - D.N. Road - 2970	8,026.00	
6,126.00	Bank of India - D.N. Road - 2971	7,956.00	
1,779.00	Bank of India - N.P. - 4553	1,707.00	
<u>28,946.00</u>	<b>Total Rs.</b>		<u>18,782.00</u>
	<b>B) INTEREST OF F.D. WITH BANKS RECEIVED</b>		
643,933.90	Bank of India	29,401.22	
1,445.41	Corporation Bank	0.00	
1,365.00	Central Bank of India (Churchgate)	0.00	
34,487.32	Axis Bank (P.M. Road, Fort)	47,174.00	
74,996.24	Kotak Mahindra Bank Ltd.	0.00	
606,739.00	DBS Bank Ltd.	338,343.00	
999,543.00	Barclays Bank	1,100,131.53	
33,575.34	Development Credit Bank	204,616.00	
9,883.56	IDBI Bank	620,235.00	
74,658.83	IndusInd Bank	39,738.47	
91,386.99	ING Vysya Bank	7,051.29	
27,500.00	Karnataka Bank	522,416.00	
51,277.00	State Bank of Bikaner & Jaipur (Nariman Point)	962,494.00	
211,124.00	State Bank of Bikaner & Jaipur (P.M. Road)	324,719.00	
183,528.00	State Bank of Hyderabad	71,968.00	
1,823,927.96	Accrued Interest	4,387,137.65	
<u>4,869,371.55</u>	<b>Total Rs.</b>		<u>8,655,425.16</u>
	<b>C) INTEREST/DIVIDEND FROM OTHER INVESTMENTS</b>		
6,886.00	UTI - ARS Bonds	0.00	
569,888.37	ICICI Home Finance Ltd.	1,247,015.29	
191,500.00	IDBI Bonds	133,422.00	
2,995,794.33	HDFC Ltd.	2,598,479.79	
11,150.00	Andhra Pradesh Power Finance Corporation Ltd.	0.00	
78,750.00	Gujarat Electricity Board	18,476.33	
142,053.21	Tamilnadu Power Finance Corporation Ltd.	156,908.00	
111,000.00	Kerala Power Finance Corporation Ltd.	0.00	
24,141.74	Div from HDFC Mutual Fund	0.00	
64,479.75	MMIC - On Fund Transfer During the Year	385,560.37	
123,952.70	LIC MF Income Plus Fund	233,823.05	
412,040.18	Franklin Templeton Mutual Fund	0.00	
337,282.08	ICICI Prudential Mutual Fund	0.00	
0.00	LIC Housing Finance Ltd	405,000.00	
0.00	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	543,687.70	
0.00	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	400,438.00	
<u>6,536,339.52</u>	Accrued Interest	8,795,376.18	
<u>11,605,257.88</u>			<u>14,918,186.71</u>
<u>16,503,575.43</u>	<b>Sub Total (A+B+C)</b>		<u>23,592,393.87</u>
<u>8,360,267.48</u>	<b>Less : Accrued Interest provided for the year</b>		<u>13,182,513.83</u>
<u>8,143,307.95</u>	<b>Total Rs.</b>		<u>10,409,880.04</u>

Previous Year Ended 31.03.09	Particulars	Current Year Ended 31.03.10	Current Year Ended 31.03.10
<b>SCHEDULE O</b>	<b>EDUCATIONAL SERVICES &amp; EXAMINATION FEES</b>		
12,568,525.00	Examination Fees	19,375,560.00	
16,539,015.35	Study Course and Tuition Material Fees	24,152,486.00	
5,000.00	Sale of Actuarial Directory / Student Hand Book	12,000.00	
268,700.00	Exemption Fees	330,500.00	
1,480,000.00	Actuary India Magazine Income	1,470,000.00	
<b>30,861,240.35</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>45,340,546.00</b>
<b>SCHEDULE P</b>	<b>MEMBERS CONTRIBUTION</b>		
1,144,125.00	Admission Fees	1,406,800.00	
3,316,324.00	Subscription Fees	5,828,498.00	
307,842.50	Penalty / Late Fees	435,495.10	
<b>4,768,291.50</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>7,670,793.10</b>
<b>SCHEDULE Q</b>	<b>SEMINARS FEES</b>		
10,020,718.00	On Global Conference of Actuaries	8,197,491.20	
680,000.00	On India Fellowship	630,000.00	
450,000.00	On Actuarial Health & General Insurance	567,470.00	
530,000.00	On Current Issues in Life Assurance	550,000.00	
964,500.00	On CA2 Modelling Training Programme	762,000.00	
801,500.00	On Business Awareness Module	1,319,500.00	
25,000.00	On Economic Capital on Life Insurance Industries in India	230,000.00	
185,000.00	On Retirement Benefits	0.00	
158,605.00	On Chartered Accountant Programme	0.00	
82,505.00	On Valuation of Policy Benefits	0.00	
<b>13,897,828.00</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>12,256,461.20</b>
<b>SCHEDULE R</b>	<b>OTHER INCOME</b>		
75,550.00	Postal charges received from Members	77,300.00	
1,200.00	Sale of Scrap	2,928.00	
67,984.00	Sundry Balance Written Back	128,345.00	
25,736.00	Other Income	3,329.00	
307,500.00	COP Fees (Renewal & New Issuance)	345,000.00	
<b>477,970.00</b>	<b>Total Rs.</b>		<b>556,902.00</b>

**SCHEDULE – S :****Significant Accounting Policies:****1. Accounting Convention :**

The accounts are drawn up on historical cost basis.

**2. Income from Interest :**

Interest on investments is accounted for on accrual basis at the rates applicable to such investments. Income from earmarked investments of specific funds is credited to the respective funds. The incomes from investment not earmarked are credited to Income and Expenditure Account.

**3. Investments :**

Investments are stated at cost.

**4. Fixed Assets and Depreciation :**

Fixed Assets are stated at their original cost. Depreciation is provided under straight line method for the year.

Type of Asset	Rate of Depreciation
Water Purifier	15%
Air Conditioner	15%
Audio Conferencing System	15%
Cash Box	15%
Computer	60%
Computer Printer	60%
EPBAX System	15%
Answering Machine	15%
Furniture	15%
Fire Extinguisher	15%
Safe Locker	15%
Weight Machine	15%

Advance of Rs.20,84,670/- paid for purchase of Computer Software is not capitalised during the year.

- Staffs are entitled to receive gratuity based on the Payment of Gratuity Act, 1972 and Provision is made on prorata basis based on Actuarial valuation for determining the Gratuity liability.
- Stock of Study Materials, Publications, and Stationery etc are written off in the year of purchase under respective expenses heads of accounts.
- Allocation of Investment Income has been done in the following manner as certified by the President and relied upon by the auditors.

A	=	Opening Balance as on 01-04-2009 of Investment (+) Opening Cash and Bank Balances as on 01-04-2009.
B	=	Closing Balance as on 31-03-2010 of Investment (+) Closing Cash and Bank Balances as on 31-03-2010.
I	=	Investment income during the year 2009-2010 (+) Accrued Interest for year ended 31-03-2010.
i	=	Interest rate for allocation of Investment Income to all funds.
i	=	$(2 \times I) / [(A+B) - I]$
A	=	90,269,125.78
B	=	119,328,522.84
I	=	10,000,047.23
(A+B)-I	=	199,597,601.39
i	=	10%

**N.B :** Interest rate for allocation of Investment income to funds is 10%.



## NOTES TO ACCOUNTS :

1. Previous year's figures have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.
2. Actuarial Society of India registered under Societies Registration Act, 1860 and the Bombay public Trust Act, 1950 was dissolved on 09-11-2006 and all the assets and liabilities of ASI were transferred to Institute of Actuaries of India as on 10-11-2006. The Actuaries Act, 2006 received the assent of President on 27-08-2006. The Central Government appointed 10-11-2006 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Banking and Insurance Division) Notification dated 08-11-2006.
3. Sundry Debtors shown under Schedule 'I' outstanding as on 31-03-2010 is Rs.3,26,600/-Total outstanding Rs.3,26,600/- since been received in F.Y.2010-2011.
4. Since, the certain funds namely Professor G. S. Diwan Memorial Price Award Fund [Schedule B(a)] have insufficient balance to make payment, the residuary expenses incurred from that specific funds are debited to General Reserve Fund account [Schedule A(b)]
5. Interest allocated during the year of Rs.8,04,909.89 (net) on IAI-MMIC (former name ASI-MMIB) is credited to IAI-MMIC account under schedule 'Ea' of the Balance Sheet.
6. Balance confirmation of accounts:  
  
Balance of Sundry Debtors, Loans and Advances and Current Liabilities as on 31-03-2010 are as per books of account and are subject to confirmation and reconciliation, if any.
7.
  - a) The erstwhile Actuarial Society of India has filed an application in Form No 56D for grant of exemption u/s 10(23C) (vi) of Income Tax Act, 1961 for A.Y. 2005-2006 to Asst.Year 2007-2008 on 30-03-2006 in the office of Director of Income-Tax (Exemption). Further, Institute of Actuaries of India had sought for exemption u/s 10(23A) of Income Tax Act, 1961 and filed the necessary Papers in this regard on 11-07-2007 to the Central Board of Direct Taxes, Govt. of India, North Block, New Delhi - 110 001. In view of this, no Provision of Income Tax is made in the accounts during the year under review.
  - b) The erstwhile Actuarial Society of India has received notice for revision u/s 263 of the Income Tax Act, 1961 during the F.Y.2008-09 for Asst. Year 2005-2006 against which an appeal has been preferred and the said appeal is pending before the Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai.

For Khandwala & Shah,  
Chartered Accountants,



PPREMAL P. GANDHI  
Partner  
Membership No.45462

For Institute of Actuaries of India



G. N. AGARWAL  
President



A.D. GUPTA  
Vice President



G.L.N. SARMA  
Hon. Secretary

PLACE : MUMBAI  
Date : 19 August 2010


## FINANCIAL REPORT OF MMIC

**Rajesh Lakshman & Associates**  
**Chartered Accountants**

302, 3rd Floor, Belveadar  
Commercial Complex,  
Chirag Ali Lane, Abids,  
Hyderabad - 500 001.

1. We have audited the attached Balance Sheet of Mortality & Morbidity Investigation Centre (a Unit of Institute of Actuaries of India) as at March 31, 2010. This financial statement is the responsibility of the Institute Management. Our responsibility is to expression on opinion on this financial statement based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements and free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. Based on our audit and the necessary explanations given to us we report as follows;
  - (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
  - (b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books.
  - (c) The Balance Sheet dealt with by this report is in agreement with the books of accounts.
  - (d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us we report that in the case of ;
    - (i) The Balance sheet, it gives a true and fair view of the state of affairs of the Centre as at March 31, 2010 in conformity with accounting principles generally accepted in India.
    - (ii) The Income & Expenditure account of the deficit for the period ended as at 31st March 2010.

**For Rajesh Lakshman & Associates**  
**Chartered Accountants**



**R. Lakshman Rao**  
**Partner**  
**Membership No. 207113**

**PLACE : HYDERABAD**  
**DATE : 30-04-2010**

[illegible]

**Read with Notes to accounts of even date  
For Rajesh Lakshman & Associates  
Chartered Accountants**

Valent

**R. Lakshman Rao**  
**Partner**

Membership No. 207113

**PLACE: Hyderabad**

DATE: 30.04.2010

**For Mortality And Morbidity Investigation Centre**  
(A unit of Institute of Actuaries of India)

Adm

**A. D. Gupta**  
**VICE PRESIDENT**

h2N5a

**G. L. N. Sarma**  
**HON. SECRETARY**

*[Signature]*

**K. P. Sarma**  
**Chief Executive Officer**

Mortality & Morbidity Investigation Centre (A Unit of Institute of Actuaries of India)										
SCHEDULE-2: FIXED ASSETS										
Particulars	Rate of Dep	Gross Block			Depreciation			Net Block		
		As at 01-04-09	More than 180 days	Less than 180 days	As at 31-03-2010	As at 01-04-09	For the year	As at 31-03-2010	As at 31-03-2009	
Air Conditioner	15 %	134,503	-	-	134,503	10,088	18,662	28,750	105,753	124,415
Computer	60 %	176,000	3,650	36,200	215,850	52,800	86,970	139,770	76,080	123,200
Furniture & Fixtures	10 %	36,748	-	-	36,748	2,756	3,399	6,155	30,593	33,992
Office Equipment	15 %	8,299	8,750	-	17,049	622	2,464	3,086	13,963	7,677
Softwares	60 %	458,645	-	533,148	991,793	137,594	352,575	490,169	501,624	321,052
Servers	15 %	-	1,548,573	-	1,548,573	-	232,286	232,286	1,316,287	-
		814,195	1,560,973	569,348	2,944,516	203,860	696,357	900,216	2,044,300	610,335

For Rajesh Lakshman & Associates  
Chartered Accountants



R. Lakshman Rao  
Partner  
Membership No. 207113  
PLACE : Hyderabad  
DATE : 30.04.2010

For Mortality And Morbidity Investigation Centre  
(A unit of Institute of Actuaries of India)



K. P. Sarma  
Chief Executive Officer

MORTALITY & MORBIDITY INVESTIGATION CENTRE (A UNIT OF INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA)		MORTALITY & MORBIDITY INVESTIGATION CENTRE (A UNIT OF INSTITUTE OF ACTUARIES OF INDIA)	
Schedules forming part of the Balance Sheet		Schedules forming part of Income & Expenditure Account	
	Amount (Rs.) 2009-10	Amount (Rs.) 2009-10	Amount (Rs.) 2008-09
<b>Schedule 1:</b>			
<b>CORPUS FUND</b>			
Opening balance	1,152,620	2,591,172	919,118
Add : Fund Received during the year	7,550,000	-	1,609
Less: Excess of Expenditure over Income	(3,989,081)	(1,438,552)	<u>920,727</u>
	<u>4,713,540</u>	<u>1,152,620</u>	
<b>SCHEDULE 3:</b>			
<b>CASH &amp; BANK BALANCES</b>			
Cash on Hand	2,704	4,362	16,760
Bank Balances			3,454
- In Current Account	2,008,034	205,128	
- In Fixed deposit Account	600,000	<u>209,490</u>	<u>245,429</u>
	<u>2,610,738</u>		<u>20,597</u>
<b>SCHEDULE 4:</b>			
<b>Loans and Advances</b>			
Other Advances	-	202,248	-
Rental Deposits	60,000	60,000	8,360
Prepaid Expenses	122,795	78,814	7,000
Prepaid Rent	11,000	10,000	16,545
Prepaid Additional AMC for servers	91,400	-	550
	<u>285,195</u>	<u>351,062</u>	<u>16,722</u>
<b>SCHEDULE 5:</b>			
<b>CURRENT LIABILITIES</b>			
Audit Fees Payable	24,817	16,545	-
HCL Infosystem Ltd.	192,808	-	15,565
Electricity Charges Payables	5,330	-	-
Telephone charges Payable	979	1,722	3,776
TDS on Brokerage	-	-	-
TDS On Professional	2,758	-	-
	<u>226,692</u>	<u>18,267</u>	<u>169,200</u>
			-
			2,180
			- 40,769
			<u>293,368</u>

## Significant Accounting Policies and Notes to the Accounts

## 1. Back Ground

Mortality & Morbidity Investigation Centre is a Unit of Institute of Actuaries of India, set up at Hyderabad Primarily to carry out research on the Mortality and Morbidity rates of policy holders in Life Insurance companies in India and Sri K. P. Sharma, Chief Executive Officer of the Unit a Actuary by profession is heading the research wing.

## 2. Basis of Accounting

The Financial statements of the unit are prepared under the historical cost convention in accordance with Generally Accepted Accounting Principles applicable in India.

## 3. Depreciation on Fixed Assets is provided on Written down Value basis at the rates and in the manner prescribed in Income Tax Rules.

## 4. Fixed Assets.

Fixed Assets are stated at their original cost of acquisition less accumulated depreciation.

## 5. Remuneration &amp; Salaries

Salaries and allowances

2009-2010

Rs. 23,45,986

2008-2009

Rs. 919,118

## 6. Auditors Remuneration

Audit Fees

Rs. 25,000

Rs. 15,000

Service Tax

Rs. 2,575


Rs. 1,545

## 7. Interest earned on the fixed deposits is shown as income of the Unit.

## 8. All the figures are expressed as Rupees and have been regrouped / reclassified wherever necessary.


For Rajesh Lakshman & Associates  
Chartered Accountants

For Mortality And Morbidity Investigation Centre  
(A unit of Institute of Actuaries of India)



R. Lakshman Rao  
Partner  
Officer  
Membership No. 207113


PLACE : Hyderabad  
Date : 30.04.2010




G. N. Agarwal  
PRESIDENT



A. D. Gupta  
VICE PRESIDENT



G. L. N. Sarma  
HON. SECRETARY



K. P. Sarma  
Chief Executive

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2010  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2010